

अजन्ता की ओर

ख्वाजा अहमद अब्बास



हिन्द किताब्स लिमिटेड
बम्बई

लेखक के अधिकार सुरक्षित हैं।

[कापीराइट १९४९]

मूल्य २।।)

प्रकाशक : हिन्दू किताब लिमिटेड, २६१-२६३ हार्नबी रोड, फोर्ट, बम्बई.

प्रिंटर : कन्हैयालाल शाह, ओरियंट प्रिंटिंग हाउस, नवीवाड़ी, बम्बई २.

श्री कृष्णदास
और
असकी सरोज
के नाम

लेखक की अन्य हिन्दी किताबें



१. अँधेरा और उजाला (उपन्यास)
२. मैं कौन हूँ ? (नाटक)
३. डॉ० कोटनीस (जीवनी)
४. इंकिलाब [छप रहा है ।] (उपन्यास)

सूची

			पृष्ठ
१. अजन्ता की ओर	१
२. जिंदगी	३१
३. ज्ञाफ़रान के फूल	६२
४. चढ़ाव-उतार	७६
५. एक पायली चावल	१०६
६. अबाबील	११६
७. मेमार	१२१
८. राधा	१२८
९. दारोया साहब	१४१

अजन्ता की ओर



“अजन्ता भारतीय कलाका सर्वश्रेष्ठ नमूना है।...दुनियामें इसका जवाब नहीं।...बड़े-बड़े अंगरेज और अमेरिकन यहाँ आकर दंग रह जाते हैं।...ये गुफाएँ डेढ़ हजार वर्ष पुरानी हैं। इनको खोदने, तराशने, इनमें मूर्तियाँ और तस्वीरें बनानेमें कम-से-कम आठ सौ वर्ष लगे होंगे।...महात्मा बुद्धकी इस मूर्तिको देखिए।”

सरकारी गाइडकी सँजी हुई आवाज़ गुफाकी ऊँची, पथरीली छतसे टकराकर गूँज रही थी। अडाइस रूपए मासिक वेतन और रूपया, डेढ़ रूपया रोजाना ‘बखशीश’ के बदले में वह अपना तोतेके समान रटा हुआ सबक दिनमें न जाने कितनी बार दुहराता था। निर्मलको उसकी आवाज़ ऐसी लगी, मानो रहट चल रहा हो, या चरखा या कोल्हू : लूँ, लूँ, लूँ, लूँ—एक व्यर्थ, निरर्थक आवाज़का ऐसा सिलसिला, जो समाप्त होनेमें ही न आता था।

भारती, जो कलाकी पुजारिन भी थी और स्वयं कलाका एक सुन्दर नमूना भी, गाइडके शब्दोंपर सिर धुन रही थी। हजारों वर्ष पुरानी कलाके इस अथाह सागरमें वह डूब जाना चाहती थी। प्रत्येक चित्र, प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक स्तम्भ, प्रत्येक मेहराब, प्रत्येक फूल और प्रत्येक पत्तीको देखकर उसके मुहसे प्रशंसाका स्रोत फूट निकलता था—“ओह, निर्मल, यह देखो...ओह, निर्मल, यह देखो...महात्मा बुद्धके चेहरेपर कितनी शांति है, और कैसा सुन्दर भाव व्यक्त हो रहा है!...इस अप्सराके

बालोंका सिंगार तो देखो !...कितना सुन्दर...वगडरफुल...”

निर्मल चुप था। वह न गाइडकी ‘रूँ-रूँ’ सुन रहा था, और न भारतीयके जोश-भरे प्रशंसाके वाक्य। उसकी निगाहें दीवारपर बनी हुई तस्वीरोंपर ज़रूर थीं, किन्तु उसे सिवाय धुँधले, रंगीन धब्बोंके कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा था। उसके कान गाइडके रटे हुए भाषणको सुन रहे थे, पर अब तक वह सिर्फ़ एक ऐसी आवाज़ थी, जो अर्थहीन हो, धीमे-धीमे शोरकी तरह, चरखे या कोल्हू या रइटकी ‘रूँ-रूँ’ की तरह। भारतीय जब बोलती, तब निर्मलको ऐसा लगता, मानो उसके कानोंपर कोई अप्रासंगिक या बिलकुल अनावश्यक चोट पड़ रही हो, मानो गर्मीकी दोपहरमें ताँबेकी भाँति तपता हुआ आकाश एक उड़ती हुई चीलकी भयानक चीत्कारसे गूँज उठा हो।

न जाने वे किस नम्बरको गुफ़ामें थे, न जाने वे किस चित्रके सामने खड़े हुए थे।

गाइडकी ‘रूँ-रूँ’ चली जा रही थी—“यह देखिए, एक पिछले जन्ममें सन्यासीके रूपमें महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। बनारसके राजाकी यह नर्तकी महात्मा बुद्धका उपदेश सुनती है। राजाको जब यह मालूम होता है, तो वह खुद जाकर सन्यासीसे सवाल-जवाब करता है—‘तुम कौन हो, और क्या उपदेश दे रहे हो?’ वे कहते हैं—‘मैं शांति और सत्यकी चर्चा कर रहा हूँ।’ राजा अपने जल्मादको हुक्म देता है, कि वह सन्यासीके हाथ, पाँव, नाक तलवारसे काट डाले। पर हर बार महात्मा बुद्धने यही कहा, ‘शांति और सत्य तो मेरे मनमें है। नाक, कान, हाथ, पाँव में नहीं है।’ यह देखिए उनके घावोंसे खून...”

खून !

गाइडकी बेमानी और खत्म न होनेवाली ‘रूँ-रूँ’ में से इस एक शब्दने निर्मलके दिमाग पर हथौड़ेकी भाँति एक चोट लगाई।

खून !

अजन्ताकी गुफाओंकी पथरीली दीवार एकाएक वायुमण्डलमें विलीन हो गई। अब वहाँ न मूर्तियाँ थीं, न तस्वीरें थीं, न खम्भे, न गाइड और न भारती। न हरी-भरी पहाड़ियाँ, न वह सुरीले शोरके साथ बहनेवाली नदी, न कला और न इतिहास, न धर्म और न मज़हब, न महात्मा बुद्ध और न बनारसका अत्याचारी राजा। बस, खून ! खून !

खूनकी नदियाँ, खूनके दरिया, खूनका समुद्र ! और उन खूनी लहरोंपर बहता हुआ निर्मल फिर बम्बई वापस पहुँच गया। वही खूनी बम्बई, जिससे भागकर उसने तीन सौ मील दूर और डेढ़ हजार वर्ष पुरानी गुफाओंमें शरण ली थी।

१ सितम्बर। शामको नित्यकी भौँति अपना काम खत्म करके वह अपने मित्र वसन्तके दफ़्तर गिरगाम गया था, कि दोनों साथही ट्रेनसे दादर जायेंगे। सहसा खबर आगई कि शहरमें हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया। काम छोड़कर हर कोई इस विषयपर रायज़नी करने लगा।

“तुम देखना, अबकी यह दंगा चन्द घण्टोंमें दब जाएगा। इस बार सरकारने पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं।”

“पर आज कैसे हो गया ? मुस्लिम लीग तो काले भण्डोंका प्रदर्शन कल करनेवाली है।”

“यह कलकत्तेकी खबरोंका असर है।”

“सुना है, कई हजार छुरे पकड़े गए हैं।”

“सुना है, गोलपीठापर पंडित जवाहरलाल नेहरूकी तस्वीरको एक मुसलमान पुराने जूतोंका हार पहना रहा था।”

“सुना है, भिंडीबाज़ारमें मुसलमानोंने कई हिन्दुओंको मार डाला।”

“पर तुम चिन्ता न करो। अबकी हिन्दू भी चुप बैठनेवाले नहीं हैं।”

इतनेमें एम्बुलेंस कारकी घण्टीकी आवाज़ आई, और सब खिड़कीकी तरफ भागे। सामने हर्किशनदास अस्पतालके फायरमें घायलोंकी मोटर दाखिल हो रही थी। एक गँठे हुए शरीरके राहगीरने जो मैली धोती,

४ ● अजन्ता की और

धारीदार क्रमीज और काली मराठा टोपी पहने हुए था, अस्पतालके दरवानसे पूछा—“ये कौन थे ? हिन्दू वा मुसलमान ?”

दरवानने, जो मोटरमें भाँक चुका था, जवाब दिया—“एक मुसलमान, दो हिन्दू ।”

और तुरन्त ही कोनेके हिन्दू होटलके सामने खड़े हुए गिरोहमें खुसुर-पुसुर शुरू हो गई ।

चरनी रोडकी सारी दूकानें बन्द हो चुकी थीं । होटल के सब द्वार बन्द थे । सिर्फ बीचवाले जंगलके दरवाजा आधा खुला था । ट्राम, देर हुई बन्द हो चुकी थी । सड़कपर सन्नाटा था । हाँ, ऊपरके तब्लोंसे लोग भाँक रहे थे । वायुमण्डलमें एक अजीब तनाव था, जैसे तना हुआ ढोल चोट पढ़नेकी राह देख रहा हो ।

एकाएक सेन्डहस्ट रोडके चौराहेकी तरफसे किसीके कदमोंकी चाप सुनाई दी । प्रत्येक ब्यवितकी निगाहें आवाजकी ओर धूम गई । एक दुबला-पतला-सा युवक कुरता-पायजामा पहने आ रहा था, बिलकुल बेफ्रिज, मानो शहरमें दंगा हुआ ही न हो ।

“सालेकी हिम्मत तो देखो !” होटलके सामने खड़े हुए गिरोह मेंसे एक आदमीने कहा और गठे हुए शरीरवाले आदमीका हाथ धारीदार क्रमीजके नीचे अपनी मैली धोतीकी तहोंमें न जाने क्या खोजने लगा ।

बेफ्रिज, दुबला-पतला नौजवान अब बसन्तके दफ्तरकी खिड़कीके नीचेसे गुजर रहा था । निर्मलने देखा, कि उसके मलमलके कुरतेमेंसे उसकी इड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं । सॉवला-सा रंग, छोटा-सा क्रद, किन्तु अन्ध्रा प्रतिभाशाली चेहरा । कोई क्लर्क या छात्र मालूम होता था । न जाने क्यों निर्मलका जो चाहा कि चिस्लाकर कहे—“भियाँ-भाई, ज़रा सँभलकर आगे जाना । बढ़ा खराब वक्रत है ।” पर उसके मुँहसे कोई आवाज न निकली और पलक मारतेमें उसने एक चमकीली छुरीको हवामें उछलते देखा ।

छुरी मृत तक दुबले-पतले नौजवानकी कमरमें उतर गई । उसके हाथ एक बार आप ही आप उठे, शायद वचाव करनेके लिए, किन्तु दूसरे ही क्षण वह चकराकर गिर पड़ा, और उसके मुँहसे एक कराहती हुई आवाज़ निकली, जो फ़रियाद भी थी और आखिरी हिचकी भी—“हाय भगवान् !”

और होटलके सामनेके मजमेमें एक खलबली-सी मच गई । “अरे, यह तो हिन्दू है, हिन्दू !”

“नहीं रे, साला बन रहा है ।”

“पायजामा पहने हिन्दू कैसे हो सकता है ?”

“सालेका पायजामा खोलकर देखो !”

छुरी अभीतक नौजवानकी कमरमें गड़ी हुई थी । पर उसकी परवाह न करते हुए कई आदमियोंने बढ़कर सिसकती हुई लाशको पलट दिया और एकने कमरबन्दकी डोरीको खींचकर, गिरह खोल दी ।

निर्मलकी आँखें शर्मसे बन्द हो गईं । उसे ऐसा मालूम हुआ मानो किसीने गन्दगीके ढेरमें उसका मुँह रगड़ दिया हो ।

जब उसने आँखें खोलीं तो हत्यारा लाशको फिर उलटकर घावमें से अपनी छुरी बाहर खींच रहा था । लोगोंकी तरफ़ देखकर उसने कहा—“यह तो गलती हो गई ।” और अपनी मैली धोतीमें से एक कतरन फाड़कर उससे छुरीका खून पोंछने लगा ।

छुरी जब घावमेंसे बाहर निकली, तो निर्मलने देखा, कि घावसे बियाह, गाढ़ा खून बह निकला और मृत युवक के कपड़ोंको रंगता हुआ सड़कपर फैल गया । खून... खून !

“खून-खराबे, दंगे, लड़ाईसे दूर यह कितनी सुन्दर और शांत दुनिया है, निर्मल !” भारतीने नमीसे, प्रेमसे निर्मलकी कमरपर हाथ रखते हुए कहा ।

ला फेंका । चौंकर उसने पूछा—“क्या ? क्या कहा तुमने, भारती !”

“मैं कह रही थी कि अजन्ताकी इन खामोश और शान्तिपूर्ण गुफा-ओमें हम बम्बई, कलकत्तेके खून-खराबे से कितनी दूर माखूम होते हैं । कई हजार वर्ष दूर ! यहाँ तुम ज़रूर उन भयानक दृश्योंको भूल सकोगे, जो तुमने बम्बईमें देखे हैं ।”

बेचारी भारती ! सुन्दर और सुन्दरताकी पुजारिणी भारती ! उसका हृदय प्रेमसे कितना परिपूर्ण था, और उसका मस्तिष्क समझ-बुझसे कितना खाली ! उसे निर्मलसे सचमुच प्रेम था, और वह उसे एक मिनटके लिए भी दुखी नहीं देख सकती थी । जिस दिन दंगा शुरू हुआ, उसके अगले दिन ही वह जान गई थी कि निर्मलका कोमल और भावुक मन इस खून-खराबेको सहन नहीं कर सकता । चरनीरोडके खूनके बाद, जिसे उसने अपनी आँखोंसे देखा था, निर्मलने तीन दिनतक खाना नहीं खाया, और न वह सो ही सका । उसको चुप-सी लग गई थी । उसके मन और मस्तिष्कपर एक अजीब उदासी छा गई थी । उसने किसीको इसका कारण न बताया था । उसके साथियोंने पूछा भी, तो उसने टाल दिया । पर भारतीसे वह हर बात कह देता था । उसकी गोदमें सिर रखकर निर्मलने उस खुनी घटना का हाल पूरे विस्तारसे सुना दिया, और अन्तमें कहने लगा—“उस दुबले-पतले युवककी सूरत अब भी मेरी आँखोंके सामने फिरती है, भारती । उसकी आखिरी चीख अब भी मेरे कानोंमें गूँज रही है । उसने मेरी नींद उड़ा दी है । रातको सोता भी हूँ, तो स्वप्नमें देखता हूँ, कि मैं खूनके समुद्रमें डूब रहा हूँ और कोई मेरी मदद नहीं करता !” और उसके सुँवरियाले बालोंमें अपनी मुलायम उँगलियोंसे कंधी करते हुए भारतीने कहा था—“बेचारा निर्मल !” अपने प्रेम, अपनी बातों, सिनेमा, ग्रामो-फोन, रेडियो, किस-किस तरह उसने अपने मित्रके दिलसे इस घटनाको सुलानेकी चेष्टा की थी, किन्तु वह असफल रही । निर्मलकी प्रफुल्लता, उसकी हास्यप्रियता, उसकी हाज़िर-जवाबी जैसे सदाके लिए गायब हो गई

थी। वह जब कभी भी भारतीसे मिलने आता, तो घंटों चुपचाप बैठा रहता और उसकी घबराई हुई आँखें टिकटिकी बाँधे आयुर्मंडलमें न जाने क्या देखती रहतीं।

वह कहती—“मैं जानती हूँ, निर्मल, कि तुम्हारे भावुक मनको कितनी गहरी चोट पहुँची है। लेकिन भगवानके लिए अपने आपको सँभालो और इस घटनाको भुलानेकी कोशिश करो !”

वह जवाब देता—“हाँ, भूल ही जाना चाहिए।” और वह सोचता, “कौन-कौन-सी घटना भुलानेकी चेष्टा करूँ ?”

निर्मल कुमार एक भावुक कवि और साहित्यकार था। उसकी कविताएँ, उसके लेख और उसकी कहानियाँ देशकी चोटीकी पत्रिकाओंमें छपती थीं, और उसके लेखोंके लिए पत्र-सम्पादक लालायित रहते थे। धनी पिताकी पुत्री भारती उसके इन्हीं गुणोंकी प्रशंसक और प्रेमी थी। उसका बस चलता, तो निर्मलके लिए किसी पहाड़की चोटीपर एक सुन्दर बंगला बनवा देती, जहाँ वह आरामसे अपनी रचनाओं-द्वारा साहित्यका भंडार भरता रहता। पर वह तो एक दैनिक पत्रमें रिपोर्टर था। भारती अक्सर कहती कि उस जैसे साहित्यकारके लिए पत्रकारीका पेशा अपनाना उसका स्वयं अपने ऊपर भी जुल्म है और साहित्यपर भी। पर निर्मल कहता, कि आधुनिक कालमें भारतमें साहित्य-रचना सिर्फ़ दिमागी ऐयाशी है और लिखनेवालोंके लिए पत्रकारी ही पेट पालनेका एक साधन हो सकता है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टरके रूपमें वह जीवनके नाटकीय दृश्योंको भी देख सकता है। अदालतके मुकदमों, थाना-कोतवालीकी वारदातों, मजदूरोंकी हड़तालों, जलसों और जुलूसोंमें उसको मानव-चरित्रका अध्ययन करनेका अवसर मिलता और यही अध्ययन उसकी रचनाओंके साँचेमें ढलकर ऐसे लेख, ऐसी कहानियाँ और कविताएँ बन जाते थे, जिनमें जीवनकी सत्यता, जीवनकी तड़प और ज़िन्दगीकी रूह नज़र आती थी।

रिपोर्टरके रूपमें निर्मलको दंगेके दिनोंमें भी सारे शहरमें घूमना पड़ता

था। सेन्ट्रल रोड, भिन्डी बाज़ार, पायधुनी, भायखला, परेल, दादर, सारा नगर युद्ध-क्षेत्र बना हुआ था। हर मोर्चेपर खून और कलकली घटना हो रही थीं। यहाँ एक मुसलमान डबलरोटीवाला मारा गया, वहाँ एक हिन्दू दूधवालेको किसी मुसलमानने छुरा भोंक दिया। यहाँ एक पठानका खून हुआ, वहाँ एक पूरबी भैया मार डाला गया। यहाँ एक दस वर्षके बालकको किसीने काट डाला, वहाँ एक ग्यारह वर्षके बच्चेने एक राह चलते आदमी-की पसलियोंमें चाकू भोंक दिया।

सारा नगर 'हिन्दू बम्बई' और 'मुसलमान बम्बई' में बँट गया। किसी हिन्दूको साहस नहीं था कि भिन्डी बाजारमें क्रदम रख सके, किसी मुसलमानकी हिम्मत न थी कि पायधुनीसे गुज़र सके। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान कायम हो गए थे। निर्मल और दूसरे रिपोर्टरोंको अक्सर पुलिस या फौजके साथ लारियोंमें घूमना पड़ता था। एक दिन एक गोरे सार्जटने निर्मलसे कहा—“तुम कांग्रेसी पाकिस्तान नहीं चाहते, फिर भी इस वक़्त बम्बईमें पाकिस्तान कायम है या नहीं ?” अगले दिन एक अंगरेज़ टामीने निर्मल और उसके साथी रिपोर्टरोंसे कहा—“तुम लोग तो 'क्विट इन्डिया' का नारा लगाते थे न ? हमसे कहते थे, 'निकल जाओ ! हिन्दुस्तान छोड़ दो !' अब हम छोड़ने को तैयार हैं, तो क्यों हमारी खुशामद करते हो ? क्यों हमारे पीछे-पीछे भागते हो ? क्यों हमसे अपने बचावकी माँग करते हो ? हिन्दू कहते हैं, 'हमें मुसलमानोंसे बचाओ !' मुसलमान कहते हैं, 'हमें हिन्दुओंसे बचाओ !' दोनों हमारी तोपों, हमारी बन्दकों, हमारे सिपाहियोंके सहताज हैं। दोनों कहते हैं, 'डॉट क्विट ?' और निर्मलको ऐसा लगा, मानों हिन्दुस्तानकी आज़ादीका महल अड़ाड़ा-धम्म करके गिर पड़ा हो। मानों पिछले सौ वर्षोंकी सारी राष्ट्रीय परम्पराएँ स्वतंत्रताके लिए हुई सारी कोशिशें मिट्टी में मिल गई हों—असहयोग और खिल्लाफ़त आन्दोलन, स्वदेशी और बायकाटके सारे आन्दोलन, जलियाँवाला बाग़की कुरबानियाँ, गांधीजी और अली बन्धु, भगतसिंह, सत्याग्रह और सिविल नाफ़रमानी, तमाम

राष्ट्रीय धारे और राष्ट्रीय गीत, भारतकी एकता और भारतकी प्रतिष्ठा और मर्यादा, कला और साहित्य, संगीत और चित्रकला, हर चीज़ मिट्टीमें मिल गई हो.....

“मिट्टीमें मिलकर भी इस कुन्दनकी चमक नहीं गई !” गाइड बक रहा था ।

“अज्ञानता भारतकी कला, साहित्य, संगीत और चित्रकलाकी अमर कीर्ति है ।” भारती कह रही थी ।

पर निर्मलको उस अँधेरी गुफामें, बिजलीके पीले-पीले प्रकाशके घेरेमें भी फीके-फीके रंगके चन्द अर्थ-हीन धब्बोंके सिवाय कुछ न दिखाई पड़ा । न सौन्दर्य, न कला, न अर्थ, न उद्देश्य । उसका मन वहाँकी कला और सौन्दर्यसे प्रभावित होनेके स्थानपर एक गहरे गुस्से, एक अथाह घृणासे भरा हुआ था । उसका बस चलता, तो वह चिल्ला उठता—“यह सब क्यों ?... यह हजारों आदमियोंकी हजारों वर्षकी मेहनत क्यों ? और किस-लिए... ये पहाड़की गोदमें तराशी हुई गुफाएँ, ये मूर्तियाँ, ये चित्र, यह कला, यह चित्रकारी क्यों, और किसलिए ?... बेकार है ये सब ! यह सारा परिश्रम व्यर्थ था ! संसारके लाखों वर्षके विकासमें एक व्यर्थ और हास्यास्पद क्षण ! अच्छा होता कि इतना परिश्रम पत्थरोंमें फूल तराशनेके स्थानपर मनुष्यको मनुष्य बनानेमें खर्च किया जाता, ताकि आज वे एक दूसरेका खून न करते होते ।... अज्ञानतासे हिन्दुस्तानने न कुछ सीखा और न कुछ सीखेगा । ये गुफाएँ संसारसे, वास्तविकतासे, सत्यसे और कर्मसे भागनेके लिए बनाई गई हैं । अज्ञानता न केवल बेकार है, बल्कि एक ज़बर्दस्त झूठ है, धोखा है, फरेब है !”

गाइड निर्मलकी भयंकर विचार-धारासे बेखबर अपनी ‘रू-रू’ लगाए था—“यह देखिए, महात्मा बुद्ध घोड़े पर चढ़े बाजारमेंसे गुज़र रहे हैं । चेहरेपर कितनी शान्ति है !... और यह देखिए ! ये स्त्रियाँ अपने-अपने झरोखोंसे कितनी भद्रा औ भक्तिपूर्णा निगाहोंसे देख रही हैं !”

और भारती कह रही थी—“निर्मल, देखो, इन स्त्रियोंके चेहरोंपर कितना सुन्दर श्रद्धाका भाव है। सच तो यह है कि भारतीय नारियोंकी वास्तविक प्रकृति, उनकी आत्माकी शान्तता, उनकी कोमलता और उनकी ममताको कुछ अजन्ताके कलाकार ही समझे हैं।”

भारतीय नारियोंकी वास्तविक प्रकृति, उनकी आत्माकी शान्तता, उनकी कोमलता, उनकी ममता !

निर्मलका जी चाहा, कि ठहाका मारकर इतने जोरसे हँसे कि गुफाओं की पथरीली दीवारें काँप उठें, ये चट्टानें थर्रा जायँ, यह गुफाओंका खिलसिला उसके घृणाके नारे से गूँज उठे।

भारतीय नारियोंकी वास्तविक प्रकृति, उनकी आत्माकी शान्तता ! उनकी कोमलता ! उनकी ममता !

भूठ ! सरासर भूठ ! घोखा ! फरेब !

निर्मल न कम्युनिस्ट था, न कम्युनिस्टोंसे हमदर्दी रखता था। पर एक दिन वह कम्युनिस्ट पार्टीके सेक्रेटरी पूर्णचन्द्र जोशीका वयान लेने गया था, कि एकाएक सड़ककी ओर से कुछ शोरकी आवाज़ आई, और सब खिड़कियोंकी ओर दौड़ पड़े। भौंककर देखा, तो एक बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला मुसलमान अपने खूनमें लथपथ सड़कके बीचोंबीच पड़ा आखिरी साँस ले रहा था। साथके मकानकी बालकनीपर और उसके नीचेके द्वारपर मराठी स्त्रियोंका एक गिरोह लड़ा हँस रहा था, मानो कोई बहुत दिलचस्प और मजेदार तमाशा हो रहा हो !

भारतीय नारियोंकी वास्तविक प्रकृति ! उनकी आत्माकी शान्तता ! उनकी कोमलता ! उनकी ममता !

एक रेडक्रासकी मोटर आई और बूढ़े मुसलमानकी लाशको उठाकर ले गई। सामनेवाले मकानसे एक मराठा स्त्री बावटी हाथ में लटकाए निकली, और जहाँ बूढ़ेका खून गिरा था, वहाँ निहायत इतमीनानसे पानी बहाकर सड़कको धो गई। कई दिन तक निर्मलके कानोंमें उन स्त्रियोंके

उहाके एक भयानक शोर बनकर गूँजते रहे, और उसकी आँखोंके सामने उस बूढ़की सफ़ेद दाढ़ी, जो स्वयं उसके अपने खूनसे रंग गई थी, एक भयानक बवंडर बनकर फड़फड़ाती रही, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि सारे भारतकी स्त्रियाँ किसी ऐसे भयंकर खूनी मज़ाक़पर हँस रही हैं जो उसकी समझसे बाहर है !

भारतीय नारियोंकी वास्तविक प्रकृति ! उनकी आत्माकी शान्तता ! उनकी कोमलता ! उनकी ममता !

निर्मल के बहुतसे मित्र मुसलमान थे, किन्तु दंगेके दिनोंमें वह उनके मुहल्लोंमें नहीं जा सकता था । एक दिन उसे मालूम हुआ कि उसके साथी रिपोर्टर और मित्र हनीफ़को सख्त बुखार और सरसाम हुआ है । निर्मलसे न रहा गया और वह हिम्मत करके भिन्डी बाज़ार पहुँच ही गया, जहाँ एक चालमें हनीफ़ अकेला रहता था ।

क्राफोर्ड मार्केटपर सिबाय निर्मलके सारे हिन्दू बससे उतर गए । वह कोट-पतलून पहने हुए था और उसकी वेश-भूषासे यह बिलकुल पता न चलता था कि वह हिन्दू है या मुसलमान या ईसाई । रंग गोरा होनेके कारण तो वह पारसी ही दिखाई पड़ता था, किन्तु फिर भी जैसे-जैसे वस बम्बईके 'पाकिस्तानी' इलाकेमें जा रही थी, उसका हृदय भय और परेशानीसे घड़क रहा था । एक बार तो उसे ऐसा लगा कि उसके बराबर बैठा हुआ हृष्ट-कष्ट गुन्डानुमा मुसलमान युवक उसके हृदयकी घड़कन सुनकर समझ जाएगा कि यह हिन्दू है और अपनी जाकेटमेंसे छुरा निकालकर उसकी कमरमें भोंक देगा, उसी प्रकार, जैसे चरनी रोडपर उस दुबले-पतले युवकको एक हिन्दू गुंडेने 'गलती' से मार डाला था । और एकाएक न जाने क्यों उसकी कमरमें, रीढ़की हड्डीके पास, खुजली-सी महसूस होने लगी, और एक काल्पनिक चाकूका तेज़ फल उसकी पसलियों में जैसे धँसता चला गया ।

बाटलीवाला अस्पतालके पास वह बससे उतरकर पट्टी-पट्टी चला,

तो उसे चारों तरफ हत्यारे-ही-हत्यारे दिखाई पड़े। वह छाबड़ीवाला, जा केले और नोसभिन्यों बेच रहा था, न जाने वह किस समय अपना तरकारी काटनेवाला चाकू एक हिन्दूकी कमरमें भोंक देगा। और वह लाल दाढ़ीवाला क्रूर पठान तो ज़रूर एक 'काफ़िर बच्चे' की तलाशमें होगा। पीछेसे पथरीली सड़कर 'खट-खट' की आवाज़ सुनाई दी, जैसे चलनेमें पैरोंकी होती है। निर्मलने घबराकर, घूमकर देखा। कोई बुर्का ओढ़े हुए स्त्री चली आ रही थी। एक क्षणके लिए उसने सन्तोषकी साँस ली ही थी कि एकाएक उसे ध्यान आया, कि इस बुर्केमें कोई 'गुंडा' ही न छिपा हो। और वह क्ररीब-क्ररीब दौड़ता हुआ हनीफ़की चालकी सीढ़ियोंपर चढ़ गया।

हनीफ़ सरसामके जोरके कारण बेहोश पड़ा था। निर्मलको उसके पास शाम तक टहरना पड़ा। जब हनीफ़की हालत कुछ ठीक हुई और उसने वापस जानेका इरादा किया, तो उसी समय एक पुलिस लारीपर एक आदमी लाउडस्पीकर द्वारा यह ऐलान करता हुआ वहाँसे गुज़रा कि शामके पाँच बजेसे कई इलाकोंमें कर्फ्यू-आर्डर लगा दिया गया है। कोई घरसे न निकले, क्योंकि गश्त करनेवाले फौजियोंको राह चलते लोगोंपर गोली चला देनेका हुक्म दे दिया गया है। निर्मलने घड़ी देखी। पाँच बजेनेमें दस मिनट बाकी थे। इतनी देरमें शिवाजी पार्क पहुँचना असम्भव था। लाचार हो उसने रात हनीफ़के कमरेमें ही बितानेका निश्चय कर लिया।

हनीफ़का कमरा किनारेपर था। एक खिड़कीसे बड़ी सड़क दिखाई पड़ती थी। दूसरी एक गलीमें खुलती थी। सड़कपर भगदड़ मची हुई थी। हर आदमी जल्दी-से-जल्दी अपने घर पहुँचनेकी फ़िक्रमें था। निर्मलने देखा कि एक पूरबी 'दूध-भैया' जिसकी लम्बी चोटी दूर हीसे पुकारकर कहती थी, कि मैं हिन्दू हूँ, कन्धेपर बहँगी रखके जिसपर दूधकी मटकियाँ रखी थीं, घबराई हुई नज़रोंसे इधर-उधर, आगे-पीछे देखता

हुआ चला आ रहा है। और उस चरनी रोडवाली घटनाकी तरह फिर निर्मलके जीमें एकदम आया, कि चिब्लाकर 'दूध-भैया' को खतरसे सूचित कर दे। किन्तु इस बार फिर शब्द उसकी जवानपर आकर रह गए। और देखते-ही-देखते तीन तगड़े तहमतबन्द जवानोंने उस दुधली-पतले काले पुरबीको घेर लिया।

“कहाँ जाता है बे, काफ़िरके बच्चे ?”

‘दूध-भैया’ की विग्वी बँध गई। उससे कोई जवाब न बन पड़ा। शायद उसे तीनोंकी आँखोंमें अपनी मौत दिखाई पड़ी। वह वापस मुह्रा। उधर भी दुश्मनोंका एक गिरोह खड़ा हुआ उसकी ओर हथ-रोकी नजरोंसे घूर रहा था। एक हिरनकी तरह जो हर तरफ़ शिकारियोंसे घिर गया हो, उसने एक क्षणके लिए निराश दृष्टिसे इधर-उधर देखा और फिर एकाएक वह एक गलीकी ओर भागा और उसका पीछा करते हुए पाँच शिकारी कुत्ते !

निर्मल भागकर गलीवाली खिड़कीकी ओर गया। पर अभी वह उधर पहुँच भी न पाया था कि ‘दूध-भैया’ के स्वयं अपनी बहँगीमें उलझकर गिरनेकी आवाज़ आई। पीतलकी मटकियाँ एक भंकारके साथ सड़कपर औंधी हो गईं और उनका दूध एक श्वेत नहर बनकर बह निकला। निर्मलने खिड़कीसे देखा, तो उस सफेद दूधमें पुरबी भैयाका लाल खन मिल चुका था।

“भागकर जा रहा था, साला !”

और फिर निर्मलको बराबरके कमरेसे किसी स्त्रीके हँसनेकी आवाज़ सुनाई दी। फिर वह स्त्री कहने लगी—“अरी, ओ गुलबानो, देख तो सही। एक काफ़िर हमारी गलीमें मारा गया है !” उसके कहनेका टंग बिलकुल वैसा ही था, मानो यह कह रही हो—“ओ गुलबानो, मुबारक हो ! हमारी गलीवालोंने आज कितनी बहादुरीका काम किया है !”... और फिर तीन-चार जवान, अघेड़, बूढ़ी स्त्रियोंकी खुशीसे भरी हुई आवाज़ें आईं—“अरी इसकी चुटैया तो देख !”

“अच्छा हुआ । ये पुरबिये दूधमें बराबरका पानी मिलाते हैं । अब सजा मिली है !”

“शिरगाममें जो मुसलमान मारे गए हैं, हमारे आदमी भी उनमेंसे एक-एकका बदला लेंगे !”

और फिर उन्हींमें से कोई औरत अन्दर गई और घर-भरका कूड़ा, तरकारीके छिलके, अन्डोंके खोल, गोशतके छीछड़े और हड्डियाँ, गलीमें लौट दिया—ठीक उसी जगह, जहाँ मक्खियोंने पूरबी भैयाके दूध और खनपर भिन-भिनाना शुरू कर दिया था ।

भारतीय नारियों की वास्तविक प्रकृति ! उनकी आत्मा की शान्तता ! उनकी कोमलता ! उनकी ममता !

सेन्डहस्ट रोडवाली स्त्रियों और भिन्डी बाज़ारवाली स्त्रियोंके खनी ठहाके मिलकर निर्मलके मस्तिष्कपर एक भयानक गूँज बनकर छाए हुए थे । वही गूँज अबतक उसे अजन्ताकी उन गुफाओंमें भी सुनाई दे रही थी । कुँघली फीकी तस्वीरोंमें उसे हर देवी, हर अप्सरा, हर राज-नर्तकी, हर नारीके चेहरेपर एक शैतानी खुशी और उसकी आँखों में एक कातिलाना चमक दिखाई पड़ी, और निर्मल का मन एक गहरी नफ़रतसे भर गया ।... मैं हर स्त्री से नफ़रत करता हूँ !—वह सोच रहा था—‘हर स्त्री से यहाँ तक कि भारतीसे भी !’—भारती, जो उससे प्यार करती थी, और जिससे बहुत दिनोंसे वह भी प्रेम करता था । भारती, जो निर्मलको और उसके मातृक स्वभावको अपने धनकी शरणमें रखना चाहती थी, जो बम्बई और उसकी खैरेजीसे बचाकर निर्मलको क़रीब-क़रीब ज़बरदस्ती भगाकर अजन्ता ले आई थी ।

प्रेम, नफ़रत...नफ़रत, प्रेम ।...हम भाई-भाई हैं, हम प्रेमी-प्रेमिका हैं, हम दोस्त और साथी हैं, हम एक-दूसरेके साथ प्रेमके बन्धनमें बँधे हैं; मगर हम एक-दूसरे से घृणा करते हैं, हम एक-दूसरेकी कमरमें छुरा भोंकते हैं, हम एक-दूसरेपर पत्थर फेंकते हैं, एक-दूसरेका खून बहाते हैं, एक-दूसरेका

गला काटते हैं ।

“देखिए, ये लाशें देखिए, सिर अलग और घड़ ऋलग !” गाइड अपनी ‘हैं-हैं’ किए जा रहा था । बोलते-बोलते उसको पसीना आ गया था, पर उसकी आवाज़ नहीं थकती थी । और भारती, कोमलांगी, सौंदर्य-प्रेमी, भावुक, सहृदय भारतीके चेहरेका रंग गुफ्राकी दीवारपर तस्वीर ही में लाशें देखकर उड़ा जा रहा था ।

“उस ज़ालिम राजाने सबको क़त्ल करा दिया है । सिर कटवाकर लाशें इस गढ़देमें फेंकवा दी हैं । चीलों, गिद्धोंके खानेके लिए...”

और निर्मलके मस्तिष्कमें यह विचार रेंगता हुआ चला गया कि वास्तवमें राजा ज़ालिम नहीं था, बल्कि शायद उसे गिद्धों, चीलोंका बड़ा खयाल था । उनका पेट भरनेके लिए उसने इन सब लोगोंको मरवाकर उनकी लाशें यहाँ डलवाई थीं । उनके जुल्ममें कम-से-कम मुर्दाखोर जान-चरोंका तो भला था ।

लाशें !...

सत्ताइस ठंडी, बिगड़ी, काली और नीली लाशें जो ठंडे पत्थरके फर्शपर इस प्रकार बिखरी पड़ी थीं, जैसे फसिल कटनेके समय किसी किसान ने गेहूँकी बालें काटकर खेतमें छोड़ दी हों ।

जैसे कसाईने सत्ताईस बकरों को उनकी खालें उतारकर एक पंक्तिमें रख दिया हो ।...

सत्ताइस इन्सानो लाशें बिखरी पड़ी थीं ।

निर्मल अखबारके लिए रिपोर्ट लेने अस्पताल गया था, वहाँ उसने पता खगाया कि किस कमरेमें दंगेसे मरनेवालोंकी लाशें ‘पोस्ट मार्टम’ और ‘कोरोनर’ के फ़ैसले के लिए रक्ली गई हैं । उसने अपने जीवनमें सिर्फ़ एक बार एक लाश मेडिकल कॉलेजके सर्जरी-वार्डमें रक्ली हुई देखी थी । उस समय तीन वक़्त तक उससे भोजन नहीं किया गया था । मगर व्यक्तिकी फ़टी-फ़टी, मुर्दा आँखें उसका पीछा करती रही थीं । पर यहाँ एक लाश

नहीं, सत्ताइस लारें रखी थीं। बड़े, जवान, बच्चे, सूखे हुए शरीर। किसीकी कमरमें बांध, किसीकी आँत पेटसे बाहर निकली हुई, किसीके घड़ से सिर अलग रखी हुआ, किसीका भेजा फटे हुए सिरसे बाहर उबलता हुआ। उनमें कौन हिन्दू था और कौन मुसलमान? मौतकी बिरादरीमें सब एक थे। कातिलकी छुरीने सबको बराबर ला लिटाया था। वह ठण्डा पथरीला फर्श। यह था उनका 'पाकिस्तान' और उनका 'हिन्दुस्तान'। यह बेकार मौत, ये पथराई हुई आँखें, यह सन्नाटा, यह बेचारगी। यह थी उनकी आजादी। यह था उनका इस्लाम, और यह था उनका धर्म। जय-जय महादेव ! अल्लाहो अक्रबर !

निर्मल व्यवहारिक राजनीतिसे हमेशा दूर भागता था। पत्रकारीके काम के अतिरिक्त, जो वह पेटकी खातिर करता था, वह अमलके मैदानका घनी नहीं था। उसकी दुनिया विचारों और भावनाओं की दुनिया थी। फिर भी दंगे शुरू होनेके तीसरे दिन ही वह अपने मुहल्लेके शान्तिदलमें शामिल हो गया था। और शायद इसलिए कि उसका सम्बन्ध एक बड़े दैनिक पत्र से था, और शान्तिदल हो, सेवासमाज हो या कोई भी संस्था हो, हर सार्वजनिक संस्थाको 'पब्लिसिटी' की जरूरत होती है, उसको 'कमेटी' का सदस्य भी चुन लिया गया था। निर्मलका मित्र और पड़ोसी अहमद, जो एक-दूसरे अखबारका सहकारी सम्पादक था, वह भी कमेटीका सदस्य चुन लिया गया था, क्योंकि शिवाजी पार्कके सारे इलाकेमें वह अकेला मुसलमान था, जो शान्तिदलमें सम्मिलित हुआ था। ऐसी कमेटियाँ सरकार द्वारा उस समय तक स्वीकृत नहीं हो सकतीं, जबतक उनमें सब सम्प्रदायोंके लोग मौजूद न हों, इसलिए कमेटीमें उसका लिया जाना एक तरहसे आवश्यक ही था।

कुछ दिनतक निर्मल शान्तिदलके संगठनके काममें लगा रहा। उसे ऐसा लगा, मानो दंगेके असरसे उसपर जो एक सुस्ती और घुंटे-घुंटे गम और विवशताकी हालत छा गई थी, वह अब जाती रहेगी। शान्तिदलमें सम्मिलित होकर उसको वही अलौकिक आनन्द प्राप्त हुआ, जो एक सिपाहीको

युद्धका विगुल सुनकर होता है। यह युद्ध अन्धकार और प्रकाशके बीच था, विध्वंस और निर्माणके बीच। वह इस युद्धमें एक सिपाही था। वह पैशाचिकता और बर्बताके विरुद्ध धर्मयुद्धमें लगा था। मुमकिन है, वह इस लड़ाई में कोई बड़ा कार्य न कर सके, लेकिन कमसे कम उसको यह संतोष था, कि वह अपने कर्तव्यका पालन कर रहा है, और उसकी ज़िन्दगी बिल्कुल बेकार, बेमानी, निरुद्देश्य तो नहीं है।

भारतीने कई बार निर्मलसे कहा—“चलो, बम्बई से कहीं बाहर चले चलें। जब दंगा खत्म हो जाएगा, तब आया जाएगा।” आगरा, दिल्ली, काश्मीर, अजन्ता, एलौरा, मैसूर, लंका न जाने कहाँ-कहाँका लालच दिखाया। पर निर्मलको ऐसे समय बम्बईको छोड़कर बाहर जाना परले सिरे की कायरता जान पड़ी। भारतीने लाल समझाया, कि उस जैसे भावुक कलाकारके लिए अपनी जानको खतरेमें डालना उसकी कला और प्रतिभाके प्रति घोर अन्याय है, पर वह न माना और दफ्तरके कार्यके समयके अतिरिक्त दिन और रातका अधिकांश समय शांतिदलके काममें लगाता रहा।

निर्मलने समझा था कि शांतिदलका काम सचमुच शांतिका प्रचार होगा। उसका खयाल था कि शांतिदलके सदस्य घर-घर जाएंगे, और लोगों को अमन और शांतिसे रहनेके लिए समझाएंगे, आपसकी साम्प्रदायिक कटुता को दूर करके, एकता और मेल-मिलाप पैदा करनेकी चेष्टा करेंगे। शहरमें स्वयं उनके इलाक़ेमें हरदम तरह-तरहकी अफ़वाहें उड़ रही थीं। ‘माहिमके मुसलमान शिवाजी पार्कके हिन्दुओंपर हमला करनेवाले हैं।’ ‘शिवाजी पार्कके हिन्दू माहिमके मुसलमानोंपर हमला करनेवाले हैं।’ ‘हिन्दू दूध वाले दूधमें ज़हर मिलाकर मुसलमानोंके हाथ बेच रहे हैं।’ ‘मुसलमान तरकारीवाले बैंगनों और मोसंबियोंमें ज़हरके इन्जेक्शन देकर हिन्दुओंके हाथ बेच रहे हैं।’ ‘ईरानी होटलोंकी चाय मत पियो, उसमें ज़हर है।’ ‘हिन्दू हलवाईकी मिठाई मत खाओ, उसमें ज़हर है।’ भूठ, भूठ, भूठ ! भूठ और नफ़रत तथा दूसरे सम्प्रदायके प्रति दुश्मनीका एक तुफ़ान

था, जिसमें सारा शहर डूबा जा रहा था। निर्मल और उसके दोस्त अहमद को आशा थी कि शान्ति दलका पहला काम होगा, उस खूनी वृत्तान्तको रोकना। पर जल्द ही उनको मालूम हो गया कि असल बात कुछ और ही है।

शान्तिदलका पहला काम चन्दा जमा करना था। अहमदके साथ निर्मल हर किसीके यहाँ गया। गिनतीके जो चन्द सुसलमान थे, उन्होंने मदद करनेसे साफ इनकार कर दिया। “यह शान्तिदलके परदेमें हिन्दू क्या कर रहे हैं, हम खुब जानते हैं।... हमने भी अपनी हिफाजतके लिए पठान रख लिए हैं।” कुछ हिन्दुओंने कहा—“आपके निहाये वालन्टियर हमारी रक्षा भला क्या कर सकते हैं ?... हम सिख दरवान रख रहे हैं।” और फिर चुपके से कहा—“सिख कृपाण रख सकते हैं। क्या समझे ?”

खैर चन्दा जमा किया गया। बीस पहरेदार पचास-पचास रुपए महीने पर नौकर रखे गए। कमेटीमें सवाल पेश हुआ, इनको कहाँ-कहाँ ड्यूटी पर लगाया जाय।

“एक-एक आदमी हर सड़कके नाकेपर लगाया जाय।”

“नहीं यह सुखता होगी। हमला सिर्फ तीन तरफ से हो सकता है, माहिमकी तरफसे, या वलीकी ओरसे, या समुद्रकी ओरसे। सिर्फ इन नाकों पर पहरा लगाना चाहिए।”

“हमला ? किसका हमला ?”

“सुसलमान अगर हमला करेंगे, तो और किधरसे हमला करेंगे ?”

“पर इन पहरेदारोंका काम क्या होगा ?”

“इनसे कह दिया जाय, कि जैसे ही किसी सुसलमास गुण्डेको देखें, सीटी बजा दें, ताकि लोग चारों तरफसे जमा हो जाएं।”

“सिर्फ सुसलमान गुंडे ! और अगर हिन्दू गुण्डे हों, तब ?” निर्मल ने यह सवाल किया तो, पर वह अहमदसे आँखें चार न कर सका।

कमेटीकी मीटिंगके बाद उसने अहमदसे कहा—“यह तुम्हारी ही हिम्मत है कि ऐसे लोगोंके साथ काम कर सकते हो। मुझे तो ये सब महा-

सभाई मालूम पड़ते हैं ।”

अहमदने कहा—“ऐसे बेवकूफों और जाहिलोंकी दोनों तरफ कमी नहीं है । तुम नहीं जानते कि माहिमके मुसलमानोंमें क्या-क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं । वे समझते हैं कि शिवाजी पार्कमें शान्तिदलके नामसे हिन्दुओंकी एक फौज तैयारकी जा रही है, जो बहुत जल्द माहिमके मुसलमानों पर रातमें हमला बोल देगी ।”

चन्दा, वालन्टियर, रक्तक, वर्दियाँ, जलसे, प्रस्ताव, पुलिस-कमिश्नर के नाम अर्जियाँ ! लेकिन शान्ति का प्रचार ? एकता का प्रोपेगण्डा ? इनका नाम नहीं । तब फिर शान्ति-दलका लाभ ? इस दौड़-धूपसे फायदा ? ‘मुसलमान गुण्डे’ ‘हिन्दू गुण्डे’ ‘घरोंमें पत्थर जमा करके रखो,’ ‘भैने तो दस लाठियाँ छिपा रखी हैं’, ‘भेरे पड़ोसीके पास पिस्तौल है ।’... शान्ति ! शान्ति ! शान्ति !

‘यह शान्तिका महासागर है, निर्मल !’ भारती कह रही थी—‘अगर हम आठ-दस दिन ठहरकर यहाँ हर रोज़ आकर कई घण्टे बिताया करें, तो मुझे विश्वास है, कि तुम्हारे बेचैन दिलको जरूर शान्ति मिजेगी !’

और गाइड कह रहा था—‘आपने सब गुफ्राएँ देख ली हैं । अब सिर्फ़ एक बाक़ी रह गई है । पर उसमें आपको दूसरी गुफ्राओंकी तरह संगतराशी और चित्रकारीके सुन्दर नमूने नहीं मिलेंगे । छत, खम्भे, फ़र्श, हर चीज़ अपूर्ण है । उस गुफ्राका काम अधूरा रह गया है ।’

‘अधूरा काम !’ निर्मलने सोचा, वह भी तो बम्बईमें अपने कामको अधूरा छोड़कर चला आया है, बल्कि अधूरेसे भी कम । अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी, कि उसने हार मान ली थी ।

शान्ति-दल कमेटीकी आखिरी मीटिंग—

निर्मलने शुरू ही में यह प्रस्ताव रक्खा था कि मामूली अनपढ़, उज्जु दरवानों और चौकीदारोंकी जगह आज्ञाद हिन्द फौजके सिपाहियोंको उचित तनख्वाहपर रक्षाके लिए रक्खा जाए, क्योंकि वे साम्प्रदायिक द्वेष और

पन्नापातसे बहु ऊपर थे । उनमें राष्ट्र-सेवाकी इच्छा है, और वे अपनी पुरानी सेवाओं और त्यागके कारण सहायताके अधिकारी हैं । शांति-दलके मंत्रीने उस मीटिंगमें बताया, कि सारे पुराने पहरेदार अलग कर दिए गए हैं, और उनकी जगह आज़ाद हिन्द फ़ौजके सैनिक रख लिए गये हैं । यह सुनकर निर्भलका उत्साह बढ़ गया । उसे ऐसा लगा, कि अब शांतिदलका का काम अच्छे ढंगसे होगा । किन्तु दूसरे ही क्षण उसकी सारी आशाओंपर पानी फिर गया ।

एक बूढ़े मराठे वकीलने सवाल किया—“क्या यह सच है कि आज़ाद हिन्द फ़ौजके इन सिपाहियोंमें मुसलमान भी हैं ?”

मंत्रीने कहा—“हाँ, पर सिर्फ़ एक ।”

एक मराठे गुजराती सेठने कहा—मेरे हलकेमें इस बातपर बड़ी बेचैनी फैली हुई है ।

एक दुबले, सूखे मारवाड़ीने कहा—“यह तो पज़ब की बात है !”

बूढ़े वकीलने ऊँची आवाज़में कहा—“भैं मंत्रीजीसे इस मामलेमें जवाब-तलब करता हूँ कि क्यों मुसलमानको रखा गया ?”

गुजराती सेठने अपना निर्णय सुनाया—“अगर ऐसा होगा, तो हम लोग एक पैसा भी चन्दा नहीं देंगे !”

एक नाटे कदके डाक्टरने कहा—“मेरे हलकेके लोग भी यही कहते हैं कि अगर मुसलमान...”

दुबले-सूखे मारवाड़ीने बीचमें ही कहा—“यह हमारी स्त्रियोंकी इज़ज़तका सवाल है ।”

बूढ़े वकीलने कहा—“भैं जवाब-तलब करता हूँ ...”

सभापतिने कहा—“शान्ति ! शान्ति !”

मंत्रीने कहा—“भैं तो इसमें कोई हर्ज़ नहीं समझता । आज़ाद हिन्द फ़ौजमें हिन्दू-मुसलमानका कोई भेद नहीं था । लेकिन अब कमेटीकी चही-राय है, तो हम किसी बहानेसे मुसलमान सिपाहीको अलग कर सकते हैं ।”

सबने एक साथ शोर मचाया—“हाँ हाँ ! तुरन्त... फौरन ! एक दम !”

सिर्फ अहमद चुप बैठा मुस्करा रहा था ।

न जाने क्यों, अहमदको इतमीनानसे मुस्कराते देखकर निर्मलके घबरेका बाँध टूट गया । उसके दिमागके अन्दरकी कोई कल एकाएक तड़क लें टूट गई ।

“नहीं ! नहीं !” वह असाधारण जोशसे चिल्लाया ।

मन्त्रीजी, जो मीटिंगकी कार्रवाईमें ये वाक्य लिखनेमें लगे थे, कि— ‘यह प्रस्ताव निर्विरोध पास हुआ, कि आज़ाद हिन्द फौजके जिन सिपाहियों को रक्षाके लिए रखा जाय, उनमें कोई मुसलमान न हो’, अपनी कुर्सीसे प्रायः उछल पड़े । उनके हाथसे कलम गिर पड़ी, और सफ़ेद कागज़पर, जहाँ इस प्रस्तावको लिखा गया था, सियाहीका एक बड़ा धब्बा पड़ गया ।

“नहीं ! नहीं ! नहीं !” मानो इस एक शब्दको दस बार दोहरानेसे ही बाक़ी दस मेम्बरोंकी राय बदल जाएगी । निर्मल बोला—“मैं ऐसे प्रस्तावका कभी समर्थन नहीं कर सकता !” निर्मलकी आवाज़की तीव्रताने कुछ क्षणोंके लिए सबको खामोश कर दिया । पर इस खामोशीमें उसको अपनी आवाज़ खोखली-सी लगी । “ऐसा प्रस्ताव हमारे लिए शर्मकी बात है । हम शान्ति और एकताके नाम लेते हैं, पर हम स्वयं अपनी निम्नतम साम्प्रदायिकता और पक्षपातपूर्ण नीतिका परिचय दे रहे हैं ! यदि यह प्रस्ताव पास हुआ, तो मैं इस मामलेको प्रेस और जनताके सामने रखना अपना धर्म समझूँगा !”

और अहमद मुस्कराए जा रहा था मानो कह रहा हो—“शाबाश मेरे शेर ! यह सब बेकार है !”

दुबले-धुले मारवाड़ीने पहले विरोधीकी हैसियतसे कहना शुरू किया— “निर्मल बाबूको नहीं मालूम कि हम हिन्दू कितने खतरेमें हैं !”

गुजराती सेठने कहा—“हम तो साफ़ बोलेंगे । अगर यह मुसलमान

रहेगा, तो हम चन्दा नहीं देंगे !”

नाटे क्रदके डाक्टरने कहा—“हम इस्तीफ़ा देकर हिन्दू महासभाके सुरक्षा-दलमें सम्मिलित हो जाएंगे !”

किन्तु चालाक, बड़े वकीलने दूसरोंको हाथके इशारेसे चुप करते हुए और निर्मलको सम्बोधित कर कहा—“मिस्टर निर्मल, एक बात बताइए । यह हिन्दू इलाका है । अगर यहाँ पहरा देते हुए उस बेचारे मुसलमान सिपाहीको कुछ ऐसा-वैसा हो गया, तो कौन ज़िम्मेदार होगा ? आप ?” और यह कहकर उसने गुजराती सेठ और नाटे क्रदके डाक्टरकी ओर देखकर आँख मारी, मानो कह रहा हो, ‘देखा, मेरा कानूनी पैतरा ? ऐसे-ऐसे लौंडे मेंने बहुत देखे हैं !’

अहमद ने मुस्कराकर निर्मलकी ओर देखा और आँखों-ही-आँखोंमें कहा—‘मैंने कहा नहीं था, कि कोई लाभ नहीं ।’

प्रस्ताव पास हो गया । निर्मल बिफरा हुआ चुपचाप बैठ रहा । वह बहुत कुछ कह सकता था—दावे, दलील, तर्क और राजनीतिकी बातें ! किन्तु उसे मालूम हो गया कि इस साम्प्रदायिकता और घाँघलीकी दीवारों-पर सिर पटकना बेकार है । उसके चारों ओर शोर मचता रहा, प्रस्ताव पेश होते रहे, वाद-विवाद चलते रहे, अन्यान्य सदस्योंमें सदाकी भाँति तकरार और वृ-वृ, मैं-मैं भी होती रही, पर निर्मलने न कुछ कहा, न सुना ।

उसका दिमाग भयानक विचारों और दृश्योंका मंच बना हुआ था । कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद, नोआखाली, विहार, पंजाब, दिल्ली ! कल्ल, खून, खूनकी नदियाँ, खूनके दरिया, खूनका समुद्र, घृणा और हिंसा, स्त्रियोंकी बेइज्जती, बच्चोंकी लाशें, लाशोंके पहाड़, एक रक्तमय आकाशकी ओर लटकते हुए हज़ारों शोले ! एक कलदार हथौड़ेकी भाँति यह विचार उसके दिमागपर चोट लगाता रहा, कि यह सब इसलिए हो रहा है कि शिवाजी पार्क शांति-दलके सदस्य आज्ञाद हिन्दू फौजके एक मुसलमान सिपाहीको रखनेके लिए तैयार नहीं हैं !

और उसे ऐसा लगा, मानो आज़ाद हिन्द फ़ौजके शानदार ऐतिहासिक कारनामोंके बेकार थे। आज़ादीकी सारी लड़ाई बेकार थी। सारे देश-भक्तों और आज़ादीके लिए प्राण देनेवाले शहीदोंकी कुरवानियाँ बेकार थीं। सारे राष्ट्रीय नारे, सारे राष्ट्रीय आन्दोलन, सारे राष्ट्रीय नेता, देशका हर आदमी बेकार था, हर चीज़ बेकार थी, शिवाजी पार्कका शांति-दल बेकार था, इस सिलसिलेमें निर्मलका काम बेकार था, उसका बम्बईमें रहना बेकार था, उसकी जिन्दगी बेकार थी...इसलिए कि हिन्दू और मुसलमानके ठप्पे आज़ादी और हिन्दुस्तानसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे।

उसे शांति-दलके वे सब सदस्य उस समय घृणा, द्वेष और खतरनाक मूर्खताके राक्षस मालूम हुए, जो अपनी अंगारों-जैसी आँखें खोले उसे घूर रहे थे, जो उसे भस्म करनेके लिए उसकी ओर बढ़े आ रहे थे। वही दस नहीं, बल्कि हर तरफ़से लाखों राक्षसोंके दल-के-दल उसकी ओर बढ़े आ रहे थे। उनमें चोटीवाले भी थे और दाढ़ीवाले भी, हिन्दू भी और मुसलमान भी; बंगाली, बिहारी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, पूरबी, पठान और सिख सब थे, और सब उसके खूनके प्यासे !

“भाग !” निर्मलके घड़कते हुए हृदयने उसे ललकारा—“भाग !”

और निर्मल शांति-दलकी मीटिंगकी कार्रवाई खत्म होनेसे पहले ही न केवल मीटिंगसे भाग आया, बल्कि दूसरे दिन भारतीके साथ बम्बईसे भी भाग आया।

“कहाँ चलें ?” भारतीने पूछा।

“जहाँ यह रक्तपात न हों, जहाँ अखबार न हों, जहाँ रेडियो न हों, जहाँ हिन्दू न हों, मुसलमान न हों, जहाँ चाकू, छुरे, बर्छे, भाले, तेज़ाब, गुण्डे, मवाली न हों...दूर...दुनिया और जिन्दगीसे दूर !”

और भारतीने सोचकर कहा—“अजन्ता !”

अहमद निर्मलको छोड़ने स्टेशनपर आया। गाड़ी चलने लगी, तो उसने कहा—“अच्छा है, चन्द दिनके लिए हो आओ। आबोहवा बदल

जाएगी । लेकिन अगले इतवारको शांति-दलकी मीटिंग है, जिसमें कुछ प्रस्ताव पेश करनेवाला हूँ । उसमें तुम्हारा मौजूद रहना जरूरी है ।...”

और जब निर्मलने कहा—“मैं शांति-दलकी मीटिंग में कभी न आऊँगा ।”

तब अहमदने चलती ट्रेनके साथ भागते हुए कहा था—“तुम इस कामको अधूरा छोड़कर नहीं भाग सकते, निर्मल !”

“अधूरा काम !”

उह ! यह अजन्ताके मूर्तिकार और चित्रकार ! ये भी तो इस आखिरी गुफाको अधूरा ही छोड़कर चले गए । न जाने क्यों ? न जाने क्या बात हुई, कि आठ-नौ सौ वर्षतक दर्जनों पीढ़ियोंके लगातार और अथक परिश्रमके बाद इस गुफाको अधूरा छोड़नेपर विवश हो गए ।

“तुम्हारा क्या ख्याल है, भारती ?”

पर भारती वहाँ नहीं थी । न गाइड था । कोई नहीं था । निर्मलकी आवाज़ गुफाकी पथरीली दीवारोंसे टकराकर फिर वापस लौट आई ।

शायद वह उस अँधेरी और अधूरी गुफाके किसी कोने में अपने विचारोंमें खो गया था और भारती तथा गाइड यह समझकर बाहर चले गए थे, कि मुमकिन है, वह तंग आकर वापस चला गया हो ।

उसको गुफामें घूमते हुए काफ़ी समय हो गया, क्योंकि दरवाज़ेके बाहर जो सामनेवाली हरी-भरी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, वह काली पड़ चुकी थी । शायद सूर्य अस्त हो चुका था । एक बढ़ती हुई घुटनकी भाँति गुफामें अंधकार छा रहा था ।

निर्मल बाहर जानेके लिए क्रदम बढ़ा ही रहा था कि उसने एक मशालको अपनी ओर आते देखा । यह देखकर वह दंग रह गया, कि जो यह मशाल लिए आ रहा था, वह गुफाके अगले दरवाज़ेसे नहीं घुसा था, बल्कि विपरीत दिशासे आ रहा था । फिर उसने सोचा कि शायद गाइड उसे ढूँढते हुए गुफाके किसी दूसरे अँधेरे कोनेमें चला गया हो और अब

खीट रहा हो ।

पर उसके आश्चर्यका कोई ठिकाना न रहा, जब, उसने देखा, कि मशाल हाथ में लिए हुए जो आदमी गेरुए रंग की कफनी पहिने हुए आया था उसको किसीकी तलाश नहीं थी । उसने एक अधूरे स्तम्भ के सहारे मशाल खड़ी कर दी, और अपनी कफनीके किसी भोलेमें से एक छेनी और एक हथौड़ा निकालकर पत्थरको छीलने लगा ।

निर्मल उसकी ओर बढ़नेवाला ही था, कि उसने देखा, वैसे ही गेरुए रंगकी कफनियाँ पहिने, मुँड़े हुए सिर के दर्जनों भिल्लु हाथोंमें मशालें लिए गुफाके पिछले अँधेरे भागसे निकले चले आ रहे हैं ।

उनमें से किसीने भी निर्मलकी ओर ध्यान नहीं दिया । सब अपनी-अपनी छेनियाँ और हथौड़े निकालकर छत और दीवारें छीलने या स्तंभोंको मोल बनानेमें लग गए । कुछ दीवारपर मिट्टीका लेप करके उसकी सतह बराबर कर रहे थे, ताकि जब वह सूख जाय, तो चित्रकार अपने चित्रों की रंगीन रेखाएँ अंकित कर सकें । गुफा पत्थरपर लोहेकी चोट पड़ने की आवाज़ोंसे गूँज उठी ।

कुछ मिनट तो निर्मल उस आश्चर्यजनक दृश्यको देखता रहा । फिर उससे न रहा गया और वह उस मूर्तिकार भिक्षुके पास गया, जिसने सबसे पहले गुफामें प्रवेश किया था ।

“लामा कीजिए !...मैं आपके कार्यमें बाधक हो रहा हूँ । किन्तु मुझे आप लोगोंको कार्यमें इस तत्परता के साथ व्यस्त देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है ।”

“क्यों ?”

“इसलिए कि मैं समझता था कि इस गुफा का निर्माण अधूरा ही है और यह अपूर्ण ही रहेगा ।”

“संसारका निर्माण भी अपूर्ण है । मनुष्य भी अपूर्ण है । पर इनको पूर्ण होना ही चाहिए ।”

२६ ● अजन्ता की ओर

इस जवानको निर्मल कुछ समझा और कुछ न समझा। फिर उससे पूछा—“आप कब से काम कर रहे हैं ?”

“नौ सौ वर्षसे।”

“नौ सौ वर्ष ? आपका मतलब है कि आपकी आयु ... !”

“मैं और मुझसे पहले मेरा पिता और उससे पहले उसका पिता। एक पीढ़ीके बाद दूसरी पीढ़ी, और उसके बाद तीसरी पीढ़ी। आत्माके चक्रकी भाँति कामका चक्र भी तो चलता ही रहता है।”

“आपका नाम ?” निर्मलने बातचीतको व्यक्तिगत रूप देनेकी चेष्टा की।

“मेरा नाम ? कुछ नहीं। हम सब बेनाम के हैं।”

और निर्मलको याद आया कि उसने उन सारी गुफाओं में किसी मूर्तिकार या किसी चित्रकारका नाम खुदा हुआ या लिखा हुआ नहीं देखा था।

“फिर आप किसलिए इतना काम करते हैं ?”

“काम किसी उद्देश्यसे नहीं किया जाता। मनुष्य कार्यसे अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करता है।”

“तो यह काम कब खत्म होगा ?”

“कौन जाने !”

“इस गुफाको...”

“पूरा होनेमें दो सौ वर्ष लगेगे। इसके बाद दूसरी गुफा और इसके बाद तीसरी...”

“तो क्या अजन्ता कभी पूरा न होगा ?”

“होगा। जब मनुष्य पूरा होगा।”

निर्मलको अत्यधिक आश्चर्य होनेपर भी यह पूछने का खयाल रहा, और उसने रूले तथा कट्टुस्वरमें पूछा—“कृपया मुझे समझाइए कि सदसौ वर्षसे जो आप जैसे हजारों आदमी इतनी मेहनत कर रहे हैं, यह

क्यों और किसलिए ? ये पहाड़की गोदसे तराशी हुई गुफाएँ, ये मूर्तियाँ, ये चित्र, यह कारीगरी और यह कलाकारी, यह सब क्यों और किसलिए ?” उसके स्वरमें कटुताकी जगह जोश और गुस्सा आता गया—
 “अच्छा होता कि इतनी मेहनत पत्थरोंमें फूल खिलानेकी जगह मनुष्योंको मनुष्य बनाने में लगाई जाती, ताकि आज वे एक-दूसरेका खून न करते होते । आप लोगोंने शिल्पकला और चित्रकलाके ये जादू-धर हमें धोखा देनेके लिए बनाए हैं । ये गुफाएँ संसारसे, वास्तविकता से, सच्चाई से भागना सिखाने के लिए बनाई गई हैं ।”

शिल्पी भिल्लुके चेहरेपर एक अजीब शान्तिपूर्ण मुस्कान थी, जिसमें कटुता लेशमात्र भी न थी । केवल प्रेम, दया और गहरा ज्ञान । उसने अपने कामपरसे नज़र हटाये बिना सिर हिलाकर नम्रतासे कहा—“नहीं !”

निर्मलको उस आदमीकी मुस्कराहट, उसके धैर्य और शान्तिपर गुस्सा आ रहा था । उसने चिल्लाकर कहा—“तो फिर अजन्ताका उद्देश्य ? अजन्ताका सन्देश क्या है ?”

“सुनो !” और सिर्फ इतना कहकर वह अपने काममें लग गया । गुफामें पूर्ण शान्ति थी । केवल पत्थरपर लोहा पढ़नेकी आवाज़ गूँज रही थी ।

निर्मल प्रतीक्षामें था, कि भिल्लु उसको अजन्ताका दर्शन, अजन्ताका सन्देश सुनाएगा । पर उसके मुँहसे एक शब्द भी न निकला । सिर्फ उसकी छेनीकी खट-खट-खट । और पत्थरके पतले-पतले पत्तर छिलकर फर्शपर गिरते रहे ।

“तो क्या तुम नहीं बताओगे, कि अजन्ताका सन्देश...?” सहसा निर्मल के अँधेरे मस्तिष्कमें ज्ञानकी एक किरण चमकी और उसके मुँहका वाक्य अधूरा ही रह गया ।

गुफामें पूर्ण मौन छाया था । सिर्फ पत्थरपर लोहे की चोट पढ़नेकी आवाज़ ! यही था वह सन्देश, जो वह भिल्लु निर्मलको सुनाना चाहता था ।

निर्मलकी आँखोंमें ज्ञानकी नई चमक देखकर वह भिन्न अपनी मोहक मुद्रासे मुस्करा दिया, और फिर अपने काम में लग गया। निर्मलको ऐसा लगा, मानों उसे एकाएक दुनियाका सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। अमृत, संजीवनी बूटी ! उस अमूल्य नुस्खेके सामने हर चीज हेय थी ! उसे अजन्ताका सन्देश मिल गया था !

न जाने कबतक वह उस गुफाके कोनेमें बैठा हुआ पत्थरपर लोहेकी चोट पड़नेकी आवाज़ोंको सुनता रहा—“खट, खट, खट, खट, खट...”

और हर बार जब लोहेकी छेनी पत्थरकी दीवारपर पड़ती थी, निर्मलको ऐसा लगता था, मानो वह कह रही हो—“अमल ! अमल ! अमल !!! काम ! काम !! काम !!! मेहनत ! मेहनत !! मेहनत !!!”

“अमलसे पत्थर मोमकी तरह छीला जाता है, अमलसे पहाड़की चट्टानें काटी जाती हैं, अमलसे पत्थरमें फूल खिलाये जाते हैं, अमलसे चित्रोंमें जीवनका रंग भरा जाता है, अमलसे मनुष्य ‘मनुष्य’ बनता है ! अमल ही पूजा है, अमल स्वयं अमलका पुरस्कार है !”

खट, खट, खट, खट, खट...—पत्थरपर लोहेकी चोट पड़नेकी आवाज़ !

“आज नहीं कल, सौ वर्षमें नहीं तो हजार वर्षमें ये पत्थर अवश्य छिलकर शिल्पकला और चित्रकला के सुन्दर नमूने बनेंगे। एक-दो के हाथों नहीं, हजारों मिलकर इनको तराशेंगे। पीढ़ियों के बाद पीढ़ियाँ इस कामको जारी रखेंगी। यह काम कभी खत्म न होगा। इसकी मंजिल कलाका उच्चतम शिखर है।”

खट, खट, खट, खट, खट...—पत्थरपर लोहेकी चोट पड़नेकी आवाज़ !

“आज नहीं, तो कल, सौ वर्षमें नहीं तो सहस्र वर्षमें मानव-प्रकृतिके पत्थर छिलकर, तराकर, रूप और सौन्दर्य, कला और विद्याके सुन्दर नमूने अवश्य बनेंगे। एक-दो के हाथों नहीं; हजारों, लाखों, करोड़ों, सारे मनुष्य

मिलकर उनको तराशेंगे । एकके बाद दूसरी पीढ़ियाँ इस कार्यको जारी रखेंगी । इसकी मंजिल मनुष्यकी पूर्णतामें है !”

खट, खट, खट, खट, खट...—पत्थरपर लोहेकी चोट पड़नेकी आवाज़ !

निर्मलने देखा कि भिक्षु अपने काममें इतना तल्लीन था कि उससे मालूम भी न हुआ, कि कब हथौड़ेकी चोट उसके अँगूठे पर पड़ी । धावसे लाल-लाल बूँदें टकप-टकपकर पथरीले फ़र्शपर गिर रही थीं ।

और एकएक निर्मलको वे सारे चित्र याद आ गए जो उसने उन सभी गुफाओंमें देखे थे । हजारों वर्षके बाद भी कितने ताजे, कितने नये और चमकीले थे उनके रंग !...और न जाने क्यों निर्मलने सोचा कि उन तस्वीरोंकी लालीमें मनुष्यके खूनका रंग है । तभी तो वे इतनी जीती-जागती हैं ! तभी उनमें इतनी ज़िन्दगी है ।

शायद वह सो गया । शायद वह अपने विचारोंमें खो गया ।

जब उसको होश आया, तो सूर्योदय हो चुका था । सूर्यकी तिरछी-तिरछी सुनहरी किरणोंसे गुफा उज्ज्वल हो रही थी । किन्तु चारों ओर पूर्ण सन्नाटा था । न वे शिल्पी थे, न चित्रकार, न मशालें ।

तो क्या उसने स्वप्न देखा या ? ...शायद ? ...कितना विचित्र स्वप्न !

उसने सोचा, 'हाँ, स्वप्न ही होगा । रातभर इस वातावरणमें बितानेले ताज्जुब नहीं कि मेरी कल्पनाओंका स्वप्न पर प्रभाव पड़ा हो ।

किन्तु बाहर जाते समय जब वह उस स्तम्भके पाससे गुज़रा, जिसको उसके स्वप्नवाला भिक्षु तराश रहा था, तो उसने देखा कि स्तम्भपर एक फूल खुदा है, जो कल नहीं था । या शायद यह भी उसकी कल्पनाका बोधा ही हो ।

फिर कुछ स्मरण करके, उसने फर्शको देखा । वहाँ लाल मोतियोंकी तरह ताजे खूनकी कई बूँदें पत्थरपर बिखरी हुई थीं ।

३० ● अजन्ता की ओर

निर्मल फिर चौंका। लेकिन उसने सोचा, शायद यह भी उसकी कल्पनाका धोखा ही हो।

+ + + +

निर्मल भारतीसे मिले विना स्टेशन पहुँच गया। अगले दिन इतवार था, और उसे शान्ति-दलकी मीटिंगमें अहमदके प्रस्तावोंका समर्थन करनेके लिए पहुँचना जरूरी था। बम्बई से, दंगों से, किसी से भी भागना मुमकिन नहीं था।

रेलमें एक यात्रीने निर्मलसे पूछा—“आप शायद अजन्तासे आ रहे हैं ?”

निर्मलने जवाब दिया—“जी नहीं, मैं अजन्ता को जा रहा हूँ।”



जिन्दगी

एक बच्चा

जिन्दगी और मौत ।

भीषण दंष्ट्र था ।

मौत लश्करके लश्कर साथ लेकर आई थी । दुर्बलता, रोग, रक्तका
अभाव, गहरा घाव, रक्तमें विषका प्रवेश ।

नौ वर्षका बच्चा, निर्धन बच्चा, दुर्बल बच्चा । कभी उसको
पेटभर भोजन मिलनेका सीमाग्य न हुआ था । कुछ ही महीनेका था कि
पिताकी मृत्यु हो गई । मरने दूसरा विवाह कर लिया । सीतेला बाप
शराबी था और स्वभावका बुरा । जब रातको नशेमें चूर आता तो पत्नी
और सीतेले बेटे दोनोंको मारता । हंटर, लकड़ी, जूता जो भी हाथमें आ
गया । सहन-शक्तिकी भी एक सीमा होती है । अगले दिन सूरज निकलने
से पहले ही बच्चा घरसे भाग निकला ।

उस समय उसकी अवस्था सात वर्षकी थी ।

दो सालतक वह मारा मारा फिरता रहा । अखण्ड बेचे, जूतोंपर
पालिश किया, बरतन धोए, नालियाँ साफकी, बोझ ढोया, भीख माँगी ।

उसका रंग काला था । उसके बापका रंग भी काला था और माँ
का भी । उसको मालूम था कि काले माँ-बापके बच्चे हमेशा काले ही
होते हैं । परन्तु फिर भी वह अक्सर सोचता, “काश मेरा रंग काला न

होता।" ऐसा मालूम होता था कि काले आदमियोंको ईश्वरने गोरोंकी सेवा करने, उनकी गालियाँ और ठोकरें खानेके लिए ही बनाया है। न जाने उन सब कालोंका क्या दोष था। ईश्वरकी उपासना में वह गोरोंसे कहीं अधिक भक्ति दिखलाते। गिरजे जाते, पादरिथोंकी धर्म-दीक्षा सुनते। ईसामसीह पर ईमान लाते। शताब्दियोंके दुःखसे भरे हुए कस्या स्वरमें धार्मिक गीत गाते। फिर भी ईश्वरके दरबारमें उनकी कोई सुनवाई न होती। फिर भी गोरों रंगके ईसाई उनको घृणा और तिरस्कारकी दृष्टि से देखते। उसको वह घटना अबतक याद थी जब उसने पलतीसे एक गोरी औरतके सफ़ेद रेशमी वस्त्रोंको छू लिया था। वह सबके नुक़ड़ पर अखबार बेच रहा था। गोरी औरत ने उससे अखबार लिया और अपने बेगमें रेज़गारी ढूँढ़ने लगी। बच्चे की दृष्टि अनायास ही उसके सफ़ेद वस्त्रपर जम गई। कितना सफ़ेद था वह फ़ाक। दूधसे भी ज़्यादा सफ़ेद। उन वस्त्रोंसे भी ज़्यादा सफ़ेद जिनको उसने एक बार भीलमें तैरते हुए देखा था। कितना सफ़ेद था वह फ़ाक। सफ़ेद और चिकना। नज़र भी फिसली जाती थी। "कोमल भी अवश्य होगा," उसने चमकते फ़ाकको ध्यानसे देखते हुए सोचा। और फिर न जाने क्यों उसका जी चाहा कि वह उस वस्त्रको छूकर देखे। कोमल-कोमल, चिकनी-चिकनी वस्तुओंको छूकर, उनपर हाथ फेरकर कितना आनंद मिलता था। एक बार उसको काले रेशमका एक टुकड़ा पड़ा मिल गया था—चिकना और चमकदार। वह उसने अपने छोट्टेसे बिना तालिके बक्स में छुपाकर रख छोड़ा था। और जब समय मिलता उस टुकड़ेको निकालकर उसपर धीरे-धीरे हाथ फेरकर देखता कि उसकी कोमलता बाक़ी है कि नहीं। मगर उस गोरी औरत का यह फ़ाक तो उस रेशमसे भी कहीं अधिक चिकना और चमकदार था। और फिर सफ़ेद था। दूधसे भी ज़्यादा, भीलकी वस्त्रोंसे भी ज़्यादा सफ़ेद। और सफ़ेद चीज़ोंमें न जाने क्या गुण था, क्या जादू था कि देखते ही वह बेचैन हो जाता। इस फ़ाक को छूने-

में तो और भी आनंद आया। उसने अपना काला हाथ उठाया और गोरी औरतके दामनको छू लिया।

गोरी औरत बेगसे पैसे निकालकर देनेही जा रही थी कि उसने एक काले हाथको अपने वस्त्रोंसे स्पर्श होते हुए देखा और अपनी छतरी बंद करके बच्चेको मारना शुरू कर दिया।

“बदतमीज़ ! ज़लील कुत्ते ! तेरी यह मजाल। चल, तुझे पुलिसके हवाले करती हूँ।” पुलिसके भयसे वह सिरपर पाँव रखकर ऐसा भागा कि अखबारोंका बंडल वहीं रह गया। इसके दंडमें अखबारवालेने अगले दिनसे उसे अखबार देना बन्द कर दिया।

शहरमें चारों तरफ़ ऊँची-ऊँची इमारतें थीं। आकाशतक ऊँची। सड़कपर खड़े होकर वह ऊपर दृष्टि करता तो ऐसा मालूम होता कि हरएक इमारतकी चोटी बादलोंमें तैर रही है। बादल चलते हुए न प्रतीत होते वरन् ऐसा लगता जैसे इमारत धीरे-धीरे ढलक रही है। और वह डरके मारे फिर सीधा खड़ा हो जाता कि कहीं ईंट और पत्थरका कह पर्वत उसके सिरपर न गिर पड़े।

जब अखबार बेचनेका क्रम टूट गया तो उसने सड़कोंपर आवागमन करना शुरू कर दिया। कितना सुन्दर शहर था ! साफ़ सड़कें, काली-काली चिकनी-चिकनी चमकदार मोटरें, घड़ाघड़-घड़ाघड़ चलनेवाली विजली की रेलें, जगमगाते हुए सिनेमा और थियेटर, बड़े-बड़े होटल, स्वादिष्ट भोजनोंसे भरे हुए रेस्तराँ। वह घंटों शीशिकी दीवारोंमेंसे अन्दर सजे हुए केक, पेस्ट्री, फल, भुनी हुई मुर्गियों और शराबकी बोतलोंको देखता रहता। वह सब नियामतें उसके सम्मुख उपस्थित थीं, इतनी निकट कि वह चाहे तो उनको छू सकता था। एक दिन उसने अनायास ही हाथ बढ़ा दिया। खटसे मोटी शीशिकी चादरसे टकराया। एक पुलिसवालेने कठोर स्वरमें बुझका, “ओ काले बदमाश ! चलता-फिरता नज़र आ, नहीं तो डंडा रसीद करता हूँ।” और लाल-हरे केकपर लालसा-पूर्ण दृष्टि डालकर बच्चा आगे

बढ़ गया ।

न जाने क्यों संसारकी सब अच्छी-अच्छी वस्तुएँ गोरे आदमियोंके लिए ही हैं। बच्चे के नन्हेंसे दिमागमें यह प्रश्न एक शहदकी मन्त्रीकी तरह भनभनाता रहता। आखिर क्यों ? होटल, सिनेमा, आलीशान मकान, सब जगह गोरे आदमी ही रहते थे। काले अगर उस संसारमें थे, तो सेवकों के स्थानपर। होटलोंमें वेटर, सिनेमाघरोंके सामने पहरेदार, आलीशान मकानोंमें नौकर। जब गोरा मालिक और मालकिन अपनी मोटरमें बैठनेके लिए घरसे निकलते तो काला नौकर अदबसे उनके लिए मोटरका दरवाजा खोलो खड़ा रहता। आखिर क्यों ? आखि यों ?

संसारकी सब चीजें गोरोके लिए थीं, परन्तु आकाशमें जहाँ ईश्वर रहता है वहाँ जरूर कालों और गोरोके साथ समान व्यवहार होता होगा, बच्चेको इसका विश्वास था। और रातको जब वह फिरते-फिरते थक जाता तो सड़कके किनारे बैठकर सिर ऊपर उठाकर आकाशकी ओर देखता। सितारे उसकी ओर देखकर मुसकराते और वह भी अपनी भूख, अपनी थकान भूल जाता। उसने सुना था कि मरनेके बाद मनुष्य आकाशमें ईश्वर के पास चला जाता है। वह सोचता, अच्छा ही होगा अगर मैं मर जाऊँ। फिर मैं वहाँ, जहाँ सितारे हैं, आनन्दसे रहूँगा। मेरा पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैं वहाँ जाऊँगा तो वह कितना खुश होगा !

मगर जीवनका अनथक चक्कर इन विचारोंको अवकाश ही कहाँ देता था। फिर कोई पुलिसका सिपाही सड़कपर अपने पाँवसे खटखट करता और डाँटकर कहता, “चलो-चलो-उठो। यहाँ क्या चोरी का इरादा है। अपने घर जाओ। एकदम।”

उसका “घर” शहरके उस हिस्सेमें था जहाँ सब काले ही रहते थे। एक पुराना अस्तबल। किसी समयमें यहाँ घोड़े बँधा करते थे, परन्तु अब मोटरोंके कारण घोड़ा गाड़ियोंका रिवाज जाता रहा था। अस्तबल बहुत

नहीं था, यहाँ आकर सो जाते थे ।

रातको जब “घर” लौटता तो उसे ऐसा अनुभव होता कि वह स्वर्गसे नरकमें आगया है । कहाँ गोरे आदमियोंके वह आलीशान मकान, कहाँ यह गन्दी, बदबूदार, अंधेरी चालें । यहाँकी सड़कें भी खराब थीं । और रोशनीका प्रबंध न होनेके कारण कालोंके लिए रात भी काली रहती । हाँ, लेकिन अंधकार-पूर्णा और दुःखमय संसारमें बस एक जगह थी जहाँ कालोंको भी यदि सुख नहीं मिलता तो कमसे कम वह वहाँ अपने आपको भूल ज़रूर सकते थे । वह था शराबखाना । वह कई बार वहाँ गया था । वहाँ उसको चारों ओर अपनी जैसी काली सूरतें ही दिखाई पड़ती थीं । काले पुरुष, काली स्त्रियाँ, जिनके दाँत गोरी स्त्रियोंसे कहीं अधिक सुंदर होते । वेटर, डाइवर, घरेलू नौकर, चपरासी, बूटपालिश करनेवाले, नौकरानियाँ, दाइयाँ, अनाएँ, बावची और बावचिनें । मगर यहाँ तो वह केवल पुरुष थे और स्त्रियाँ । पुरुष और स्त्रियाँ । स्त्रियाँ और पुरुष । खाना और शराब । सिगरेटका धुआँ । और उस धुआँको चीरती हुई अट्टहासकी गूँज । और फिर पियानोपर बैठ जाता और उस पुराने बयैर पॉलिशके पियानोसे संगीतकी एक लहर उठती जिसमें सब डूब जाते । पुरुष और स्त्रियाँ नाचना आरंभ कर देते—थिरक-थिरककर, मटक-मटककर, हँसकर, मुस्कराकर, अट्टहास करते हुए, उछलकर, कूदकर, तालियाँ बजाकर । संगीत और सिगारेटका धुआँ और शराबकी दुर्गंध और काले-काले चेहरोंपर पसीनेकी चमक । और फिर कोई गाना शुरू कर देता और उस संगीतमें और उन गानोंमें नौ वर्ष के काले बालक को नौ हजार साल पहलेकी कहानी सुनाई देती । उसकी जातिका इतिहास, एक दर्दभरी कहानी । उसको ऐसा लगता कि संगीतकी लहरोंपर बहता हुआ वह दूर किसी तट पर पहुँच गया है । अंधेरी रात है और सन्नाटा । जंगल साँच-साँच कर रहा है, चारों ओर ढरावने पशुओंकी आँखें आगके समान चमकती हुई दिखाई

निकटतर होती जाती। एक भयानक सामंजस्य, उसको सुनकर हृदयकी गति तीव्र हो जाती और एक अज्ञात भय उसके रोएं रोएं में समा जाता। आकाश का भय, बिजली और बादलोंका भय, समुद्र का भय, वृष्टानका भय, भूत-प्रेत और जादूका भय, शेर-चीते और वडियालका भय और सबसे बढ़कर मनुष्यका भय। और बच्चेको इस संगीतमें एक भयानक धुन सुनाई देती—जंजीरोंकी भंकार। पराधीनताके आभाससे उसका दम घुटने लगता। परन्तु फिर कहीं पृथ्वीके असीम विस्तारमें जीवन संचार होता और कपासके खेतोंमें सहस्रों पुष्पोंसे एक करुण गीत उठता और आकाशकी ऊँचाईमें खो जाता।

बच्चा इस कहानीको कुछ समझता और कुछ न समझता। परन्तु जब तक पियानो बजना बन्द न हो जाता, वह संगीत-सम्बन्धी भावनाओं और उद्गारोंके इस सागरमें डुबकियाँ खाता रहता। और जब पियानो बजना बन्द हो जाता, उसको ऐसा मालूम होता जैसे एक जोरदार लहरने उसको किनारेपर लाकर पटक दिया हो।

शराबखानेमें सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। कोई खानेको देता, कोई पीनेको—रोटीका एक टोस, गोश्तका एक टुकड़ा, काफ़ीकी एक प्याली। उसका पेट मर ही जाता। मगर एक रातको एक शराबीने उसको एक गिलास शराबका ज़बरदस्ती पिला दिया। बच्चेको ऐसा लगा जैसे चाकूसे उसके गलेको चीरा जा रहा है। कुछ ही क्षणोंके बाद गलेकी चरमराहट जाती रही, मगर उसका सिर फूलने लगा—फुटबालकी तरह। कम से कम उसे अनुभव ऐसा ही हुआ। फुटबालसे बढ़ते-बढ़ते सिर कुप्पा बन गया। और वह डरा कि कहीं सिर इतना बड़ा न हो जाय कि मैं दरवाज़े में फँस जाऊँ। इसलिए वह बाहर निकल गया। लेकिन दरियाकी ठंडी हवाका एक थपेड़ा ही पड़ा था कि सिर फिर अपनी असली हालतमें आ गया। मगर उसके शरीरमें, जो भूख और ज्वरसे बिल्कुल क्षीण हो गया था, एकदम न जाने कहाँसे इतनी ताकत आ गई—शरीरमें शक्ति और

हृदयमें साहस । उसने सोचा, मैं अभी सोऊंगा नहीं, शहरकी सैर करूँगा और उसके पैर सड़कपर नहीं हवामें पड़ रहे थे ।

चलते-चलते वह गोरोंकी दुनिया में पहुँच गया । रोशनियाँ जगमगा रही थीं । शराबखाने, नाचघर और होटल सब गुरे आदमियों और गोरी औरतोंसे भरे हुए थे । मगर एक चुक्कड़पर यह बहुतसे काले आदमी कहाँसे आ गए थे ? उनका यहाँ क्या काम ? उनमेंसे एक कह रहा था, “हमारे एक साथीको मारा है तो हम दसका खून करेंगे ।” बच्चेकी कुछ समझमें न आया कि यह क्या बात है । इस कारण वह दीवारके साएसे लगा-लगा आगे बढ़ गया ।

भनसे शीशे टूटनेकी आवाज़ आई और साथ ही एक कोलाहल । पुलिसकी सीटी । कुछ लोग भाग रहे थे और कुछ उनका पीछा कर रहे थे । दूरसे और शीशोंके टूटनेकी आवाज़ आई । पुलिसकी सीटियाँ, औरतों की चीखें और उन सब मिली-जुली आवाज़ोंको चीरती हुई गोली चलनेकी तड़ाखेदार आवाज़ । फिर भनसे शीशे टूटनेकी आवाज़ ।

बच्चेकी कुछ समझमें न आया कि क्या हो रहा है । लोग क्यों भाग रहे हैं; औरतें क्यों चीख रही हैं । उसके दिमागमें तो केवल एक विचार था । रेस्तोरान्की वह शीशेकी दीवार जिसके पीछे संसारकी सब नियामतें रखी हुई हैं । यदि और शीशेकी दीवारें टूट रही हैं, तो वह भी तोड़ी जा सकती है । यह विचार आते ही वह भागा । ठोकर खाई—गिरा, उठा, फिर भागा, बेतहाशा भागा । पुलिसकी सीटी सुनाई दी, मगर वह न रुका ।

वह रही शीशेकी दीवार । अन्दर रंगबिरंगे केक उसी भाँति जगमगा रहे थे । लाल-लाल सेब, पीले-पीले संतरे, सब्ज रंगके केले । और उनमें और उसके बीच सिर्फ एक शीशेकी दीवार थी । अगर और शीशेकी दीवारें तोड़ी जा रही हैं तो यह भी तोड़ी जा सकती है । उसने एक पत्थर उठाया और पूरे जोरसे दे मारा ।

भनसे शीशा टूटनेकी आवाज़ आई । उसके और संसारकी नियामतोंके

बीच जो दीवार खड़ी थी वह टूट गई ।

वह केक और फल उठानेके लिए लपका ।

एक तड़ाखा हुआ । बच्चेको अपने बाँए पहलूमें एक टीसका अनुभव हुआ । एक बार उसको एक शहदकी मक्खीने काट लिया था । उस क्षण उसको ऐसा लगा जैसे एक शहदकी मक्खी उसके भाँसको गोलीकी गतिसे चीरकर अन्दर घुस गई है । इसके बाद उसकी आँखोंके आगे एक अँधेरा छा गया जो उसके रंगसे भी अधिक अन्धकारमय था ।

जब उसे होश आया तो वह अस्पतालमें था । बाँए पहलूमें शहदकी मक्खी अब भी काट रही थी । डाक्टर—एक गौरा डाक्टर—कह रहा था, “बच्चा बहुत कमजोर है, और घाव बहुत गहरा है । शायद सेप्टिक भी हो गया है । मुझे डर है कि कहीं सुवह तक मर न जाय ।”

“नहीं, डाक्टर साहब ! ऐसा क्यों कहते हैं ।” नर्स—एक गौरी नर्स—ने कहा, “कोशिश तो करनी चाहिए ! शायद बच जाय । कितना मोला है बेचारा !”

और बच्चेको डाक्टरका कहना अच्छा लगा और नर्सका कहना बुरा । “अब भी मेरे बच्चेकी आशा है !” उसने सोचा । “नहीं, नहीं, मैं ज़िन्दा नहीं रहना चाहता । इस जीवनमें मुझे कोई सुख नहीं है । यहाँ जहरीली शहदकी मक्खियाँ काटती हैं । मैं तो मरना चाहता हूँ ताकि मैं आकाशमें ईश्वरके पास सुखसे रहूँ । मेरा पिता मुझे देखकर कितना खुश होगा !” और हल्की-सी एक आहके साथ उसके मुँहसे यह शब्द निकले, “वह देखो सितारे, अच्छे-अच्छे सितारे, मुझे बुला रहे हैं ।”

मौतने ज़िन्दाकी तरफ़ देखकर विजयगर्वसे मुस्कराते हुए कहा, “बस, कुछ घंटोंकी और देर है। यहाँ ही नहीं, संसारके कोने-कोनेमें मेरा ही राज होगा ।”

एक बूढ़ा

ज़िन्दगी और मौत ।

भीषण द्वन्द्व था ।

मौत लश्करके लश्कर साथ लेकर आई थी—बुढ़ापा, कमजोरी, भुख । जब पेटमें अन्नका एक दाना न जाएगा तो जिन्दगीका चक्कर कैसे चल सकता है !

सत्तर सालका बूढ़ा एक पलंगपर पड़ा था । उसका शरीर सूखा हुआ था । न मौँस, न रक्त । वस, हड्डियोंका एक ढाँचा । पेट कमरसे लग गया था । सात दिनसे उसने कुछ न खाया था । एक बढ़ती हुई सेनाके समान कमजोरी उसपर काबू पा रही थी । आवाज़ भी मुश्किलसे निकलती थी ।

मगर बूढ़ेकी आँखोंमें जीवनकी एक अजीब रोशनी थी, उसके होटों-पर बच्चोंकी-सी मुस्कराहट । उसकी हृदय-गति अनियमित हो गई थी, मगर उसका मस्तिष्क एक मशीनकी भाँति अबतक बिल्कुल ठीक काम कर रहा था । उसका सेक्रेटरी पाँयते बैठा हुआ अखबार सुना रहा था । सारे देशमें बूढ़ेके अनशनने हलचल मचा दी थी । सैकड़ों अपीलें शासनसे की गईं कि उसको छोड़ दिया जाय । सैकड़ों अपीलें उससे की गईं कि वह इक्कीस दिनका अनशन करके अपने जीवनको संकटमें न डाले । अखबारके सम्पादकने अग्रलेखमें लिखा था, “कि वह अपने देश और राष्ट्रके लिए इस अनशनको भंग कर देंगे और अपने असमूल्य जीवनको मौतसे बचा लेंगे । हम किसी भी दशामें अपने प्यारे नेताको मौत सहन नहीं कर सकते ।”

बूढ़ेने यह सुना और मुस्कराया ।

एक युवक पत्रों और तारोंका एक अंबार लेकर भीतर आया । सबका विषय एक ही था । “ईश्वरके लिए अनशन तोड़ दीजिए ।” “आपकी जान देशकी दौलत है, नष्ट न कीजिए ।” बूढ़ेने सुना और मुस्करा दिया ।

कई डाक्टरों ने प्रवेश किया और बूढ़ेकी जाँच करने लगे । नाड़ी, हृदयकी गति, ज़बान, आँखें । और बूढ़ा धीमी आवाज़में उनसे हँसी-मजाककी बातें करता रहा । एक डाक्टरके मुँहपर चिन्ताके चिन्ह देखकर बूढ़ा बोला, “अरे भई, अनशन मैं कर रहा हूँ या तुम !” और उसकी आँखें हँसने लगीं ।

• डाक्टर दूसरे कमरेमें परामर्शके लिए चले गए ।

एकने कहा, “कमाल है । सात दिन हो गए, दाना पेट में नहीं गया । ऐसी हालतमें जिन्दा रहना भी एक अनहोनीसी बात है ।”

दूसरेने कहा, “मगर दिलकी धड़कन कमजोर होती जा रही है ।”

तीसरेने कहा, “इसीसे तो मैं भी परेशान हूँ । बदनमें ताकत ही नहीं है । कैसे मौतका सामना कर सकता है ?”

मौत पास ही खड़ी यह सब सुनकर विजय-गर्वसे मुस्कराई और फिर दृढ़के कमरेमें जाकर उसके सिराहने खड़ी हो गई ।

मौतको कोई न देख सकता था । मगर बृढ़की वृद्धा पत्नीने प्रेमकी दृष्टि से जब अपने पतिकी ओर देखा तो उसको सिगाहने मौत खड़ी हुई दिखाई दी । उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे मौत मुस्करा रही हो । उसने आँखें बन्द करलीं और ईश्वरसे प्रार्थना की, “हे भगवन् ! मेरे पतिकी जान बचा दे, मेरे प्राण ले ले । मेरी लाज तेरे हाथ है । ईश्वर ! ऐसा न हो कि मेरी मृत्युसे पूर्व ही मेरा पति मुझसे विछुड़ जाए ।”

फिर वह बृढ़के पलंगके पास जाकर बैठ गई । उसका जी चाहता था कि अपने पतिके आगे हाथ जोड़े और कहे, “मेरी खातिर यह अनशन तोड़ दो । अपने प्राणोंसे न खेलो ।” मगर उसके मुँहसे एक शब्द न निकला । साठ सालके विवाहित जीवनमें उसने कभी अपने पतिके संकल्पोंका विरोध नहीं किया था । अपने धर्मके नियम भंग किए, पारिवारिक जीवनको तिलांजलि दी, धन-दौलतको त्याग दिया, शासकोंसे शत्रुता मोल ली, अनेकों बार बंदी हुआ, फिर भी कभी पत्नीने उक्र न की । उसका प्रेम उस सीमापर पहुँच गया था जहाँ “मैं” और “तुम” का प्रश्न ही नहीं रहता । उसने अपने व्यक्तित्वको अपने पतिके व्यक्तित्वमें सम्मिलित कर दिया था । अब उसका अपने पतिसे यह कहना कि वह त्रत भंग कर दे, ऐसा ही था जैसे वह स्वयं अपनेसे कहे । वह चुप रही । मगर अपनी आँखोंपर उसका बस न चला, वे आँसुओंसे उमड़

आई ।

बूढ़ेने पत्नीकी आँखोंमें आँसू देखे और मुस्कराकर बोला, “पुगली, चिन्तित न हो, मैं मरूँगा नहीं ।”

पत्नीने आँसू पोंछ डाले और मुस्कराहटकी हल्कीसी भलकसे भुर्रियोंदार चेहरा चमक उठा ।

वह उसने पत्नीकी चिन्ता दूर करनेके लिए ही नहीं कहा था, वह सचमुच ज़िन्दा रहना चाहता था । उसने ज़िन्दा रहनेका दृढ़निश्चय कर लिया था । उसको जीवनमें विश्वास था । जीवनसे विमुख होना उसके धर्मके विरुद्ध था । इसी कारण तो वह मौतसे इतना शांत-चित्त होकर खेल सकता था !

बूढ़ा सारे संसारमें अपनी विशेषताओंके लिए प्रख्यात था । कोई उसको पागल कहता, कोई चतुर राजनीतिज्ञ, कोई आत्मिक बलका मदारी, नंगा फ़कीर, उसको क्या-क्या उपाधियाँ न दी गई थीं । शासनने उसे विद्रोही ठहराकर बंदी कर दिया । उसके शत्रु उसे गद्दार, धूर्त, छली—न जाने क्या-क्या कहते थे, परन्तु उसके देशके करोड़ों मनुष्य उसके नामपर जीवन निछावर करते थे, उसकी उपासना करते थे ।

मगर उसके देशवासी, स्वयं उसके मित्र और सहकारी उसकी अनेक बातें समझनेमें असमर्थ थे । वह कहता था—किसी जीवको दुःख देना पाप है । उसने राष्ट्रको निःशस्त्र युद्ध-करना सिखाया था, शत्रुको सत्य और अहिंसासे नीचा दिखानेका भेद बताया था । किसी परिमाणमें उसे इसमें सफलता भी प्राप्त हुई थी । मगर ऐसे समयमें जब चारों ओर संसारमें युद्धके देवताका राज हो, लहूकी नदियाँ बह रही हों, जब हत्या, अत्याचार और हिंसा मानव-जीवनके सिद्धांत बन चुके हों, उसका अहिंसाका उपदेश यदि सुर्खता नहीं तो कमसे कम हास्यास्पद अवश्य प्रतीत होता था । वह शत्रुको मारना नहीं, अपनाना चाहता था । वह बममार हवाई जहाज़ों, टैंकों, मशीन-गनों, और विषैली गैसों इत्यादिका सामना आत्मिक-बल और सत्यके

प्रदर्शनसे करना चाहता था ! वह मशीनोंकी भौंति सधे हुए, आत्मा और विचार-शक्तिसे वंचित, पाषाण-हृदय अत्याचारियोंकी मनुष्यताकी भावनाको जापट करना चाहता था । कोई कहता वह महात्मा है, कोई कहता वह पागल है ।

किसीको उसके आत्मिक-बलसे भले ही विरोध हो मगर उसके नेतृत्वमें किसीको संदेह न था । वह अपने देशकी स्वतंत्रताकी भावनाका प्रतीक था और उसके स्वतंत्रता-संग्रामका पथ-प्रदर्शक । उसने करोड़ों मनुष्योंको स्वतंत्रताके लिए कट जाना, मर जाना सिखाया था ।

शासनने बूढ़े और उसके साथियोंको बंदी बना लिया । देशमें आगसी लग गई । शासनके अत्याचारका उत्तर जनताने हिंसासे दिया । प्राणका बदला प्राण और खूनका बदला खूनसे लिया । बूढ़ा वर्षोंसे क्रांतिकारी हिंसाके तूफानको रोके हुए था । जब वह बंदी हो गया तो यह तूफान नीति-नियमके समस्त बंधन भंग करके सारे देशमें फैल गया ।

समाचार-पत्रोंमें लम्बे-चौड़े वक्तव्य प्रकाशित हुए । लेख लिखे गए । पुस्तकें छपी गई ! और उन सबमें यह घोषित किया गया कि इस आराजकताका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस नंगे बूढ़े फकीरपर है । उसके जीवनभरके कामको मटियामेट करनेका प्रयत्न किया गया । संसार यह सुनकर चकित रह गया कि अहिंसाकी आइमें यह बूढ़ा हिंसाका प्रचार करता था । और बूढ़ा स्वयं बंदी था । इन आरोपोंको पढ़कर उसकी आत्मा विह्वल हो उठी । उसने अपने व्यक्तित्वको क्रोध और घृणासे सर्वथा मुक्त कर लिया था । वह अपने शत्रुओंसे भी प्रेम करता था । उसका हृदय क्षोभ और दुःखसे भर गया था । उसे मालूम न था कि उसके साथ इतना घोर अन्याय किया जायगा । मगर वह बंदी था । न कोई पत्र लिख सकता था, न कोई वक्तव्य-प्रकाशित कर सकता था । संसारकी दृष्टिमें वह अपने सिद्धान्तोंकी मर्यादा रखे, तो किस प्रकार ! अपने शरीरको भूखकी सज़ा देकर, नीतिका सामना करके । उसके पास तो केवल एक ही उपाय था जिसे वह इससे पूर्व भी पाँच बार

प्रयोगमें ला चुका था ।

उसने देशके शासकको लिखा, “आपने और आपके पदाधिकारियोंने मुझपर अद्भुत आरोप लगाए हैं, यद्यपि आपको भलीभाँति मालूम है कि मैं चालीस वर्षोंसे सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंका प्रचार कर रहा हूँ । और मुझे उत्तर देनेका कोई अवसर नहीं दिया गया । इस दशामें मेरे लिए केवल एक ही मार्ग है । और वह अनशन करके तप करना है । अतएव मैंने निश्चय किया है कि मैं इक्कीस दिन तक अनशन करूँगा । मेरा अभिप्राय आत्म-हत्या करना नहीं है और न राजनैतिक उद्देश्योंके लिए आपको इस प्रकार वाध्य करना, वरन् अन्यायके विरुद्ध उस अदालतमें अपील करना है जो आपकी और इस संसारकी अदालतोंसे ऊपर है । मेरी यदि इस बीचमें मौत हो गई तो मैं अपनी निर्दोषतापर विश्वास रखते हुए इस संसारसे विदा हूँगा । आनेवाली पीढ़ियों निर्णय कर सकेंगी कि कौन न्याय-पथपर था, आप या मैं ? संसारके एक प्रतिभाशाली साम्राज्यका प्रतिनिधि या मुझ जैसा एक फकीर, जो अपने देश और समस्त मानवताका एक तुच्छ सेवक है ।”

और अब उस ऐतिहासिक व्रतके सात दिन बीत चुके थे । बृद्धा प्रति-क्षण दुर्बल होता जा रहा था । चालीस करोड़ आत्माएँ उसकी प्राण-रक्षाके लिए प्रार्थना कर रहीं थीं । मौत प्रतीक्षा कर रही थी, कब इस अमर आत्माको समेटकर परलोक ले जाए ।

सगर बृद्धा पूर्ववत् हँसता रहा ।

एक शहर

ज़िन्दगी और मौत ।

भीषण द्वंद्व था ।

मौत लश्करके लश्कर लेकर साथ आई थी । बममार हवाई-जहाज़, सेकड़ों मीलकी मार करनेवाली तोपें, मशीनगनों, राइफलों, बन्दूकें और रिवाल्वर, विपैली गैस, और सिपाहियोंके दल-बादल । आत्मा और विचार-

शक्तिसे वंचित सिपाही, जिनको ज़िन्दगीके बदले मौतकी शिक्षा दी गई थी, जिनके हृदयको मनुष्यता, दया और सहानुभूतिके भावोंसे इस प्रकार रिक्त कर दिया गया था जैसे नींबूको लोहेकी उँगलियोंसे निचोड़कर सारा रस निचोड़ लिया जाता है।

एक शहर, नौजवान शहर, मौतका सामना कर रहा था।

एक शहर, फ्रीलादका शहर, जिसका नाम उस देशके सबसे बड़े सुरमा के नामपर रखा गया था, अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे शत्रुका सामना कर रहा था। पूरा शहर युद्धक्षेत्रमें उतर आया था—स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे, तैनिक, वायुयान-संचालक, इंजीनियर और डाक्टर, लेखक और कवि, पत्रकार और कलाकार, मोटर-डाइवर और बावर्ची, अफसर और मजदूर।

शहर नदीके तटपर बसा हुआ था, जिसका पानी खूनसे मिलकर लाल हो गया था।

शहर भीलोंतक फला हुआ था—फैक्ट्रियाँ, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मकान, दुकानें, सबकें, बाग्य और आज प्रत्येक स्थानपर विनाशके चिन्ह ही दिखाई देते थे। जहाँ कभी ज़िन्दगीका राज था, वहाँ आज मौत का राज था। बमोंने आग लगा दी थी। शहरके कोने-कोने से धुँएँके बादल उठकर आकाश की ओर जा रहे थे।

नगर-निवासी महीनोंसे अपनी रक्षा और अपने नगरकी रक्षाके लिए लड़ रहे थे। उनके घर बम-वर्षासे खंडहर होचुके थे। वह रात-दिन खाइयोंमें रहते थे। हर समय शहरपर गोलों और गोलियोंकी बौछार होती रहती थी। वह न सोते थे, न आराम करते थे। न हँसते थे, न मुस्कराते थे। कपड़े फट गये थे। अनेकों बार विना भोजनके ही दिन बीत जाते। भूख-प्यासका कोई अंतर नहीं रहा था। दिनमें धुँएँके बादलों में सूरज छिपा रहता और रातको आगकी लपटोंका प्रकाश होता। दिन, तारीख और समय इनका कोई अर्थ ही नहीं रह गया था।

इस शहरका इतिहास अनोखा था। एक समय था जब यह एक

साधारण-सा क़स्बा था। उसका नाम एक क्रूर और अत्याचारी राजा के नामपर रखा गया था। उन दिनों संसारके और शहरोंकी भाँति यहाँ भी धनिक भोग-विलास करते थे और गरीब मज़दूर कठिन परिश्रम करने पर भी भूखों मरते थे। फिर क्रांतिका तूफ़ान उठा, मज़दूर और किसानोंने तख़्त और ताजको मिट्टीमें मिला दिया। जनताका राज स्थापित किया। मगर अत्याचारी और क्रूर प्रतिक्रियावादी और ज़मींदार सहज ही मानने वाले न थे। घमासान युद्ध हुआ। यह-युद्धकी आग सारे देशमें भड़क उठी। इसी नगर में, इसी नदीके तटपर इस क्रांतिकारी युद्धका एक निर्णयात्मक संग्राम हुआ। साम्राजियोंने नगरपर अधिकार कर लिया था। मगर एक योद्धाके सेनापतित्वमें क्रांतिकारी सेनाने आक्रमण किया, नगर-निवासी दमन और अत्याचारके विरुद्ध उठ खड़े हुए और प्रतिक्रियावादियोंकी घोर पराजय हुई। शहरका नाम बदलकर उसी योद्धाके नामपर रखा गया जिसने क्रांति और स्वतंत्रताके लिए उसकी शत्रुके पंजेसे रक्षा की थी।

पच्चीस वर्षोंमें इस नगरकी कायापलट हो गई। जो मज़दूर अँधेरे, गंदे, गिरे-पड़े मकानोंमें रहते थे, उनके लिए भव्य और सुंदर घर बनवाए गए। उनके बच्चोंके लिए स्कूलों और कालिजोंके दरवाज़े खोल दिए गए। नवाबों, ज़मींदारों, पूँजीपतियोंके महलोंमें मज़दूरोंके लिए बलब और अस्पताल खोले गए। नए कारखानोंकी स्थापना हुई। रेलें, ट्रामें, बिजली, तार, टेलीफोन, पार्क, थिएटर, सिनेमा, पुस्तकालय—और हरएक चीज़ काम करनेवालोंके लिए। जीवनकी एक लहरसी शहरमें दौड़ गई, न सिर्फ़ इस शहरमें बल्कि उस देशके हरएक शहरमें, हरएक गाँवमें। हज़ारों वर्षोंके बाद जनताने अपने संसारकी सम्पत्तिपर स्वयं अधिकार कर लिया। अत्याचारियों और आततायियोंको मार भगाया। मज़दूर-राजकी स्थापना हुई। ज़िन्दगीकी विजय हुई।

मगर मृत्यु और विनाशके देवता कब चुप बैठते हैं। संसारमें सुख,

शांति, उन्नति और जनताकी सम्पन्नता देखकर वह जल जाते हैं । कोशिश करते हैं कि फिर ज़िन्दगीपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें, न्याय पर अन्याय, प्रगतिपर प्रतिक्रिया, प्रकाशपर अंधकार । मौतकी सेनाओंने ज़िन्दगीके इस उज्ज्वल प्रतीकपर आक्रमण कर दिया । संसारकी शांति युद्धाग्निमें जल उठी ।

विनाश और संहारका दुफ़ान तीव्रगतिसे आगे बढ़ा । विज्ञानकी सहायतासे पिशाच-बुद्धियोंने ऐसे-ऐसे हथियार बनाए कि उमके सम्मुख कोई शक्ति न ठहर सकती थी । नगरके नगर उजाड़ दिए गए, खेतियाँ जला दी गईं, लाखोंके प्राण गए, स्त्रियाँ विधवा हो गईं, बालक अनाथ हो गए । ज़िन्दगीके कदम उखड़ गए ।

मगर इस शहरपर ज़िन्दगीने फिर पैर जमाए । मौतके लश्करोंको रुकना पड़ा और शत्रुने शहरको घेर लिया । ज़िन्दगी मौतके दुफ़ानोंमें घिर गई ।

और इसी प्रकार महीनोंसे युद्ध हो रहा था । शत्रु अपनी अघोर शक्तिको लिए शहरके सामने पड़ा था । शहरपर बमोंकी वर्षा हो रही थी । चारों ओर आग और विनाशके दृश्य दिखाई देते थे । शहर जल रहा था । और मौत विजय-गर्वसे मुस्करा रही थी ।

ज़िन्दगी चुप थी । मगर ज़िन्दगीके कदम दृढ़ थे ।

एक बच्चा

ज़िन्दगीने अपने अस्त्र उठाए ।

प्रातःकाल डाक्टर आया तो उसने देखा कि बच्चा पीड़ासे कराह रहा है । उसका रंग काला था, फिर भी उसके चेहरेपर रक्तके अभावके कारण पीलापन भलक रहा था । सॉस लेनेमें भी कठिनाई हो रही थी ।

“नर्स !”

“जी डाक्टर साहब !”

मौत गैसका जीवनप्रद सिलिन्डर आते देखकर घबरा-सी गई। नली लगा हुआ क्रीफ़ बच्चेकी नाकपर रख दिया गया। साँस सुगमतासे आने लगी। मगर चेहरेपर पीलेपनकी झलक पूर्ववत् थी।

“नर्स !”

“जी डाक्टर साहब !”

“.....”

“मैं हाज़िर हूँ !”

“तुम्हारे खूनकी परीक्षा हो चुकी है।”

“जी हाँ, इस बच्चेके खूनका इम्तहान कराके मुक्काबिला भी करा लिया है।”

“तुम्हें अपना खून इस काले बच्चेको देनेमें कोई आपत्ति तो नहीं है !”

“जी नहीं, मैं जाति और वर्णके भेदको नहीं मानती।”

“शाबाश !”

नर्सके गोरे कोमल हाथमें एक मोटी सुई घुसा दी गई। एक खड़की नलीमें से होकर लाल-लाल खून एक बोतलमें इकट्ठा होता गया। बच्चा अचरजसे यह सब देखता रहा, जैसे कोई नई तरहका खेल हो, फिर उसके हाथपर से आस्तीन उलट दी गई।

“डरना मत शाबाश, बस ज़रा-सा दर्द होगा।” हाथमें एक हल्की-सी टीख डूई और बोतलमें खून कम होने लगा।

मौत परेशान हो गई। उसकी सेनाके पाँव उखड़नेवाले ही थे कि उसने एक नया दौब खेला। बच्चेके कानमें कहा, “ज़िन्दा रहनेसे क्या लाभ ? संसारमें काले रंगवालोंके लिए दुःख ही दुःख है। गंदे-सड़े मकान, गोरोंकी गालियाँ और ठोकरें, और फिर कोई ज़हरीली शहदकी मक्ली काट लेगी। जीवित रहनेसे कोई लाभ नहीं। आकाशपर सितारे तुम्हें बुला रहे हैं और भगवान तुम्हारी प्रतीक्षामें खड़े हैं।”

खून अन्दर जा चुका तो डाक्टरने पूछा, “क्यों बेटा, अब कुछ अच्छा लगता है।”

“मैं जिन्दा नहीं रहना चाहता, डाक्टर साहब। मुझे सितारे बुला रहे हैं, सितारे और भगवान्।”

“नहीं बेटा! ऐसी बातें नहीं करते। तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे।”

मगर बच्चेको अपने कटु अनुभव याद आ रहे थे। उसकी समझमें न आता था कि भीख मँगाने और गालियाँ खानेके लिए उसको जिन्दा रखनेपर क्यों सब लोग तुले हुए थे। उसने डाक्टरीकी ओरसे मुँह मोड़ लिया।

डाक्टरने नर्ससे कहा, “जब तक रोगी सहयोग न दे, हम उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं! निरोगी होनेके लिए दवासे ज्यादा जिन्दा रहनेकी इच्छाकी आवश्यकता है।”

यह सुनकर मौत फिर विजय-गर्वसे मुस्कराई। “हर जगह मेरी ही जीत है।”

एक बूढ़ा

एक बूढ़ा मर रहा था। एक क्रीम जिन्दा हो रही थी। आदमीका शरीर भी एक अनोखी मशीन है। जब तक सब अंग मिलकर अपना-अपना काम न करें पुर्जोंमें विकार पैदा हो जाते हैं। पेटमें यदि भोजन न जाय तो दुर्बलताके अतिरिक्त शरीरमें विष भी पैदा होने लगता है।

बारहवें दिन डाक्टरोंने बूढ़ेके मूत्रका निरीक्षण किया तो उसमें एक शंकाजनक विषैला पदार्थ पाया। यदि तीन दिन और इसी तरह बीते तो जीवनकी कोई आशा नहीं।

एक डाक्टर जो बूढ़ेका मित्र भी था, उसके पास जाकर बोला, “देखिए, इस समय मैं एक डाक्टर हूँ, न आपका मित्र, न शिष्य। मेरा

कर्तव्य हो जाता है मनुष्यके प्राण बचाना। आपके शरीरमें खाद्य-पदार्थ न जानेके कारण विष फैल रहा है। आपके प्राण संकटमें हैं। इस कारण मुझे आपको अनशन तोड़नेपर बाध्य करना होगा।”

बूढ़ा कुछ सोचकर धीरेसे मुस्कराया। ताकत इतनी कम हो गई थी कि वह अब जोरसे बोल भी न सकता था। डाक्टरने अपने कान सुले होठोंके पास लगा दिए।

“डाक्टर, यह मेरी मर्यादाका प्रश्न है।”

“नहीं, यह आपके प्राणोंका प्रश्न है।”

“अच्छा, कबतक अवकाश दे सकते हो।”

“चौबीस घंटे। यदि कल प्रातःकाल भी मृत्युमें यह विषैला पदार्थ निकला तो आपको व्रत मंग करना ही पड़ेगा।”

“अच्छा भाई, तुम्हारी इच्छा।” और यह कहकर बूढ़ेने आँखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना की, “हे ईश्वर! मेरी लाज तेरे ही हाथ है।”

बूढ़ेके व्रतपर उस समय न केवल एक देश बल्कि सारे संसारका ध्यान केंद्रित था। सुदूर देशोंके समाचार पत्रोंके सम्वाददाता हवाई जहाजसे इस व्रतकी रिपोर्ट भेजनेके लिए आए हुए थे। हर चंद्र घंटोंके बाद डाक्टर बूढ़ेके स्वास्थ्यके संबंधमें सूचनाएँ दे रहे थे। चालीस करोड़ आँखें उधर ही लगी हुई थीं। तार, टेलीफोन, समाचार-पत्र, प्रत्येक सम्भव साधनसे प्रतिक्षण समाचार सारे देशमें फैल रहे थे।

एक बूढ़ा मर रहा था। एक क्रीम ज़िन्दा हो रही थी।

देशके कोने-कोनेमें राष्ट्र-प्रेमियोंके क्रांतिकारी प्रदर्शन, समाएँ, जुलूस, प्रस्ताव, शासकोंके नाम तार, बूढ़ेकी रिहाईकी माँग, समाचार पत्रोंमें खेल, राजनैतिक पार्टियोंके नेताओंके दत्तव्य। प्रत्येक हृदयमें धड़कन, उत्साह और बूढ़ेके प्रति प्रेम था।

दूसरे दिन प्रातःकाल समाचार मिला कि स्वयं शत्रुके दलमें फूट पड़

गई। बूढ़ेके तीन देशवासियोंने जो अतक विदेशी शासकोंके अनन्य सेवकों-में से र्थे त्यागपत्र दे-दिए।

बूढ़ेको लैटे-लैटे यह सब समाचार मिल रहे थे। उसका जीवन-ध्येय सफल हो रहा था। उसने अपने देशका और अपने सिद्धान्तोंका संसारके सामने फिर मस्तक ऊँचा कर दिया था। उसने अपने प्राणोंकी बाज़ी लगा-कर फिर पाँसा जीत लिया था। मगर उसके तन और मनमें एक भीषण छंद्र मचा हुआ था। उसने डाक्टरको वचन दिया था कि यदि प्रातःकाल तक विषैले पदार्थ दूर न हुए तो वह त्रत तोड़ देगा। त्रत टूट जाएगा। उसका सब किया-कराया काम व्यर्थ हो जाएगा। उसकी मर्यादा मिट्टीमें मिल जाएगी। दुनिया उसपर हँसेगी, उसको इसकी कोई विशेष चिन्ता न थी। पर दुनिया उसके सिद्धांतों पर हँसेगी। नहीं, वह ऐसा कमी न होने देगा। उसने अँखें बंद कर लीं। यद्यपि उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था फिर भी वह अपने निश्चयके बलसे विषका मुक्ताबिला करनेके लिए तैयार होगया। मगर, क्या शरीरकी रासायनिक क्रियाओंको एक सतर वर्षके बूढ़ेका आत्मबल रोक सकता था ?

मौत जिन्दगीकी आशावादितापर हँस रही थी।

एक शहर

मौतके लश्कर बराबर बढ़ते चले आ रहे थे, मगर जिन्दगीने हार न मानी।

शहरकी सीमाओंपर शत्रुने अधिकार कर लिया था। स्वयं शहरेके आधे भागमें घोर युद्ध हो रहा था। हर सड़क, हर गली, हर मकानपर वीर डटकर मुक्ताबिला कर रहे थे, पग-पगपर रक्त बहा रहे थे, प्राण दे रहे थे। औतें और बच्चे बन्दूकें लिए लड़ रहे थे। शत्रुके हज़ारों सैनिक क्रम-आए। मगर उनके टैंकों, वायुयानों और तोपोंका लौह-प्रवाह बढ़ता ही चला आ रहा था।

मौत प्रसन्न थी। हँस रही थी। “कुछ ही दिनकी बात है। विजय निश्चित है।”

मगर ज़िन्दगीने धीरज नहीं छोड़ा था। नगर-निवासी सौगंध खा चुके थे कि शत्रुके टैंक यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारी लाशोंपर से होकर। खून और माँसकी बनी हुई एक चट्टान थी जो दुश्मनकी राहमें खड़ी हुई थी।

वह कौन-सी प्रेरणा थी जो नागरिकोंका साहस बढ़ा रही थी? स्वतंत्रताकी भावना, पारस्परिक समानता और मनुष्यताकी भावना।

एक सैनिकसे किसी विदेशी पत्रकारने पूछा, “वह कौन-सी शक्ति है जो तुम्हें अबतक शत्रुकी अपार फ़ौजके विरुद्ध लड़नेपर मजबूर करती है?”

सैनिकने उत्तर दिया, “माई, मेरी उमर चालीस वर्षकी है। तुम्हें मालूम है, मेरा जन्म कहाँ हुआ था।—इसी नगरमें, सूअरोंके अस्तबलमें। वहीं सुखी दासके एक ढेरमें एक सुअरीने बच्चे दिए थे और वहीं मेरी मेरी मुझे जन्म दिया था। मेरा बाप एक ज़मींदारका दास था। मेरी माँ मुझे जन्म देनेके तीसरे दिन ही कामपर जानेके लिए बाध्य की गई। मैं वहीं सूअरलीके पास पड़ा रहता था और सरदी लगती तो उन सूअरके बच्चोंके साथ उनकी माँके गर्भ शरीरसे लिपट जाता। यह था हमारा जीवन उस वक़्त। और फिर क्रांति हुई और काया पलट हो गई। हम मनुष्य बन गए। हमारे लिए सुन्दर मक़ान बने, अस्पताल और कॉलिज। मेरा लड़का और लड़की यूनिवर्सिटीमें पढ़ते हैं। समझे, यह है क्रांतिकी देन! इसी क्रांतिकी रक्षा करनेके लिए हम आज अपने प्राण दे रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दुश्मन जीत गया तो मजदूरों और किसानोंकी दशा फिर पशुओं, कुत्तों और सूअरोंसे बदतर हो जाएगी। यह जीवन और मौतका सवाल है, माई।”

शत्रुके मर्दों, औरतों और बच्चोंकी दीवार अटल खड़ी रही।

और फिर एक दिन समाचार मिला कि उत्तरकी ओरसे और सेनाएँ

आरही हैं। शहरमें हरएक आदमीके मुँहपर जीवन और प्रसन्नताके चिन्ह दिखाई देने लगे।

साहस बढ़ने लगा। सीने तन गए।

मौतके लश्करके पाँव उखड़ गए। मौत घबरा-सी गई।

एक बच्चा

नर्स चिन्तित थी। उसकी समझमें न आता था कि किस तरह काले बच्चेकी जीवित रहनेकी इच्छाको जगाए।

दिनभर वह करवट लिए दीवारकी ओर मुँह किए पड़ा रहता था। ऑक्सीजन और नकली खून देनेसे उसकी जान बच गई थी। इन्जेक्शनोंसे घावके ज्वरका प्रभाव कम कर दिया था। मगर उसके निश्चय-बलने जीवनसे असहयोग कर रखा था। और वह धीरे-धीरे मौतकी अन्वकारमय गहराईयों की ओर फिसलता जा रहा था।

काले बच्चेके नन्हें दिमागमें यह विचार समाया हुआ था, “वह गोरोंकी दुनिया है, एक काले आदमीके लिए यही उचित है कि वह मर जाए।” तमाम गोरी जातियोंके प्रति उसके हृदयमें सिर्फ नफरत और गुस्सा था। डाक्टर और नर्स दोनों उसी वर्णके थे। इसी कारण वह उनकी सुरत भी देखना नहीं चाहता था। ज्वरदस्ती दवा पिलाते, तो पी लेता। इन्जेक्शनकी तकलीफ सह लेता। मगर पास बैठकर नर्स उससे बात करनेकी, उसका दिल बहलानेकी कोशिश करती तो वह कोई उत्तर न देता और दीवारकी ओर मुँह कर लेता।

मगर नर्सने हिम्मत न हारी थी। वह ज़िन्दगीकी सेवा करनेवाली एक वीर योद्धा थी। उसका कर्तव्य था मौतका मुकाबला करना। इसके अलावा स्वयं उसके कोई संतान न थी। उसके दिलमें हर बच्चेके लिए, चाहे वह गोरा हो या काला, एक मातृ-प्रेम था। हरएक बच्चा उसका बच्चा था। उस काले बच्चेको भी वह अपना बच्चा मानती थी। उसने फ़ैसला कर लिया

या कि वह उसे मरने न देगी ।

एक दिन नर्सको बैठे-बैठे एक नया उपाय सूझा । उसने अपना झोटा-सा रेडिओ उठाकर काले बच्चेके कमरेमें उसके पलंगके पास लगा दिया । बटन दबाते ही कमरा संगीतकी लहरोंसे भर गया । बच्चेको संगीतसे विशेष आकर्षण था । कदाचित् इसका कारण यह था कि उसकी जातिको सदैव ही संगीतसे विशेष रुचि रही थी । जैसे ही उसने संगीतकी ध्वनि सुनी, उसने दीवार की ओरसे मुँह फेरकर दूसरी ओर कर लिया । नर्स एक लकड़ीके बक्सेके पास खड़ी मुस्करा रही थी । आवाज़ उसी बक्सेमें से आ रही थी । कितनी सुरीली, कितनी मधुर !

कितने ही दिनोंके बाद बच्चेकी आँखोंमें जीवनकी जोत दिखाई दी । वह मुस्करा दिया । नर्सको ऐसा मालूम हुआ जैसे उसे किसीने संसारकी सबसे क्लीमती चीज़ दे दी हो ।

मधुर संगीतकी लहरें मन्द गतिसे कमरेमें प्रवाहित हो रही थीं । बच्चेने अनुभव किया जैसे किसीने उसकी आत्माके धावोंपर प्रेम-भरे हाँथोंसे मरहम लगा दिया हो । उसने आँखें बंदकर ली कि नैसर्गिक-संगीतका यह स्रोत सिर्फ़ कानोंके ज़रिए उसके सारे शरीरमें रिस जाय ।

मगर थोड़ी देरमें संगीतका प्रोग्राम खत्म हो गया । एनाउन्सरकी आवाज़ आई, “अब हम आपको एक सुदूर देशमें ले जाते हैं, जहाँसे हमारा प्रतिनिधि आपको संसारके एक आश्चर्यजनक युद्धका समाचार सुनाएगा ।” और फिर एक दूसरी आवाज़, जो पहली आवाज़की अपेक्षा धीमी थी और दूरसे आती हुई मालूम होती थी, सुनाई दी, “मैं जॉन स्मिथ बोल रहा हूँ । मैं एक युद्ध-संवाददाता हूँ । मैंने पिछले बीस सालोंमें आधी दर्ज़न लड़ाइयोंकी खबरें समाचार-पत्रों और रेडिओके द्वारा अपने देशवासियोंतक पहुँचाई हैं । प्रथम महायुद्ध, मंचूरियाका युद्ध, एबीसीनिशाका युद्ध, स्पेनका युद्ध, चीन और जापानका युद्ध और अब यह द्वितीय महायुद्ध । मगर आज मैं आपको संसारके सबसे आश्चर्यजनक युद्धका हाल सुनाता हूँ । यह

हवाई जहाजों, तोपों, बन्दूकोंका युद्ध नहीं है । यह जिन्दगी और मौतका दृग्द-युद्ध है और युद्धक्षेत्र एक बड़े आदमीका कमजोर शरीर है, जो सत्रह दिनसे अनशन कर रहा है.....

नर्सने पूछा, “यह प्रोग्राम बदलकर कोई दूसरा संगीतका प्रोग्राम लगा दूँ ?”

काले बच्चेने कहा, “नहीं, नहीं । मैं उस बूढ़ेका हाल सुनाना चाहता हूँ ।” न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़ेकी जिन्दगीमें और उसकी अपनी जिन्दगीमें एक निकट संबंध है ।

एक बूढ़ा

मौत एक बार पीछे हटकर फिर पूरी ताकतसे हमला कर रही थी । डाक्टर बूढ़ेके आत्मबलपर हैरान थे और खुश भी । मगर आगामी चार दिनोंके विचारसे उनको चिन्ता थी ।

मृत्युमें जो विष पैदा होने लगा था, वह आपसे आप बिना किसी दवाके, बिना किसी खाद्य पदार्थके दूर हो गया था । वैज्ञानिक हैरान थे । जिन्दगी गर्वसे माथा उठाए हुए थी । और बड़ा मुस्करा रहा था । उसको डाक्टर अनशन मंग करनेपर बाध्य न कर सके । वह अबतक जिन्दा था । उसका दिमाग अब भी काम कर रहा था । उसकी आँखोंमें अबतक चमक थी । वह जवाब देनेमें अब भी वही फुर्ती दिखाता, जिसके लिए वह प्रसिद्ध था ।

मगर सत्रह दिनके अनशनका असर होना जरूरी था । हृदय क्षीण होता चारहा था, उसकी गति नाममात्रकी शेष रह गई थी । डाक्टर ओल लगाकर देखते तो ऐसा मालूम होता जैसे किसी घड़ीमें चाबी खत्म होरही हो और उसकी गति इतनी मंद पड़ जाय कि प्रतिक्षा रुक जाने की शंका हो ।

मौतको अपनी विजयका फिर निश्चय हो चला था । मगर जिन्दगीने

हिम्मत न हारी थी ।

एक बूढ़ा मर रहा था । एक क्रीम ज़िन्दा हो रही थी ।

देशके कोने-कोनेमें, महलोंमें और भोपड़ियोंमें, क्लबोंमें और चौपालों-पर, रेल्सगाड़ियोंमें, बैलगाड़ियोंमें, हर जगह बस एक चर्चा, एक विचार, एक आशा, एक आराधना—बूढ़ेक प्राण बच जायँ । वह अपनी कठिन परीक्षामें सफल हो ।

मन्दिरोंमें और मस्जिदोंमें, शिवालयोंमें और खानकाहोंमें, गिरजोंमें और अग्यारियोंमें उसके प्राणोंके लिए प्रार्थना हो रही थी । नमाज़के बाद बूढ़ी मुसलमान औरतें शिङ्गिङ्गाकर ईश्वरसे प्रार्थना कर रही थीं, “ऐ रहीम और करीम, हमारी क्रीमके बूढ़े बापकी जान बख्श दे ।” पूजा और गीता-पाठके बाद बूढ़ी हिन्दू औरतें भगवान्से प्रार्थना कर रही थीं, “हे भगवान् ! तू बड़ा दयालु है, हमारे और हमारे देशपर कृपा कर ।” बच्चे दो-दो वक्रत व्रत रख रहे थे कि खानेके पैसे बचाकर दान कर दें । विवाह और खुशियाँ, जलसे और समारोह, तीज-त्योहार सब उस समयतकके लिए स्थगित कर दिए गए थे जबतक कि बूढ़ेका व्रत सकुशल समाप्त न हो जाए ।

बूढ़ा मर रहा था । उसका सिद्धांत, उसका धर्म ज़िन्दा हो रहा था । सारा संसार उसके विचारोंसे प्रभावित हो रहा था । उसकी किताबें, उसके लेखोंको ध्यानसे पढ़ा जा रहा था । उसकी अजीबोपरीव राजनीतिका संसारके शासकोंकी कूटनीति और स्वार्थसे मुकाबिला किया जा रहा था । लोगोंको आश्चर्य था कि कौनसी शक्ति थी जो उस वृद्धावस्था और दुर्बलता की दशामें उस सत्तर बरसके बूढ़ेको जीवित रखे थी । बूढ़ेके सिद्धांतोंके साथ-साथ उसके राष्ट्रके स्वन्त्रता संग्रामका भी प्रचार हो रहा था । एक आदमीके अनशनने संसारके चतुर राजनीतिज्ञोंको चकित कर दिया था ।

नर्स बहुत खुश थी ।

जबसे काले बच्चेके कमरेमें रेडिओ लगा था उसकी हालतमें आश्चर्यजनक

परिवर्तन होगया था। ऐसा मालूम होता था कि उसमें ज़िन्दगीके लिए एक नया उल्साह पैदा हो गया है। अब वह कभी दीवारकी ओर मुँह करके न लैटता। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा न रह गया। वह खुशी-खुशी दवा पीता, इंजेक्शन लगवा लेता, डाक्टर और नर्स दोनोंसे हँसकर बात करता।

रेडिओके जादू भरे डिब्बेमें संगीतका स्रोत प्रवाहित होता और वह घंटों लेटा आँखें बन्द किए हुए उसकी मंद-मंद लहरोंमें बहता रहता। मगर जब बारह बजे एनाउन्सर कहता, “अब हम आपको एक सुदूर देशमें ले जाते हैं....” वह आँखें खोलकर तकियोंके सहारे लगकर बैठ जाता। न जाने क्यों उसे उस सुदूर देशके बड़ेसे इतना लगाव हो गया था। कदाचित्त इसका कारण यह था कि उसने युद्ध-सम्वाददातासे सुना था कि बूढ़ेको बच्चोंसे बहुत प्रेम है, या इस कारण कि बूढ़ा अपने जीवनभर गोरोंके एक शक्तिशाली शासनके विरुद्ध निःशस्त्र लड़ाई करता रहा है। उसका यह अनशन भी उसी लड़ाईका एक मोर्चा था। काले बच्चेने सुना था कि बूढ़ेने अपने देशके करोड़ों काले रंगके लोगोंको स्वाभिमानकी शिक्षा दी थी। स्वाभिमान, आत्म-विश्वास, स्वतन्त्रता, और सिद्धान्तोंके लिए लड़ जाना, मर जाना। इन बातोंको सुनकर काले बच्चेके हृदयसे निराशा और निरुत्साहके भाव दूर हो गए थे और वह सोचता, “मैं भी जब बड़ा हो जाऊँगा तो उस बूढ़ेकी तरह अपने साथियोंको आज़ादीके लिए लड़ना और मरना सिखाऊँगा।”

मगर जब उसने रेडिओपर सुना कि बूढ़ेकी हालत खराब होती जा रही है और इक्कीस दिनके अनशनसे वह ज़िन्दा न रह सकेगा तो काले बच्चेको ऐसा मालूम हुआ कि उसके शरीरसे स्वास्थ्य और जीवन निकला जा रहा है। उसका दिल बुझ-सा गया। वह बहुत देरतक अपने पलंगपर चुपचाप आँखें बंद किए पड़ा रहा। इस बीचमें रेडियो न जाने क्या-क्या कह रहा। उसने कुछ न सुना। मगर फिर बंदूके चलने और बम फटनेकी

दशवनी आवाज़ सुनकर वह धबराकर उठ बठा। एनाउन्सर कह रहा था, “धबराइए नहीं, यह बम आपके घरसे छः हजार मील दूर फुट रहे हैं। बैतार द्वारा हम त्रिफे उनकी आवाज़ आपतक पहुँचा रहे हैं ताकि आप इस युद्ध का न केवल समाचार ही सुन सकें, वरन् स्वयं अपने कानोंसे इस असली लड़ाईकी असली आवाज़ोंको भी सुन सकें। यह लड़ाई आपके घरोंसे बहुत दूर होरही है, मगर यह आपहीकी लड़ाई है। आपके सिद्धान्तोंके लिए आपकी आजादीके लिए, आपकी माँ-बहनोंकी इच्छाके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। लाल सेनाके यह वीर सैनिक जो गाते हुए युद्धक्षेत्रकी ओर जा रहे हैं, यह आप ही के साथी हैं। आपके शत्रुको यह अपनी बलि देकर रोके हुए हैं, अपने प्राणोंकी बलि देकर यह आपके देशकी रक्षा कर रहे हैं। उनकी आवाज़ आपकी आवाज़ है।...”

और फिर काले बच्चेका कमरा एक उत्साहपूर्ण गीतसे गूँज उठा। लाल सेनाके सैनिकोंका गीत एक अपरचित भाषामें था। वह उसका मतलब न समझ सकता था, मगर उनके स्वरोंमें वही तल्लीनता, वही उत्साह, वही अपनापन था, जो उसको अपने काले लोगोंके संगीतमें मिलता था। उसका जी चाहा कि वह भी उन सैनिकोंके साथ होता और उसी प्रकार गाता हुआ रणक्षेत्रकी ओर जाता।

“आइए, आपको हम उस शहरकी सैर कराएँ जो अपनी वीरताके कारण संसारके इतिहासमें चिरस्मरणीय रहेगा। वह शहर जो एक सालसे दुश्मनकी अपार फ़ौजी ताकतके सामने बटा हुआ है। वह शहर जिसकी कोई इमारत ऐसी नहीं है, जिसे नुक़सान न पहुँचा हो। मगर जहाँके मर्दे, औरतें और बच्चे अपने शहर और अपने देशकी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए चग-चगपर प्राण दे रहे हैं, मर रहे हैं, पर पीछे नहीं हट रहे हैं...।”

रेडिओमेंसे गड़गड़ाहटकी आवाज़ आई। टैंकोंकी गड़गड़ाहट, हवाई जहाज़ोंकी बरावनी गूँज, गोलोंके धमाके, गोलियोंकी सनसनाहट, और काला बच्चा अपने धावकी पीड़ाको मूल गया। उसे ऐसा भाव्यम हुआ कि

वह एक अस्पतालमें नहीं है बल्कि उस शहरमें है जहाँ लाल सेना शत्रुके सामने डटी हुई है, और उसको विश्वास हो गया कि न लाल सेना पीछे हटेगी और न वह आप मौतसे हार मानेगा ।

एक शहर

शहरसे मीलभर बाहर शत्रुकी सेनाएँ खाइयों में पड़ी थीं । वह वहाँ सालभर से पड़ी हुई थीं । बरसातमें पानी, कीचड़, जाड़ेमें बर्फ और खूनको जमा देनेवाली सरदी, क्या कुछ उनको सहन न करना पड़ा था ? मगर जिस चीज़ ने उनके क्रम उखाड़ दिए थे, उनके हीसले पस्त कर दिए थे, वह शहरवालों की हिम्मत थी । वह इथियारोंकी कमी होते हुए भी लड़ते ही जाते थे । दुश्मनकी सेनाके हर सिपाहीको ऐसा मालूम होता था जैसे उसका सामना मनुष्योंसे नहीं ऐसी दैवी शक्तियोंसे है जिनके विरुद्ध कोई ब्रह्म काम नहीं देता ।

एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्दनों बार, सैकड़ों बार शत्रुकी सेनाओं-ने शहरपर हमला किया था । हवाई जहाज़ोंसे बमबारी करके शहरकी ईंटसे ईंट बजा दी थीं । टैंकोंके लौह-हाथियोंको साथ लेकर हमला किया था । शहरकी सीमाओंको विध्वंस करके शहरके बीचोंबीच पहुँच गए थे । मगर शहरवालों ने उनको फिर मार भगाया था और उन्हें दुबारा अपनी खाइयों में बड़ी-बड़ी तोपोंके ढापेमें शरण लेनी पड़ी थी । यह शहरवाले लड़ाईके नियमोंसे बिल्कुल अनभिज्ञ थे । उनको यह मालूम ही न था कि लड़ाईके नियमोंसे वह हार चुके थे । लड़े ही जाते थे, मरे ही जाते थे । और लड़ते भी तो किस ऊटपटांग तरीकेसे—न कोई बाकायदा वदीदार फ़ौजी टुकड़ियाँ, न टैंक, न हवाई जहाज़ । बस, हर एक नागरिक एक बंदूक हाथमें लिए इस तरह लड़ रहा था जैसे यह उसकी अपनी लड़ाई हो । जब दुश्मनके टैंक और फ़ौजी टुकड़ियाँ सड़कोंपरसे होते हुए शहरके बीचमें पहुँच जाते, तो हर टूटे-फूटे मकान, हर खंडहर, हर दरवाज़े, हर खिड़की, हर छराखमेंसे उनपर

गोलियोंकी बौछार होती और शहरवालोंके भुंडके भुंड क्रांतिकारी नारे लगाते हुए, अपनी जानकी परवाह न करते हुए, टैंकोंपर दूट पड़ते । भीषण और घमासान लड़ाई होती और दुश्मनकी सेनाको पीछे हटना ही पड़ता ।

और अब समाचार आया था कि लाल सेनाकी कई बड़ी टुकड़ियाँ शहरकी सहायताके लिए आ रही हैं । दुश्मनकी सेनाका जनरल घबराया हुआ था । न आगे बढ़ सकता था, न पीछे हट सकता था । उसकी फ़ौजें सालभरसे पड़ी हुई थीं, मगर यह कमबख्त शहर था कि हार मानता ही न था । ऐसा शहर न उसने कभी देखा था, न सुना था । पिछले तीन साल में विभिन्न देशोंमें दर्जनों शहरोंपर उसने और उसकी सेनाओंने हमला किया था और हरएक शहरपर थोड़ी बहुत लड़ाईके बाद अधिकार कर लिया था । पर यह शहर अनोखा था । जिसके रहनेवाले 'हार' शब्दसे परिचित ही न थे, हार मानना जानते ही न थे । और अब अगर पीछेसे लाल सेनाकी टुकड़ियोंने हमला कर दिया तो उसकी सेना तो चक्कीके दो पाटों बीच पिसकर खत्म हो जाएगी ।

उसने टेलीफ़ोनसे अपने देशके अत्याचारी शासकको समाचार भेजा कि अबस्था शोचनीय होती जा रही है, उसको इजाज़त दी जाय कि वह अपनी सेनाको पीछे हटा ले । उस शहरको जीतनेका ख्याल छोड़ दे ।

अत्याचारी शासक हज़ार मील दूर आरामसे अपने गरम कमरे गद्देदार कुर्सीपर बैठा हुआ था । उसको तो बस एक ही धुन थी, "नहीं, इस शहरको जीतना ही चाहिए । चाहे कुछ भी हो जाय, चिन्ता नहीं, तुम लड़े जाओ ।"

जनरलने टेलीफ़ोन रख दिया ।

एक सिपाहीने, जो घबराया हुआ था, प्रवेश किया । उसके चेहरेपर हवाइयाँ उड़ रही थीं, जैसे उसने दिन-दहाड़े भूत देखा हो । बड़ी कठिनाईसे वह कह पाया, "लाल सेनाने उत्तरकी ओरसे हमला कर दिया है ।"

एक और सिपाही दौड़ा हुआ आया, "शहरवाले हमारी सहाय्योपर दूट पड़े हैं ।"

एक बूढ़ा

बूढ़ेका अंतिम समय था। मौत सिरहाने खड़ी मुस्करा रही थी।

अनशनके बीस दिन बीत चुके थे। आज आखिरी दिन था। मगर आशंका थी कि कदाचित्त यह बूढ़ेके जीवन का अंतिम दिन हो। दिलकी गति नाममात्रको शेष रह गई थी। अत्यंत क्षीण हो गया था।

बूढ़ेके शत्रु, उसको बंदी करनेवाले, उसकी मौतकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको विश्वास था कि केवल कुछ घंटों, कुछ मिनटोंकी देर है।

बूढ़ेको बंदी करनेवाले उसकी अन्त्येष्टि-क्रियाका प्रबंध कर रहे थे। चिताके लिए चंदनकी लकड़ियाँ मँगा ली गई थीं। कफ़नका प्रबंध हो गया था। समाचार-पत्रोंके लिए बूढ़ेकी मौतकी घोषणा भी लिखी हुई तैयार थी। “अत्यन्त शोकके साथ सूचित किया जाता है कि आज....बजे....” सिर्फ़ समयके लिए जगह छोड़ दी गई थी।

एक देशके दिलमें आशाका दीप बुझनेवाला था।

बूढ़ेकी आँखें कमजोरीके कारण बंद थीं। मगर जब खुलती थी, उनमें वही चमक, वही ज़िन्दगी। मौतकी परछाईका नाम नहीं, यद्यपि उसके शरीरमें ताक़त बिल्कुल न रह गई थी। ऐसा मादुम होता जैसे बूढ़ेकी सारी जान सिमटकर आँखोंमें आ गई है, जैसे बूढ़ेके जीवनका आधार शारीरिक शक्तिपर है ही नहीं।

बूढ़ेने आँखें खोलीं और पूछा, “क्या समाचार है।” उसको बताया गया, उसको बंदी करनेवाले उसकी अन्त्येष्टि-क्रियाका प्रबंध कर रहे हैं। बूढ़ेकी आँखें हँसने लगीं।

मौत घबरा गई।

पिछले कुछ घंटोंमें मौतने एक्के बाद एक कई हमले लगातार किए। हृदयकी गति प्रायः रोक दी, शरीरकी शक्ति नष्ट कर दी, चेतनाको हर लिया, मगर एक अमर आत्मा, एक निभीक हृदयके विरुद्ध मौतका कोई भी अल्ल काम न आया।

इक्कीस दिन पूरे हो गए। बूढ़ेने आँखें खोलीं। उसकी आँखें मुस्करा रही थीं।

बूढ़ेने अपनी पत्नीके हाथसे संतरेके रसका एक गिलास पिया।
बूढ़ेके शत्रुओंने अन्त्येष्टि-क्रियाकी सामग्री चुपकेसे इटवा दी।
मौतने अपना बोरिया-विस्तर सँभाला।

एक शहर

शत्रु लाल सेनाके घेरेमें फँस गया। हथियार डाल देनेके सिवाय कोई चारा न था। शहरके खंडहर विजय और हर्षके नारोंसे गूँज उठे।
मौतने अपने कान वंदकर लिए।

एक बच्चा

“नर्स !”

“हाँ, बेटा।”

“वह बूढ़ा इक्कीस दिनके अनशनके बाद भी बच गया ?”

“हाँ, बेटा, कितनी खुशीकी बात है।”

“और नर्स।”

“हाँ बेटा !”

“वह शहर भी दुश्मनके घेरेसे निकल आया। दुश्मनकी सेनाएँ वंदी हो गईं ?”

“हाँ बेटा, जो आज्ञादीके लिए मरना जानते हैं, वह कभी नहीं हारते।”

“तो नर्स !”

“हाँ बेटा !”

“मुझे भी दवा पिला दो। मैं मरना नहीं चाहता।”



ज़ाफ़रान के फूल

“आओ, मुसाफ़िर यहाँ। इस चेनारके साएमें बैठ जाओ। मैं अभी पानी पिलाती हूँ.....वह नीली-नीली लम्बी-सी मोटर है न तुम्हारी !...पंचर हो गया है !.....कोई बात नहीं, अंधेरा होने से पहिले श्रीनगर पहुँच जाओगे। ...अब बीस कोसकी तो बात है...नहीं बेटा, मुझे पानीकी कीमत नहीं चाहिए। और फिर पैसे लेकर कल्लेगी भी क्या ? मेरा है ही कौन !.....अकेली जान हूँ, ज़िलेदारके खेतमें काम करती हूँ, चरमेसे पानी भर लाती हूँ, धान कूट देती हूँ, अल्लाहका शुक्र है, मुट्ठीभर चावल तो मिल ही जाता है। पाँच ऊपर साठ उमर होनेको आई, और चाहिए ही क्या एक बुढ़िया को। आज मरी, कल दूसरा दिन। ...तुम भी कहते होगे किसी बकवासिनसे पाला पड़ा गया है.....

“क्या कहा तुमने, बेटा !.....नहीं नहीं, गुलिलालाका नहीं, यह ज़ाफ़रानका खेत है।.....ठीक कहते हो, ज़ाफ़रानके फूल सचमुच कासनी ही होते हैं। अब भी आगे जाओगे तो दूसरे खेतोंमें कासनी फूल ही पाओगे। पर यहाँ इस साल ज़ाफ़रानके सुर्ख फूल ही खिले हैं।..... इसकी वजह क्या है ?.....यह खुदाकी कुदरत है बेटा। पर तुम मैदानोंके रहनेवाले, आजकलके नौजवान, खुदा और उसके करिश्मोंको कब मानते हो। हम कश्मीरियोंको वहमी और बेवकूफ़ समझते हो कि ऐसी बातोंमें विश्वास रखते हैं।.....

“अब इन फूलोंकी पूरी कहानी सुनकर क्या करोगे !.....अभी

तुम्हारी मोटर ठीक हो जायगी और तुम चले जाओगे और कहानी अधूरी रह जायगी।.....मोटर्स तो इस सड़कपर से गुज़रती ही रहती हैं, बेटा। पल दो पल को ठहरती भी हैं तो फिर धुंके बादल उड़ती चली जाती हैं। पर यह ज़ाफ़रानकी खेती यूँही खड़ी रहेगी। यहाँतक कि फूल चुननेका वक़्त आ जायगा और यह लाल-लाल लहूकी बूंदों जैसे गुच्छे सुलाकर दिसावरको भेज दिए जाएंगे। और न जाने उनकी खुशबू कहाँ-कहाँ और किस-किसके दस्तख़ानोंसे महकेगी। और तुम्हारी तरह कितने ही आदमी खवाल करेंगे, इस ज़ाफ़रानका रंग लहूकी तरह सुर्ख क्यों है ?.....पर कोई न बता पायगा। इसकी वजह तो सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ।.....

“तुम मुझे पागल समझते हो न ?.....दीवानी बुढ़िया जो न जाने क्या-क्या बक रही है.....है न ?.....फिर भी इस लाल ज़ाफ़रानका भेद जानना चाहते हो ?.....या अभी तुम्हारी मोटर दुस्त होनेमें देर है और तुम इस वक़्तको एक बुढ़ियाकी कहानी सुनकर ही काटना चाहते हो ?.....खैर, जो भी हो। सुनना चाहते हो तो सुनो—

“हाँ तो इस खेतमें लाल ज़ाफ़रानके फूल तो इसी साल लगे हैं। पहले यहाँ भी कासनी फूल ही उगा करते थे। सारी वादीपर बहार आ जाती थी। ऐसा मालूम होता था कि कोई नई-नवेली दुल्हन ज़ाफ़रानी दुशाला ओढ़े लेटी है। और खुशबूसे यह सारा इलाका महक उठता। सड़कपर मोटर्स जो गुज़रतीं, उनकी धूलके बादलोंमें भी यह खुशबू फैल जाती और ऐसा मालूम होता कि ज़मीनसे आसमानतक हर चीज़ ज़ाफ़रानमें वसी हुई है।.....

“तुम्हारी ही तरह एक और मुसाफ़िर भी एकबार इस खेतके फूलोंको देखने ठहर गया था।...कई बरसकी बात है। कोई बहुत ही सीधा मालूम होता था बेचारा। खेतमें जाकर फूलोंके बीचोंबीच खड़ा होगा और लगा नयने फुला-फुलाकर नाकसे साँस लेने, जैसे फूलोंको सूँघ न रहा हो, उनकी खुशबूको पी रहा हो। फिर आपसे आप ही कहने लगा, “अनीब

बात है। कोई भी नहीं आई ?” मैंने पूछा, “कौन ? आखिर किसको खोजते हो ?” तो जवाब मिला, “हँसी, हँसी नहीं आई। अजीब बात है। हालाँकि किताबोंमें तो.....” तो बेटा तब पता चला कि वह बेचारा किताबोंमें यह पढ़कर आया था कि अगर ज़ाफ़रानके खेतमें खड़े होकर उसकी खुशबू सूँघो तो आपसे आप हँसी आने लगती है। इतनेमें खुदाका करना क्या हुआ कि तिरपर लकड़ियोंका गड्ढा उठाए ज़ाफ़रानी आ गई। मैंने जो उसे यह बात बताई तो वह लगी खिलखिलाकर हँसने। और वह अजन्तबी पहले तो खिसियाना हो गया, मगर जब उसने देखा कि ज़ाफ़रानीके कहकहे खरम होने ही में नहीं आते तो लगा वह भी हँसने। उन दोनोंको हँसते देखकर मुझे भी हँसी आ गई और बादमें अजन्तबी कहने लगा कि ‘देखो किताबोंका लिखा पूरा हुआ, क्योंकि ज़ाफ़रानके खेतमें हम तीन ही खड़े थे और तीनोंका हँसीके मारे बुरा हाल है।’

“मैं... ..भी कहाँसे कहाँ पहुँच गई।... ..बेटा बुझापेमें दिमाग़ काबूमें नहीं रहता। बात करते-करते बढ़क जाती हूँ।... ..हाँ, तो ज़ाफ़रानी... ..क्या कहा !...जाफ़रानी कौन ?... ..अभी तो बता चुकी हूँ, ज़ाफ़रानी मेरी बेटी थी।... .. नहीं बताया था ?...भूल गई हूँगी।... ..खो देख लो यादका यह हाल है, बेटा।... ..हाँ, तो उसका नाम असलमें नुराँ था, मगर गाँवमें सब उसे ज़ाफ़रानी कहकर पुकारते थे। बात यह थी कि बचपन ही से उसकी रंगत कुछ पीली-पीली-सी थी। लड़कपनमें बच्चे-बच्चियोंके साथ कुदाल मचाया करती थी। वह उसे ज़ाफ़रानी कहकर खेड़ा करते और जितना वह चिट्ठी उतना ही वह और शोर मचाते— ज़ाफ़रानी ! ज़ाफ़रानी !! तुम जानो बच्चे किसीकी मानते थोड़े ही हैं।... .. हाँ, तो जब वह जवान हो गई तो गाँवके लड़के कहने लगे कि नुराँ जैसी खूबसूरत लड़की तो हमारे यहाँ एक भी नहीं है। उसकी रंगत तो ज़ाफ़रानके फूलकी तरह है। उसकी आँखें तो खिले हुए कँवल हैं। और न जाने क्या-क्या उलटी-सीधी बातें। मुझे तो कोई खूबसूरती व बदसूरती

नज़र नहीं आती थी। एक तो दुबली थी जैसे चश्मेके किनारे उगे हुए बेद—
बेदे-मजदूँ। मैं कहती भला ऐसी लड़की बच्चे कैसे जनेगी ? और फिर रंगत
बिल्कुल पीली जैसे बीमार हो। दीदे फटे हुए, ऊपरसे यह कि तमीज़ नामको
नहीं। न छोटैका ख्याल न बड़ेका। बस, हर वक़्त घमाचौकड़ीसे मतलब।
मैं तो ज़रा मुँह न लगती थी। मगर तीन भाइयोंमें एक बहन थी, वह भी
दो से छोटी। बाप और दोनों भाइयोंने लाड़-प्यारमें बिगाड़ रखा था। मैं
सोचती ऐसी लड़कीसे कौन शादी करेगा। पर वहाँ तो जिसको देखो वह
जाफ़रानीसे ही ब्याह करनेपर तुला हुआ था।... ..तुम लड़कोंकी पसंद
का भी कुछ ठीक नहीं, बेटा।.....

“हाँ, तो पैगाम चारों तरफ़से आ रहे थे, यहाँतक कि ज़िलेदारने
अपने लड्डेका पैगाम भी दे दिया जो शहरके स्कूलमें पढ़ रहा था। भला,
एक मामूली किसानकी बेटीको इससे अच्छा कौन वर मिल सकता था ?...
मैंने सोचा, जाफ़रानीकी किस्मत खुल गई।...पर खुदाको तो कुछ और ही
मंज़ूर था। उस साल जाड़ेके मौसममें निमोनियाका बुखार ऐसा चला कि
घरवाला अल्लाहको प्यारा हो गया। खुदा उसे ज़ब्त नसीब करे। उसका
मरना था कि हमारे घरमें तो आफ़तोंपर आफ़तें आनी शुरू हो गईं। मरने
वालेने महाजनसे कर्ज़ा ले रखा था। उसमें ज़मीनकी कुर्की हो गई। इस
पर भी मेरी हिम्मत न टूटी। तीन बेटे थे ना। मैंने सोचा रुपए-ज़मीनसे
क्या होता है। मेरी असली धूँजी तो मेरी औलाद है। हाँ, एक जाफ़रानीकी
तरफ़से फ़िक्र ज़रूर थी कि गरीब और यतीम लड़कीको कौन ब्याहेगा।

“हाँ,..सैकड़ों बरससे हम इस गाँवमें रहते चले आ रहे हैं। कभी फ़सल
अच्छी होती है, और कभी बुरी। कभी बारिश होती है, कभी नहीं। कभी
इतना पानी बरसता है कि खेतियाँ बह जाती हैं, कभी धूपमें जल जाती हैं, कभी
बर्फ़में तबाह हो जाती हैं। कभी हम अपनी ज़मीन बोते हैं, कभी दूसरेकी।
किस्मतकी ऊँच-नीच तो सबके साथ लगी ही रहती है। और बेटा, कभी-
कभी राजाके अफ़सर जुल्म भी करते हैं पर राजा-परजाका क्या मुकाबिला !

सवर-शुकरसे ज़िन्दगी किसी न किसी तरह बसर हो ही जाती है। मगर ठीक है, फलजुग है कलजुग—इसमें जो न हो थोड़ा है।... कई बरसकी बात है अभी घरवाला ज़िन्दा ही था कि एक दिन मैं घान कूट रही थी कि मेरा बेटा चुरू चिल्लाता हुआ आया, माँ, माँ ! शिरे-काश्मीर आए हैं, शिरे-काश्मीर !” बस, इतना कह यह जा वह जा। मैं चिल्लाती ही रह गई कि अगर शेर आया है तो ज़िलेदार साहबको बोल—बंदूक लेकर आवें।..... थोड़ी देरमें क्या देखती हूँ कि सारे ही गाँववाले क्या मर्द और क्या औरत और क्या बच्चे—भागे चले जा रहे हैं। मैंने सोचा शेरको पकड़ लिया होगा तभी तो औरतें बच्चे भी निडर होकर जा रहे हैं। चलो, मैं भी तमाशा देखूँ।...

“वह नक़शा आजतक याद है मुझे। गाँवके उस सिरे पर...ए वह देखो उन दरख्तोंके पीछे—एक स्कूल है—अब तो मिडिल तक हो गया है, पर जब चार बमतों ही की पढ़ाई होती थी—हाँ, तो क्या देखती हूँ कि इसी स्कूलके सामने ठडके ठडके लगे हुए हैं, और सामने न शेर—न चीता, एक लंबासा गोरा-सा आदमी चबूतरेपर खड़ा ज़ोर-ज़ोरसे कुछ कह रहा है। लो जी यह था वह शिरे-काश्मीर।...मैंने कहा, ‘लो खवामखवाह ही डरा दिया। शेर तो शेर यह तो कोई मामूली दरजेका सरकारी अफसर भी नहीं है। भला, अफसर कहीं गाढ़े खदरके मोटे-भोटे कुर्ते पहनते हैं !’ जिस तरहसे वह ज़ोर-ज़ोरसे तक्रार कर रहा था, उससे मैं समझी कि चाय बेचने वाला होगा। अब थोड़ी देरमें काला तवा रखके भोंपूवाला बाजा बजाएगा। फिर सबको मुफ्त चाय बाँटेगा। इसी इन्तज़ारमें मैं भी वहाँ जाकर खड़ी हो गई। पर वह तो काश्मीरमें बोल रहा था। और अगर यह चायवाला या तो उसकी चाय तो बहुत ही गरमागरम और खतरनाक थी। मैंने तो दो-चार बोल ही सुने थे कि डर गई। या अल्लाह ! अब हमारे गाँवपर कोई न कोई मुसीबत ज़रूर आएगी। वह बातें ही ऐसी कर रहा था कि दिल दहल जाए। ‘रियासतके असल मालिक राजा और उसके अफसर नहीं बल्कि हम किसान हैं। हमपर जुल्म हो रहा है। सबको मिलाकर उसके खिलाफ

आवाज़ उठानी चाहिए। आपसमें एक होना चाहिए। लड़के-लड़कियोंको पढ़ाना चाहिए। पढ़-लिखकर यह कश्मीरी क्रौमके नेता ब्रूनेंगे।' और न जाने क्या-क्या। मैंने तो पूरी बात सुनी भी नहीं। ज़ाफ़रानी मुँह फाड़े एक कोनेमें बैठी थी। तो मैं उसका हाथ पकड़कर घसीटती हुई चली कि घर जाके उसके बापसे इतना पिटवाऊँगी कि फिर कभी हिम्मत न पड़े ऐसी खतरनाक जगह क्रदम रखनेकी। पर मीढ़के आगे जहाँ बड़े-बड़े बैठे हुए थे वहाँ क्या देखती हूँ कि वह तो खुद ही वहाँ बैठा बड़े गौरसे सुन रहा है। जल ही तो गई मैं।...

“तुम जानते ही हो तालाबके बीचमें एक पत्थर फेंक दो, सारे पानीमें हलचल मच जातो है। तो बेदा, यह शिरे-काश्मीर भी ऐसा ही एक पत्थर था जिसने हमारे गाँवके ठहरे हुए पानीको हिला दिया। वह दिन और आजका दिन है कि आराम-चैन, सुलह-शान्तिका नाम नहीं रहा। जिसको देखो वेचैन। जिसको देखो उसकी जवानपर शिकायत। हर एक अपनी ज़िन्दगीसे बेज़ार, उसको बदलनेपर तुला हुआ। मैं कहती, अरे तुम्हारे बाप दादाने भी तो अपनी उम्र इन्हीं राजों-महाराजोंके अफ़सरोंके जुझ सहते-सहते, रूखी-सूखी खाकर सब-शुक्रसे काट दी, तुममें कौनसे सुरखाबके पर हैं कि सारी दुनियाको बदलनेपर तुल्ले हुए हो...पर मेरी कौन सुनता है, बेदा।...वह तो इस शिरे-काश्मीरने जादू ही ऐसा किया था...तुम मेरी बातोंसे उकता गए ना?...वह ज़ाफ़रानके लाल फूलोंका भेद? हाँ, हाँ बेदा, उसीकी बात तो कर रही हूँ। तुम भी कहते होगे कि यह कहाँका भगड़ा ले बैठी, पर बात यह है कि न गाँवके ठहरे, शांत तालाबमें शिरे-काश्मीरकी तक्रोरका वह पत्थर गिरता और न यह ज़ाफ़रानके फूल लाल होते...यह कैसे? यही तो बता रही हूँ, पर तुम तो बीचमें टोके ही जाते हो।

“हमारे गाँवमें उसकी तक्रोर हुए दो-चार महीने हुए होंगे कि खबर आई कि शिरे-काश्मीरको राजाने पकड़ लिया और जेलमें बन्द कर दिया। मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ, अब सब उसकी सिखाई-पढ़ाई बातें भूल

कि ज़िलेदार ने शहरसे आकर कहा, 'गुलाम नबीकी माँ, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारा मँभला बेटा नूरु शेख अबदुल्ला की पार्टीमें म्लि गया है। दिनमें किशती चलाता है, रातको मज़दूरोंके जलसोंमें जा-जाकर तकरीरें करता है।' मैंने कहा, 'बी मेंढकीको भी जुकाम हुआ। वह शेर-कश्मीर तो सुना मास्टर था पहले। इस किसानके छोकरेको देखो, यह भी चला है लीडरी करने।' पर मैंने सबसे कह दिया कि आजसे मेरे सामने उसका नाम न लेना। न वह मेरा बेटा, न मैं उसकी माँ।.....

“...ज़ाफ़रानी ? लो, उसका तो ज़िक्र ही करना भूल गई। तो बेटा, अब हमारे घरमें रह ही गया था कौन—बस मैं, ज़ाफ़रानी और सबसे छोटा लड़का यफ़ूर। ज़ाफ़रानी अब बीस बरसकी बिनब्याही बैठी थी। घरमें पैसें हों तो उसकी शादीकी बातचीत करूँ। और यहाँ अब्बल तो आमदनी ही सिफ़र थी, उधर सुना कि समुंदर पार विलायतमें लड़ाई शुरू हो गई; मँहगाईका यह आलम हुआ कि बस कुछ पृछो मत। मैं और ज़ाफ़रानी दोनों काम करते थे। कभी किसीके खेतपर, कभी जंगलसे लकड़ियाँ चुन लाते, कभी पानी भरते, कभी ऊन कातते, तब जाके दो वक्रत चूल्हा जलता। मैंने कहा, 'यफ़ूर दस बरसका हो गया, लाओ उसको भी कामपर लगा दें।' पर ज़ाफ़रानी बोली, 'नहीं माँ, हम तो यफ़ूरको मदरसे पढ़ने भेजेंगे।' मैंने कहा, 'पागल हो गई है ?' पर वह एक न मानी। मुफ़से बग़ैर कहे-सुने अगले दिन सवेरे खुद उसे ले जा मदरसेमें दाखिल करवा आई। जवान लड़की, अब मैं उसे कहूँ भी तो क्या कहूँ ? फिर उसके ब्याह न होनेका भी दुःख था। इस चास्ते मैं चुन ही हो गई।.....मगर मेरा माथा ज़रूर ठनका कि आज इस घरका पहला लड़का मदरसे गया है, अब न जाने कौनसी मुसीबत आपगी। ...पर बेटा उस लौंडिया पर तो पढ़ाईका भूत सवार था। दिन रात भाईके पीछे पड़ी रहती।...मदरसेसे आता तो कहती घरपर बैठकर पढ़। हिसाबके सवाल पृछने मास्टरके यहाँ जा। यह कर, वह कर। उसका बस न चलता था कि किताने बोलकर यफ़ूर को पिला दे।...

“...जिस घरमें बेरीका पेड़ होता है, बेटा, वहाँ परशर तो आते ही हैं।...बीस-इक्कीस बरसकी लड़की, फिर शकल सुरतमें दूरका बच्चा नहीं तो कानी मेंगी भी नहीं थी। और तुम जानो आजकलके लॉर्डे शहर जाकर सिनेमा, बायस्कोप, नाच-रंग न जाने क्या-क्या देखकर कितने आवारा हो गए हैं। एक दिन ज़ाफ़रानी लकड़ियाँ चुनने गई थी कि क्या देखती हूँ खाली हाथ वापस चली आ रही है। ज़ार ज़ार रोती हुई। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो कुछ जवाब नहीं, बस रोए चली जा रही है। ‘अरी कमबख़त, कुछ कहेगी भी क्या हुआ ? किसीने मारा, गाली दी, चोट लग गई, आखिर हुआ क्या ?’ उसका जवाब सुनकर मैं तो दंग रह गई। बेटा, बात ही उसने ऐसी कही जो किसी माँने अपनी बेटेकी ज़बानसे कभी नहीं सुनी होगी। कहने लगी, ‘माँ ! मेरा ब्याह कर दो।’ और फिर लगी रोने। दस दफ़ा पूछा, तब यह बात खुली कि लकड़ियाँ चुन रही थीं कि ज़िलेदार का लड़का जो शहरसे आया हुआ था, उधर आन निकला और लड़कीको अकेला देखकर लगा उसे छेड़ने और औल-फ़ौल बकने। जब ज़ाफ़रानीने भिड़का तो उसका हाथ पकड़कर बंद इरादेसे अपनी तरफ़ घसीटने लगा। बड़ी मुसीबतसे हाथ छुड़ाकर भागती हुई आई थी बेचारी। मगर उस बदमाशकी हौल बैठे ही थी, दिलमें अभीतक। पत्तेकी तरह थर-थर काँप रही थी और रो रही थी। और जब हिचकियाँ ज़रा रुकतीं तो यही कहती, ‘माँ मेरा ब्याह कर दो, नहीं तो एक दिन मेरी इज़ज़त मिट्टीमें मिल जाएगी।’.....

“.....अब तुम ही बोलो बेटा, परीब औरत करे तो क्या करे ? जब दमड़ी पास न हो तो किस बिरते पर लड़कीका ब्याह रचाए।... फिर भी मैंने इधर-उधर निगाह डाली कि कोई परीब मगर तबीयतका शरीफ़ आदमी मिल जाए जो ज़ाफ़रानीको ब्याह ले, तो यह फिर तो दूर हो जाए। मगर पचास-साठ रुपए तो तब भी चाहिए। ज़मीन, ज़ेवर, यहाँ तक कि मेरे और ज़ाफ़रानीके कानके बाले तक निक चुके थे। अब

तो कुछ भी नहीं था जिसके सहारे कर्जा ही मिल जाता। इसी उधेड़-बुनमें लगी हुई थी कि एक दिन एक आदमी आया। बिल्कुल सूरतसे बेचारा कुली मालूम होता था। वही माथे पर पट्टेका निशान। उमर पता नहीं क्या थी। पर पचासका मालूम होता था। कहने लगा, 'गुलाम नबी ने यह भेजा है, मैं उसका दोस्त हूँ महमूद।' यह कहकर एक मैलेसे कपड़े की पोटली मेरे सामने रख दी। खोलकर देखा तो नोट और रुपये और कुछ रेज़गारी। गिने तो पाँच ऊपर साठ रुपये और दस आने हुए। वह बोला, 'गुलाम नबी ने कहा था कि माँ से कहना, इस रुपये से ज़ाफ़रानी का ब्याह कर दें।' मैंने खुदाका शुक्र किया कि बेटेके दिलमें माँ-बहनका ख्याल तो आया। फिर महमूदके मुँहपर कुछ अजीब-सी हालत देखकर मैंने पूछा, 'और गुलाम नबीका क्या हाल है? वह नहीं आया?' महमूदके गलेमें आवाज़ फँसी हुई मालूम होती थी। फिर ठहरकर बोला, जैसे बोलना न चाहता हो, 'माँ जी, गुलाम नबी तो चल बसा। उसे दिक्क हो गई थी।' और बस चुप हो गया।

"....बेटा तुम लोग, नहीं समझ सकते कि बेटेकी मौतका माँ पर क्या असर होता है।...ऐसा मालूम होता था जैसे कलेजेका टुकड़ा किसीने काटकर निकाल लिया हो। माँ नौ महीने बच्चेको पेटमें रखती है ना। दो साल दूध पिलाती है। बच्चा उसके खून, उसके हाड़-माँसे बनता है। और फिर वह बड़ा होकर गुलाम नबीकी तरह चौड़े चकले सीनेवाला नौजवान हो जाता है। और फिर गधेकी तरह साहब लोगोंका सामान ढोते-ढोते खूनकी ख़ाँसी, ख़ाँसता हुआ मर जाता है और उसके साथ माँ भी मर जाती है।....और सबसे बड़ी मौत यह होती है कि वह फिर भी ज़िन्दा रहती है।...."

"मेरा तो जो हाल हुआ सो हुआ, ज़ाफ़रानी पर भाईकी मौतका कुछ अजीब ही असर हुआ। छोटे भाई की पढ़ाईकी और भी फ़िक्र पड़ गई। हरवक्त उसकी बानपर सवार रहती कि—पढ़। तख्ती लिख। मद्रसेका

काम कर। घड़ी भरके लिए भी छुट्टी न देती। जैसे उसे कोई खास जल्दी हो कि सालभरकी मद्रसेकी पढ़ाई दो चार दिनमें पूरी हो जाय। न जाने क्यों इतनी जल्दी थी उसे ! न जाने क्यों !....

“हाँ, और महमदूके पास बैठकर ज़ाफ़रानीने भाईके आखिरी दिनोंका सब हाल कुरेद-कुरेदकर पूछा। कब और कैसे बीमार पड़ा, इलाज़ हुआ या नहीं ? क्या सब सामान ढोनेवाले मज़दूरोंको इसी तरह दिक्क हो जाती है ? और जब महमदूने कहा, ‘हाँ बहुत-सों को’ तो न जाने क्यों ज़ाफ़रानीने उससे पूछा, ‘तो क्या वापस जाकर तुम फिर यही काम करने लगोगे ? यहाँ क्यों नहीं रह जाते ?’...न जाने क्यों...

“हमारे कहनेसे महमदू हमारे यहाँ तीन दिन और ठहरा। जिस रोज़ वह जा रहा था मैंने उससे पूछा, ‘क्यों महमदू जब यह काम इतना खतरनाक है तो छोड़ क्यों नहीं देता ?’ वह बोला, ‘छोड़कर क्या कल्लंगा, माँ जी ! और कोई काम आता नहीं है। और फिर कोई आगे है न पीछे। न माँ, न बाप...’ मैंने जल्दीसे पूछा, ‘और बीबी ?’...उसने ठंडी साँस लेकर कहा, ‘कब की मर गई !’...पता नहीं वह मेरा मतलब समझा या नहीं, पर मैंने कहा, ‘दूसरी क्यों नहीं कर लेते ?’...उसको तीन दिनमें हँसते तो क्या मुस्कराते भी न देखा था। पर इस बातपर उसकी आँखोंमें हल्की-सी चमक हुई और उसके सुखे चमड़े जैसे चेहरेपर हँसीकी कुरियाँ पड़ गईं। ‘मुझसे कौन ब्याह करे है, माँ जी ?’...तो बेटा यों ज़ाफ़रानीका ब्याह महमदूसे तय पाया।

“...क्या कहा ? ज़ाफ़रानीकी राय ?...बेटा, भला शादी-ब्याह क्या लड़कियोंकी सलाहसे होते हैं। पर मैंने ज़ाफ़रानीसे ज़िक्क किया कि अगले चाँदकी बीसवींको महमदू उसे ब्याहने आएगा। तो यह तो मैं नहीं कहूँगी कि सुनकर वह खुश हो गई। भला शरीफ़ लड़कियाँ क्या शादीके ज़िक्कपर खुश हुआ करती हैं।...पर उसके चेहरेसे इतमीनान ज़रूर टपकता था, जैसे अब उसकी कोई चिन्ता दूर हो गई हो।

“...शादीकी छोटी-मोटी तैयारियोंमें दिन गुज़र गए। हाँ बेटा, आखिर हम गरीबोंको भी कुछ न कुछ देना ही पड़ता है; चाहे एक ही जोड़ा और दो चाँदीके बाले हों। जिस दिन महमद आनेवाला था उसी दिन मैंने सवेरे ही से ज़ाफ़रानीको उठाकर नहला-धुला। शादीका जोड़ा पहना दिया। गुलाबी रंगका कुर्ता और उसके नीचे हरे फूलदार छींटकी शलवार, हम पुराने ज़मानेकी काश्मीरी औरतें तो बस लम्बे-लम्बे कुर्ते पहना करती थीं मगर इस शेरे-काश्मीरके कहनेसे आजकलकी लड़कियोंने शलवारों भी पहननी शुरू कर दी हैं। यहाँ तक कि ज़ाफ़रानो तो मुझे भी मजबूर करती थी कि मैं शलवार पहनो, नहीं तो शेरे-काश्मीर खफ़ा हो जाएंगे। शेर-बेरसे डरे मेरी बत्ता, पर और औरतें भी अब शलवार पहनने लगी थीं। सो मैंने सोचा मैं ही क्यों नक्कू बन्नू। सो मैंने भी सिलवा ली।...

“...इतना गुस्सा आया है मुझे इस शेरे-काश्मीरपर कि कमबख़तको अगर पकड़ा जाना था तो क्या उसे वही दिन जुड़ा था जब मेरी बेटीका ब्याह तय कर पाया था। एकाएक सारे गाँवमें शोर मच गया, शेरे-काश्मीर पकड़े गए! शेरे-काश्मीर पकड़े गए!!” मुझे क्या पता, क्यों सरकारने उसे पकड़ा था...मेरी तरफ़से अगर सालके बारह महीने उसे कैद रखा जाता तो और भी अच्छा था।...पर यह ज़रूर सुना कि अबकी उसने खुद राजा ही को रियासतसे बाहर निकालनेकी बात चलाई थी। मैंने कहा था कि अबकी उस शेरने शेर-बबरकी नाँदमें पंजा डाला है, अब वह ज़िन्दा नहीं बचेगा। बाहर शोरकी आवाज़ हुई तो मैं गलीमें आई, यह सोचकर कि शायद महमद और उसके साथी बरात लाए हों। मगर वहाँ तो बच्चे धीगामुश्ती मंचा रहे थे। दो-चार लाल भगड़े, जिनपर हल बना हुआ था, लिए शेरे-काश्मीर ज़िन्दावाद! डोगरा राज मुर्दावाद!!” कहते फिर रहे थे। और हमारा गफ़ूरा छः ईंटोंका चबूतरा बनाए सक्रेद खड़ियासे दीवारपर कुछ लिख रहा था और ज़ोर-ज़ोरसे हिज्जे पढ़ता जाता था।...“काफ़, शीन, सीम, ये, रे...चे, हे, वाओ, डे, दाख, वाओ”...और ज़ाफ़रानी दरवाज़े

में खड़ी गफूराको देख रही थी और अब उसके चेहरेपर इतनी खुशी थी जैसे उसने कोई बड़ा काम पूरा कर लिया हो ।

“.....हाँ, तो अभी मैं अंदर जाकर बैठी ही थी कि बाहरसे रोने और चिल्लानेकी आवाज़ आई । मैंने जो देखा तो पाँव-तलेकी ज़मीन निकल गई । एक खाकी रंगकी मोटरलारी खड़ी थी और उसमें से सिपाही कूदकर बच्चोंको लाठियोंसे मार रहे थे । मैं दीवारकी तरफ़ दौड़ी जहाँ पल भर हुए गफूरा खड़ा हुआ खड़ियासे लिख रहा था । पर गफूरा वहाँ नहीं था । हाँ, खूनकी एक लकीर ज़मीनपर खिंची हुई थी और उस लकीरकी सोघमें जो मैंने देखा तो गफूराको ज़मीनपर बेहोश पड़ा पाया । उसके चिरमें एक गहरा घाव था जिसमें से खून बह रहा था और उसके हाथमें अभीतक खड़ियाका टुकड़ा था ।.....मैं अपने गफूराको उठाकर अंदर ले आई और वहाँ अपनी बहनकी गोदमें उसने जान दे दी । और बेहोशीमें भी आखिरी वक़्त तक उसके होंठ उन्हीं हरफ़ोंको दुहराते रहे जिन्हें वह बाहर दीवारपर लिखनेकी कोशिश कर रहा था—‘काफ़, शीन, मीम, ये....’ और अभी ये’ नहीं कह पाया था कि गड़गड़ाहटके साथ एक हिचकी आई उस महीनेमें दूसरी बार मुझे मौत आई पर न आई ।...

“.....और उसके बाद क्या हुआ, बेटा, मुझे ऐसा याद है जैसे कोई डरावना ख़्वाब हो, जिसमें एक खौफ़नाक बातका दूसरी खौफ़नाक बातसे कोई ताल्लुक़ न हो, मगर फिर भी खौफ़ और दहशतका पहाड़ उठता चला जाए ।...

“...ज़ाफ़रानीकी आँखें जो कभी कमलसे मिलती-जुलती हुआ करती थीं, उस वक़्त दो दहकते हुए अंगारोंकी तरह थीं ।...आँसुओंका नाम नहीं था । नहीं तो वह आग़ बुझ जाती जो उन आँखोंमें सुलग रही थी ।...

“.....और फिर सारे गाँववालोंका एक ज़लूस । मदौसे आगे औरते और औरतोंमें सबसे आगे ज़ाफ़रानी । वही अपनी शादीका जोड़ा पहने हुए और उसकी आँखोंमें वही दहकती हुई आग़ । और यह सारी

भीड़ गाती हुई खेतोंमें से होकर सड़ककी तरफ़ जाती हुई । वहाँ—बिल्कुल उसी जगह, जहाँ तुम्हारी मोटर खड़ी है, सिपाहियोंकी खाकी लारी खड़ी थी ।...

“...बड़ी बड़ी मूँछों और काली रंगतवाले सिपाही और उनकी बन्दूकें जो टकटकी बाँधे उसे जलूसकी तरफ़, उन औरतोंकी तरफ़, जाफ़रानीकी तरफ़ देख रही थीं ।...

“....एक तड़ाखा । दस-बारह तड़ाखे । सब तितर-बितर होकर भागे और उस खेतके बीचोंबीच अपनी छातीको सँभालती हुई जाफ़रानी नर्म मिट्टीमें इस तरह गिरी जैसे माकी गोदमें बच्चा आनकर गिर पड़े । मैं उधर भागी, पर जबतक मैं पहुँचूँ जाफ़रानीकी छातीमेंसे खूनकी एक धार बहती हुई खेतकी सूखी मिट्टीको सींच रही थी ।...औरत की छाती और उसमें से दूधके बजाए खून ।...खून मिट्टीमें मिल रहा था ।... और मेरी बेटी मेरी गोदमें जान दे रही थी । पर मरते दमतक उसके होटोंपर मुस्कराहट थी । और न जाने क्यों आखिरी हिचकीसे पहले उसने मुस्कराकर मुझसे कहा, मेरा ब्याह हो गया माँ ।’...यहीं इसी खेतमें जहाँ तुम गुलेलालाकों तरह सुर्ख जाफ़रानके फूल देखते हो ।...

“.....सुनी बेटा, तुमने मेरी कहानी ?...पर तुम कहाँ हो ? ...चले गए ना तुम ?...मैं कहती थी कि अभी तुम्हारी मोटर ठीक हो जाएगी और तुम लोग चले जाओगे और कहानी न सुन पाओगे । ...मोटरें तो इस सड़कपर से गुज़रती ही रहती हैं, बेटा । पल दो-पल को ठहरती भी हैं तो फिर धूलके बादल उड़ती चली जाती हैं । पर यह जाफ़रानकी खेती यों ही खड़ी रहेगी, यहाँतक कि फूल चुननेका वक़्त आ जाएगा और यह लाल-लाल लहूकी बूँदों जैसे गुच्छे सुखाकर दिसावरको भेज दिए जाएँगे और इनकी खुशबू न जाने कहाँ-कहाँ और किस किसके दस्तरख़वानोंसे महकेगी । और तुम्हारी तरह कितने ही आदमी सवाल करेंगे कि इस जाफ़रानका रंग लहूकी तरह लाल क्यों है ?...पर कोई न बता पाएगा; क्योंकि इसकी वजह तो सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ ।...”



चढ़ाव-उतार



चढ़ाव

चढ़ाई कितनी मनोहर थी !

ज्यों-ज्यों सड़क ऊँचाईकी तरफ़ जा रही थी, ऐसा मालूम होता था कि दुनियाकी तमाम गंदगी, गर्द-गुबार, दुःखःदर्द दूर—बहुत दूर रह गए हैं। हवामें हल्की-हल्की ठंड थी और एक अजीब खुशबू। चीड़के पेड़, फूल, घास और गीली मिट्टी की मिली-जुली खुशबू। हरी-भरी पहाड़ियाँ फूलों से लदी थीं और वायुमंडलमें एक अनोखी सुरभि और मादकता थी, जैसे बिना पिए नशा चढ़ता चला जा रहा हो। लेकिन ऐसा नशा जिसकी मादकता भी चेतनाको जागृत कर दे। जिसमें दिमाग सोनेके बजाय जाग उठे और हृदय-तंत्रीके तार जीवनके सम्पर्कसे भंक्रुत हो उठें।

लारी खँतती, खखारती, शोर मचाती, एक बेसुरा गीत गाती चढ़ती चली जा रही थी। गियर बदलनेकी गड़गड़ाहटके साथ मोड़ों पर पहाड़ीसे ाँचल बचाती ऊपर चढ़ी तो उत्तरी पंजाबका घूरा चित्र निर्मलकी आखों के सामने फैला जाता था। उसने विजय-गर्वसे मैदान पर नज़र डाली। रावलपिंडीका शहर ऐसा मालूम हुआ जैसे गुड़ियोंके घरोंकी बस्ती हो। वह था रेलवे-स्टेशन, जहाँ वह दो घंटे पहले प्रातःकाल लाहौर एक्सप्रेससे उतरा था। और वह थी बच्चोंके खिलौनेवाली रेलकी पटरी, जो लाहौरकी ओर जाकर क्षितिजमें खो गई थी।

लाहौर ! माल रोड, सर्कुलर रोड, भाटी दरवाज़ा, तांगे, ताँगेवाले, "भाटी दरवाज़े, इक-इक आने" लारेन्स गार्डन, सफ़ेद शलवारें, रंगीन दुपट्टे, "मेरा हिस्सा दूरका जलवा" . . .

लाहौर ! रेलवे-क्विलयरिंग-आफ़िस, मक्खियोंका एक छत्ता, भिन-भिन-भिन । हर क्लर्क एक मक्खी था—वह खुद । निर्मलकुमार, जो स्वभावतः कवि और सौन्दर्यका उपासक था, एक क्लर्क था । एक मक्खी था । टन्-टन् सुबहके दस बजे और सैकड़ों मक्खियाँ भिन-भिन करतीं छत्तेमें घुस जातीं और फिर शामको छः बजे बाहर निकलतीं । नहीं, एक क्लर्क मक्खी से भी बदतर था । मक्खीके छत्तेपर कोई हमला करे तो मक्खी उसको काट सकती है । मगर क्लर्कको अगर हेडक्लर्क गाली दे तो वह उसको काट नहीं सकता । मक्खी और मक्खी बराबर होती है । मगर क्लर्कके ऊपर हेड-क्लर्क, हेड-क्लर्कके ऊपर सुप्रिटेन्डेन्ट, सुप्रिटेन्डेन्टके ऊपर ट्रेफ़िक मैनेजर, उसके ऊपर जनरल मैनेजर । उन सबके ऊपर रेलवे-बोर्ड, रेलवे-मेम्बर । एक ईट पर दूसरी ईट । इंसानोंका कुतुब मीनार और सातों मंज़िलका बोझ क्लर्कके काँधों पर । विचार करते ही निर्मलके काँधोंमें दर्द-सा होने लगा ।

लाहौर ! हर पहिली तारीखको साठ रुपए । वह हर बार सोचता, आशा करता और प्रार्थना करता कि ऐकाउन्टेन्टेकी गलतीसे उसके लिफ़ाफ़्रेमें पाँच-दस रुपए अधिक निकल आएँ । मगर वही साठ रुपए । कभी ाँच-पाँच रुपएके बारह नोट, कभी दस-दस रुपएके छः नोट । और फिर दो तारीखको उनमेंसे दस रुपए धरके किरायेमें निकल जाते और पचीस रुपए वह घर चलानेके लिए अपनी पत्नीको दे देता ।

उसकी पत्नी, उसे कितनी नफ़रत थी उससे ! गोविन्दी, गोविन्दी ! किताना नीरस नाम था । इतनी ही नीरस वह स्वयं थी । उसकी एक भ्रूलक ही सुखद स्वप्नोंका अंत कर देनेके लिए पर्याप्त थी । पीला-पीला सुखड़ा, छोटी-छोटी आँखें, सीधे तेलसे चुपड़े हुए बाल, न कपड़े पहननेका

दंग, न बात करनेका ढव, मैली शलवार, ढीली-ढाली क्रमीज़, मल्लगुजी ओढ़नी—जो मिल गया पहन लिया। रसिकता तो उसको छू भी न गई थी। दिन-भर चूल्हे या हाँडीमें लगी रहती। दफ्तरसे आकर निर्मल आवाज़ देता, “गोविन्दी”, तो ऐसी दशामें आकर खड़ी होती कि हाथ आटेमें सने हुए, सुँहपर राख मली हुई, गालों पर चूल्हेकी कालिल और एक वृषित तुच्छताके साथ “जी” कहकर उसके जूतेकी डोरी खोलने लगती। निर्मलकी तमाम रसमय कल्पनाएँ और कवितामय विचार एक क्षणमें चकनाचूर हो जाते। वह कहता, “क्यों गोविन्दी, सिनेमा चलना है ?” जवाब मिलता “जी मैं क्या करूँगी, आप चले जाइए। मुझे तो अभी रोटी पकानी है।” रोटी पकानी है ! मानो मनुष्य केवल रोटी खाने-पकानेके लिए ही जीविन रहता है। सिनेमा, नाच, गाना, सैर-तफ़रीह किसी चीज़का भी तो शौक नहीं कमबख़तको ! कभी निर्मलके मजबूर करने पर उसके साथ बाहर चली भी जाती तो उल्टे-सीधे सवालसे नाकमें दम कर देती। “क्यों जी, यह मोटर कितनेकी होगी ?” “क्यों जी, यह बिजलीके हंडोंमें तेल कौन डालता है ?” “क्यों जी, यह इन्द्रचाला और काननचाला दोनों बहनें हैं क्या ?” “क्यों जी ! क्यों जी ! क्यों जी ! उसका जी जल जाता है और वह निश्चय कर लेता कि अब कभी उसे अपने साथ सैरको न ले जाएगा।

न जाने किस तरह उसने गोविन्दीके साथ यह तीन वर्ष गुज़ारे थे। जहाँ उसके माँ-बापने उसके साथ और बहुत-सी “कृपाएँ” की थीं, वहाँ गोविन्दी जैसी पत्नी उसके पल्ले बाँध दी थी। उसकी ज़िन्दगी तबाह करनेके लिए उन्होंने क्या कुछ बल नहीं किए थे। सबसे पहले तो उसे माधोसिंह जैसा नाम दिया था। माधोसिंह ! क्या मोँडा गँवारु नाम था। मला इस नामका कोई कवि, लेखक या कलाकार हुआ है ? “प्रेमकी ज्योति” लेखक श्री माधोसिंहजी ! “यौवन-गीत” लेखक श्री माधोसिंह ‘माधो’। “क्रान्ति-ज्वाला” लेखक ‘माधोसिंह’ ! माधो ! बीस वर्षतक इस नामने उसके

जीवनको कटु बनाए रखा था। इस नामको लेकर भला वह किस मुँहसे साहित्यके संसारमें प्रवेश कर सकता था ? इसलिए लाहौर आकर पहला काम उसने यह किया था कि इस “माघोसिंह” नामको रावीके जलमें डुबो दिया था। अब वह निर्मलकुमार था। नाम ही से कविता और रसिकता टपकती थी। “आपका शुभ नाम ?” “दास को निर्मलकुमार कहते हैं।” “ओह, वही निर्मलकुमार जिनकी कहानी ‘साहित्य’ के वर्षाकमें छपी है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।” कितना अंतर था निर्मलकुमार और माघोसिंहमें ! मगर वह अपने गाँव जलालपुर जहाँ जाता तो उसके माँ-बाप अब भी उसको ‘माघो, माघो’ कहकर पुकारते। इसीलिए उसे वहाँ जाना भाता न था। साल-भरमें एक-आध बार बाता और दो-चार ही दिनमें कोई बहाना करके वापस आ जाता।

लारी हाँपती काँपती एक और मोड़पर चढ़ी तो फिर मैदान नज़र आया। मगर अब वह इतने ऊँचे चढ़ आए थे कि न रावलपिंडी दिखाई देता था न रेलवे-लाइन। रावलपिंडी, लाहौर, रेलवे-क्वियरिंग-आफ़िस, गोविन्दी, जलालपुर जहाँ, ‘माघो, माघो’ पुकारनेवाले माँ-बाप, यह सब अब बहुत दूर, बहुत नीचे रह गए थे। और वह एक स्वच्छंद पक्षीकी तरह आकाश में ऊँचा उड़ता चला जा रहा था। ऊँचा, बहुत ऊँचा।

निर्मलकुमारने दो सौ रूपयमें अपनी कहानियोंका संग्रह प्रकाशकको दिया था। सौ रूपय रेडिओके प्रोग्रामसे कमाए थे। इन तीन सौ रूपयोंके सहारे वह गोविन्दीको जलालपुर जहाँ भेजकर, रेलवे-क्वियरिंग आफ़िससे एक महीनेकी छुट्टी लेकर अब काश्मीर जा रहा था। स्वर्ग-समान काश्मीर ! वह एक महीनेके लिए यह भूल जाना चाहता था कि उसका जन्म जलालपुर जहाँ जैसी नीरस जगहपर हुआ है, उसका पिता अनपढ़ ज़र्मीदार है, उसकी पत्नी छोटी-छोटी आँखोंवाली गोविन्दी है, और वह रेलवे क्वियरिंग-आफ़िसका एक क्लर्क है जो प्रतिदिन हेड-क्लर्ककी फ़िर्कियाँ और सुप्रिन्टेन्डेन्टकी गालियाँ खानेपर विवश है। लाहौरसे रावलपिंडी तक

वह सेकेन्ड-क्लासमें आया था । रावलपिंडीसे उसने “सुपर बस” में अगली सीट ली थी ताकि इस यात्राका पूरा आनन्द उठा सके । बीते हुए दिनोंकी कटुताएँ पीछे छूट गई थीं । वह रसमय, सुखद और जीवनप्रद भविष्यकी ओर जा रहा था । वह नीचाईसे ऊँचाईकी ओर जा रहा था ।

बराबरकी सीटपर एक लड़की बैठी हुई थी । लड़की ! उसको केवल लड़की कहना उसके साथ सर्वथा अन्याय था । लड़की तो गोविन्दी भी थी । ज़मीन-आसमानका अन्तर था । स्वर्ग और नरकका अन्तर । उस लड़कीका सामीप्य कितना रोचक था । उसके रेशमी कपड़ोंसे एक अनोखी सुगन्ध आ रही थी । वह तेज़ इत्र नहीं था, जिसकी खुशबूका तमाचा लगता है । यह विलायती सेन्टकी धीमी-धीमी दबी-दबी खुशबू थी, जो धीरे-धीरे नाकसे होती हुई दिलमें उतर जाती है । सेन्टके साथ एक और खुशबू भी भिली हुई थी । वह खुशबू जो एक युवा, स्वस्थ स्त्रीके शरीरसे, उसके बालोंसे उसके रोंए-रोंएसे निकलती है । यूँ तो निर्मल लिङ्गीके बाहर पहाड़ीका दृश्य देख रहा था, परन्तु उसका हृदय और विचार निरन्तर बराबरवाली सीटपर केन्द्रित थे । काश, उस लड़कीसे किसी प्रकार उसका परिचय हो जाय !

मुड़कर देखना असम्भ्यता थी । परन्तु एक बार निर्मलने सामने देखा तो डाइवरके सामनेवाले आइनेमें उसे अपनी Xहमसफ़रका चेहरा दिखाई दिया । गोरी-गोरी गुलाबी रंगत, मुँहपर इल्का-सा पावडर और सुखी लगी हुई । सुडौल नाक, मदमरी आँखें जो कभी तारोंकी तरह चमकने लगती थीं, कभी लम्बी-लम्बी पलकोंके परदेमें छिप जाती थीं । कमानदार भवें, ऊँचा खलाट, सिरपर एक फूलोंवाला रूमाल बँधा हुआ था, फिर भी बालोंकी कुछ चंचल लट्टें चेहरेपर बल खा रही थीं । मगर जिस चीज़ने निर्मलको मोहित कर लिया था, वह थे उसके होंठ, जो लिपस्टिककी लालीसे गुलनार थे । कितनी मिठास थी उन होंठोंमें, कितना रस, कितना आकर्षण ! निर्मलके कवि-हृदयने उनके लिए कितनी उपमाएँ सोचीं, मगर उसे किसीसे भी संतोष न

हुआ वह दबी हुई आवाज़में गुनगुनाने लगा:—

आह वह दोशीज़ा लब, गुलरेज़ लब, गुलनार लब,

आह वह लब, आशना लब, शोख लब, खँवार लब ।

इवाके एक भोकेसे जाजेंटकी साड़ीका आँचल उड़कर निर्मलके चेहरेपर नकाब बनकर छा गया । कितनी मादकता थी उस पल्लुके छू जानेमें ! कितनी नशीली-सी सुगंध थी उसमें, हल्की-हल्की दबी-दबी ! निर्मलका जी चाहा कि बस यह आँचल इसी तरह उसके चेहरेपर पड़ा रहे । मगर चूड़ियोंकी हल्की-सी खनखनाहटके साथ एक गोरी कलाईमें गति पैदा हुई और पल्लु खींच लिया गया ।

लारी मरीके पास पहुँच गई थी । “सनी बैक” का मोड़ आया तो दूसरी तरफ़से एक मोटर बयैर हार्न दिए आ गई । डाइवरने होशियारीसे स्टियरिंग व्हील बाँए तरफ़ मोड़कर बचा लिया । लेकिन एकाएक उस भटकेसे लारीके सब मुसाफ़िर और सामान एक-दूसरेपर गिरने-पड़ने लगे । निर्मल स्वयं बाईं ओरकी खिड़कीसे टकराया, लोहेका फ्रेम उसके हाथमें चुभ गया, परन्तु उसी समय उसके दाएँ पहलूपर एक कोमल, रेशमी, गुदगुदा-सा बोझ आपड़ा । निर्मलके शरीरमें एक भुरभुरी-सी आ गई । एक क्षणमें लारी फिर सीधी होगई और सब मुसाफ़िर सँभलकर बैठ गए ।

“Sorry” लड़कीने सँभलते हुए कहा ।

“कोई बात नहीं,” निर्मलने अबसरका लाभ उठाते हुए बातचीतका सिलसिला छेड़ा, “वह मोटरवाला बड़ा ही नालायक था ।”

लड़की खामोश रही । अब क्या बातकी जाए ? कुछ सोचकर निर्मलने कहा, “अगर आप इस खिड़कीमें से बाहरकी सैर करना चाहें तो आप इधर आ जाइए । मैं आपकी जगह ले लूँगा ।”

“थेन्क यू—”

चलती गाड़ीमें इतनी तंग जगहमें सीट बदली जाए तो दो शरीरोंका टकराना, बल्कि रगड़ खाना स्वाभाविक है । लारीका सफ़र निर्मलके लिए

एक रसमय, न भूलनेवाली “घटना” बनता जा रहा था ।

• “क्या आप काश्मीर जा रही हैं ?”

“जी हाँ ।”

“अकेली ही ?”

“जी हाँ । और आप ?”

“मैं भी काश्मीर जा रहा हूँ । किउने दिन रहनेका विचार है आपका ?”

“कोई एक महीना ।”

“अजीब इतिहास है । मैं भी एक महीनेके लिए जा रहा हूँ ।”

बातचीतका सिलसिला शुरू हो गया तो एक बातमें से दूसरी बात निकलती चली गई । लड़कीका नाम शीरीं था । शीरीं ! कितना मीठा नाम । कितना प्यारा नाम ! वह बम्बईकी पारसिन थी । कालेजमें पढ़ती थी । वह एक स्वच्छंद वातावरणमें पली थी । इसलिए उसमें उत्तरी हिन्दुस्तानकी लड़कियोंकी-सी अनावश्यक शर्म और भिन्नता नहीं थी । वह मर्दोंसे उनकी ही सतहपर बात कर सकती थी । साहित्य, राजनीति, कला, फिल्म,— निर्मलने जिस विषयपर बात छेड़ी, शीरीं सबसे भली-भाँति परिचित थीं । यह था नमूना उस नई दुनियाकी नई औरतका जो निर्मलका ‘आइडियल’ थी । और एक गोविन्दी थी कि वह रोटी पकानेके सिवाय किसी भी विषयपर बात नहीं कर सकती थी । कितना अन्तर था ! ज़मीन और आसमानका अन्तर, स्वर्ग और नरकका अन्तर !

लारी हाँपती-काँपती चढ़ाईपर चली जा रही थी । एकाएक इंजनमें गड़गड़ाहट हुई और गाड़ी मुरमुरी लेकर ठहर गई । ड्राइवरने उतरकर इंजन खोला और मुसाफ़िरोसे कहा, “आप कुछ उतरकर सुन्ता हैं । इंजन ठीक होनेमें देर लगेगी ।” कई घंटोंसे बैठे बैठे बदन अकड़ गए थे । अकसर का लाभ उठाकर सब मुसाफ़िर उतर पड़े । पंजाबी सौदागर, दिल्लीके एक बईस पानोंका डिब्बा और बटुना सँभाले हुए, दोनों जवान जो कालेजके विद्यार्थी मालूम होते थे और शीरींकी तरफ़ धूर-धूरकर देख रहे थे (न जाने

क्यों निर्मलको उनकी यह हरकत बहुत अनुचित मालूम हुई), तीन गरीब काश्मीरी जिन्होंने मैले धुत्से ओढ़ रखे थे, एक बुर्कापोश औरत और उसका शीहर । मगर उस समय निर्मलको सिर्फ एक मुसाफिरमें दिलचस्पी थी ।

इंजनको ठीक करनेमें पूरे ढाई घंटे लग गए । मगर निर्मल और शीरी दोनोंको झूइवरकी सुस्तीसे कोई शिकायत न हुई । इस बीचमें वह दोनों टडलते हुए दूर सड़कपर निकल गए । पहाड़ी पर पगडंडीके रास्ते चढ़े । शीरी ऊँची एड़ीका जूता पहने हुए थी । जब वह कंकड़ियोंपर फिसलने लगी तो निर्मलको उसका हाथ पकड़कर सहाय देना पड़ा । कितना नरम और नाजुक हाथ था उसका ! पतली-पतली गोरी-गोरी उँगलियाँ जिनके नाखून 'क्यूटेक्स' की बदीलत याकृतकी तरह लाल हो रहे थे । जब वह थक गए तो पहाड़ीकी ढालपर घासपर पाँव फैलाकर बैठ गए । पहाड़ी फूल इधर-उधर खिले हुए थे । निर्मलने छोटे-छोटे फूलोंका एक गुच्छा शीरीको दिया जो उसने अपने बालोंमें लगा लिया । भूल लगी तो पहाड़ी बच्चोंसे सेव और नाशपातियाँ खरीदकर खाई । फिर करीबके एक चश्मे-र जाकर पानी पिया, मुँह धोया । कितना ठंडा और मीठा पानी था । और शीरीके काले धुंधाले बालोंपर पानीकी बूँदें कितनी अच्छी मालूम हो रही थीं । मुँह धोकर शीरीने अपना चेहरा और हाथ निर्मलके सफेद रूमालसे सुखाए और फिर अपने बैगमें से पाउडर, पफ और लिपस्टिक निकालकर अपने सौंदर्यको बढ़ानेमें व्यस्त हो गई ।

“शुक्रिया ! लीजिए अपना रूमाल । आइए अब वापस चलें ।”

जबमें रूमाल रखनेसे पहले निर्मलने शीरीकी आँख बचाकर उसको सूँघा तो सेन्ट और शीरीकी मिली-जुली खुशबूसे सुगंधित पाया । तीन अनेका सफेद चीथड़ा कुछ दायोंमें एक बहुमूल्य यादगार बन गया था ।

सूर्य अस्त होरहा था । हवामें शीतलता पैदा होचली थी । लारी चलनेसे पहले शीरीने अपना कोट पहन लिया । बहुमूल्य मुलायम कपड़ा, नए ढंगकी काट, कॉलरपर बहुत क्रीमती फर लगा हुआ । निर्मलने भी अपना

ओवर-कोट' बाहर रख छोड़ा था। मगर शीरीकि सामने पुराने, रफ़ किए हुए, लंबे जैसे कोटचू पहनते हुए शर्म मालूम हुई।

“आप भी अपना कोट पहन लीजिए ना, मिस्टर निर्मल !” शीरीने कहा, “सरदी बढ़ती जा रही है।”

अब तो कोई चारा ही न था। लारी चल पड़ी। सूरज बादलोंमें छिप गया था। हवा बर्फीली होगई। शीरीने अपने कोटके फ़रदार कॉलर को उलट लिया। निर्मलने जेबोंमें हाथ डाल लिए। दाईं जेबमें हाथ डाला तो कपड़ेकी एक छोटी-सी थैली मिली। और उस थैलीको हाथ लगाते ही उसको गोविन्दीकी मूर्खता याद आई।

“इस थैलीमें मैंने सुपारी, इलायची, सौंफ़ और लौंग रख दी हैं। सुना है मोटर जब पहाड़ीपर चढ़ती है तो चक्कर आने लगते हैं। मचली भी होती है...”

“नहीं-नहीं, मुझे यह वाहियात चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे क्या दूध-पीता बच्चा समझा है !”

“फिर भी ले जाइए ना। आपकी नहीं तो शायद किसी और ही के काम आ जाए।”

“मैंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।” जब गोविन्दी इस मूर्खतापूर्ण कर्तव्यपरायणताका प्रदर्शन करती थी तो निर्मलको भी ज़िद हो जाती थी।

उसने थैलीको उठाकर दूर फेंक दिया था। मगर मालूम होता था कि गोविन्दीने आँख बचाकर उसे फिर कोटकी जेबमें डाल दिया था। “कितनी मूर्ख, फूहड़ औरतसे पाला पड़ा है।” निर्मलने सोचा और उसका जी चाहा कि उस थैलीको, जो गोविन्दीकी ही तरह गँवारू और दकियानुसी थी, उठाकर खिड़कीसे बाहर फेंक दे। मगर वह बीचमें बैठा था। एक तरफ़ ड्राइवर दूसरी तरफ़ शीरो। उन्होंने देख लिया तो बेकार सवालोकें बचाव देने पड़ेंगे। फिर भी उसने जेबसे हाथ निकाल लिया। थैलीको

चूकर उसे गोबिन्दीका ख्याल आता था । और गोबिन्दीका ख्याल आते ही गुस्सा ।

लारी फिर मुस्तेदीसे चढ़ाईपर चढ़ रही थी । सामने पहाड़ियोंकी चोटियोंपर बादल तैर रहे थे । वायुमंडलमें एक अनोखा आकर्षण, एक अनोखी शांति थी । लारीकी घरघराहट भी स्वर्गका संगीत माखूम होती थी । दूर नीचे घाटीमें नदीका पानी नीलवर्ण था और पहाड़ीकी हरी-भरी ढालपर भेड़ें चर रही थीं । कहीं दूर कोई चरवाहा बैसुरी बजा रहा था । एक दर्द-भरा राग, मगर यह मीठा-मीठा राग था । मीठा-मीठा राग, दुःख भरा और शांत । और कुछ ऐसा ही राग उन पहाड़ी स्रोतोंमें भी था जिनके पाससे होकर लारी गुज़र रही थी और जिनकी फुहार उड़कर शीरीकी बालोंमें मोती पिरो रही थी ।

ब्रेकके भटकेके साथ लारी ठहर गई । यह दोमेलका डाक-बंगला था । डाइवरने कहा, “आजकी रात यहीं रहना होगा ।”

निर्मल और शीरी नीचे उतरकर डाक-बंगलेमें चले गए । खानसामासे कहकर अपना सामान लारीसे उतरवाया और चायका आर्डर दिया । डाक-बंगला खाली था इसलिए उन दोनोंको एक-एक कमरा आसानीसे मिल गया । गरम पानीसे मुँह-हाथ धोकर निर्मल बाहर निकला तो देखा कि शीरीने इसी बीचमें कपड़े भी बदल लिए हैं । और ब्लाउजके बजाय अब वह रेशमी शलवार और कमीज़ पहने हुए थी । और कमीज़पर एक उन्नाबी रंगका कसा हुआ स्वेटर जिससे उसके सीनेका उभार साफ़ दिखाई देता था । कॉर्धोंपर रेशमी टुपटा उसने अल्ट्राइपनसे ढाल रखा था ।

चायकी मेज़पर बैठते हुए निर्मलने कहा, “तो आप शलवार-कमीज़ भी पहनती हैं ?”

“जी हाँ, मुझे पंजाबी पहनावा बहुत पसंद है ।”

“और पंजाबी ?” निर्मलने साहस करके पूछ ही लिया । शीरीने चाय उँडेलते हुए एक सुरीले क्रहक्रहेके साथ जवाब दिया “यह आप पर

निर्भर है—आप पहले पंजाबी हैं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है।”

दोमेलका डाक बंगला एक अत्यंत रम्य स्थानपर स्थित था। नीचे एक नदी बहती थी जिसके दूसरी तरफ एक ऊँची पहाड़ी दीवारकी तरह खड़ी थी। सूर्य अस्त होनेमें अभी थोड़ी देर थी। चाय पीकर निर्मल और शीरी नदीके किनारे टहलने चले गए। नदीसे थोड़ी दूरपर एक रस्सीका पुल बना हुआ दिखाई दिया—भूलेकी तरह मोटे-मोटे तारोंमें लटका हुआ।

शीरीने कहा, “आइए उस पुलपरसे दूसरी तरफ चलें।”

निर्मलने कहा, “मगर आपको डर तो न लगेगा ?”

शीरीने कहा, “आपने मुझे क्या समझा है ?”

फिर भी जब पुलपर पहला कदम रखा और भूलेकी तरह सारा पुल थरथरा उठा तो उसके मुँहसे एक हल्की-सी चीख निकल गई। निर्मलने फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया और फिर वह दोनों एक-दूसरेके हाथमें हाथ डाले हँसते-हँसते डगमगाते हुए पुलके बीचमें पहुँच गए।

पचास फुट नीचे नदी पथरीली ढाल ज़मीनपर बड़ी तेज़ीसे बह रही थी। चट्टानोंसे टकराकर पानीमें भाग उठ रहा था।

“कितना सुंदर दृश्य है !” निर्मलने कहा, मगर शीरीसे कोई जवाब न पाया। वह एक हाथसे लोहेके मोटे तारको मज़बूतीसे पकड़े हुए थी और दूसरा हाथ सहारेके लिए निर्मलके कंधेपर रखे, नज़र मुकाए नदीको देख रही थी।

कुछ मिनट तक वह इसी तरह खड़ी रही। निर्मलने नरमीसे पूछा, “क्या सोच रही हैं आप ?”

शीरीने कोई जवाब न दिया। वह सोच रही थी, यह पंजाबी नौजवान कितना अच्छा है ! कितना सभ्य, कितना मिष्टभाषी ! इसकी बात कितनी दिलचस्प हैं ! इसके विचार कितने उच्च हैं ! परीब ज़रूर है, मगर इसका दिल अमीर है ! वास्तविक धन तो दिल और दिमागका ही होता

है। और मेरे माँ-बापको देखो कि मुझे उस शुष्क-हृदय खूबसूरत कर्सेटजीके पल्ले बाँध देना चाहते हैं। कहाँ कर्सेटजी और कहाँ निर्मल ! वह अपनी घनिकताके प्रदर्शनके अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। जब देखो रोब डालनेकी कोशिश करता है। 'मैंने नई कार ली है, पैकार्ड—बिल्कुल नया मॉडल !' 'कल रेसमें दस हजार हार गया, मगर कुछ परवाह नहीं।' ला फ्रान्ज़ गया था। दस नए सूट आर्डर किए हैं।' और निर्मलको देखो ! उसके पुराने ओवस्कोटमें कई जगह रफू किया हुआ है, कपड़े बिल्कुल मामूली हैं, मगर कितना भला मालूम होता है ! उसके बाल कितने अच्छे हैं ! मालूम होता है, न कभी तेल डालता है, न कंघी करता है, मगर इन लेखकों और आर्टिस्टोंकी तो यही शान होती है। इस लापरवाहीमें भी कितना आकर्षण है ! और वह कर्सेटजी ! बिल्कुल गंजा होनेपर भी रहे-सहे बालोंको तेलसे चुपड़े रहता है। कर्सेटजीके गंजाका खयाल आते ही वह मुस्करा दी।

“क्यों, आप क्या सोचकर मुस्करा रही हैं ?”

“कुछ नहीं, ऐसे ही। न जाने क्यों इतनी खुश हूँ !”

और वह सोच रही थी, अच्छा ही हुआ मैं माँ-बापसे लड़कर यहाँ माग आई, नहीं तो वह ज़बरदस्ती किसी न किसी तरह मेरी शादी कर्सेटजीसे कर ही देते और मेरे आशामय स्वप्नोंपर पानी फिर जाता। मगर इस समय मैं उस खूबसूरत कर्सेटजीका ध्यान करके क्यों अपना समय नष्ट कर रही हूँ।

उसने नज़र उठाई तो निर्मलको मुस्कराते हुए पाया। “अब आप बताइए, आप क्यों मुस्करा रहे हैं ?”

निर्मलने कहा, “आपका चेहरा भी सिनेमाके परदेकी तरह है, जिसपर प्रतिबिम्ब सीन बदलता रहता है। अभी-अभी आप मुस्करा रही थीं, फिर किसी सोचमें डूब गईं और आपके माथेपर बल पड़ गए।”

शीरीने निर्मलके कंधेको धीरेसे दबाते हुए कहा, “चलिए वापस चलें। देर हो रही है।”

सूरज सामनेवाली पहाड़ीकी आड़में छिप गया था। हरी-भरी पहा-

झियोंपर कालिमा छागई थी। संध्याकालकी निस्तब्धतामें नदीका शोर और भी अधिक मालूम होता था। पुलपरसे उतरकर वह पगडंडीके रास्ते डाक-बंगलेकी तरफ चले। डाक-बंगला दूर तो न था मगर वे रास्ता भूल गए और किसी और बंगलेके पास जा निकले। वहाँसे ठीक रास्ता मालूम करके चले तो अंधेरा छा चुका था। तीजके चाँद और सितारोंकी मद्धम रोशनी फैली हुई थी। शीरी अब भी निर्मलके कंधेका सहारा लिए हुए थी! कितना अच्छा लगता था इस तरह चलना। अनजाने ही निर्मलका दायाँ हाथ शीरीकी कमरके चारों ओर लिपट गया और उसका जी चाहा कि रात-भर वे रास्ता भूलकर यों ही चलते रहें। एक अनोखी मादकता, एक अनोखी शांति थी इस सामीप्यमें! एक अजीब-सी बेचैन कर देनेवाली लज्जत!

डाक बंगलेके पास आकर वह आपसे आप अलग हो गए। मगर इस अलग होनेमें भी फिर मिलनेका वादा था।

खाना खाकर वह कुछ देर बरामदेमें बैठे बातें करते रहे। शीरी निर्मलके साहित्यिक कामके बारेमें सवाल करती रही और निर्मल, जो गोविन्दीसे कभी इस प्रकारकी बातें न कर सका था, आज न जाने किस प्रवाहमें बहता चला गया। जो कुछ वह लिख चुका था, जो वह लिखना चाहता था, सब बयान कर डाला। कहानियाँ, उपन्यास, कविताएँ—उसके मनमें कितनी योजनाएँ थी, कितनी इच्छाएँ, आशाएँ और उमंगें। मगर आजतक उसने उनको अपने मन ही में दबा रखा था। उसके मित्र और दफ्तरके कर्क उसकी बातोंपर हँसते थे और गोविन्दीमें उन बातोंकी सम्मत्ने की योग्यता ही न थी। मगर शीरी न केवल ध्यानसे उसकी बातोंको सुनती ही रही, प्रशंसाके शब्दों और उपयुक्त सलाहोंसे उसका हौसखा भी बढ़ाती रही। वह सोच रही थी, “निर्मल साहित्यके भंडारका अनमोल रत्न है। मैं अपनी सहायतासे उसको ख्यातिकी सीमा तक पहुँचा सकती हूँ।” और चिंतन सोच रहा था, ‘ऐसी रूपवती, बुद्धिमान और सहायक लड़की

जीवन-संगिनी हो तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता !'

दस बजे शीरी 'शुड-नाइट' कहकर अपने कमरेमें चली गई। भिगर निर्मल देरतक आराम-कुरसीपर लेटा सुखद सपनोंमें लीन रहा। सरदी चमक उठी थी। बारह बजेके लगभग वह उठा और अपने कमरेमें चला गया। सोनेसे पहले वह सोच रहा था, 'जिस संसारमें शीरीं जैसी विभूतियाँ हैं, वह संसार कितना सुन्दर है !'

अगले दिन प्रातःकाल जब वह लारीमें सवार हुए तो दोनोंको ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह बरसों पुराने मित्र हैं। निर्मल ही ने शीरींका असबाब रखवाया, उसका शाल, बटुआ, दस्ताने, मफलर उसको लाकर दिए और उससे मफलर लपेट लेनेको कहा, क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी। शीरींने निर्मलसे कहा कि वह भी अपने ओवर-कोटेका कालर चढ़ा ले और सिरपर हैट रख ले। उन दोनोंको एक-दूसरेमें इतनी दिलचस्पी लेते देखकर दूसरे मुसाफिर और ड्राइवर उनकी तरफ अर्थ-पूर्णा दृष्टिसे देख रहे थे। मगर निर्मलको आज उनके देखनेकी कोई परवाह नहीं थी।

लारी चल दी।

सड़क और भी चक्करदार होती गई। एकके बाद दूसरा मीलका निशान आता गया। अब वे ऊँची पहाड़ियोंपर चढ़ते-उतरते चले जा रहे थे। सड़क नागिनकी तरह बल खाती चली जा रही थी। चक्कर, लारीकी वूँ-वूँ। एक चक्करके बाद दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और फिर शीरींकी नाजूक-मिजाजी। एक बार निर्मलने उसकी तरफ देखा, शीरींका चेहरा पीला पड़ रहा था।

“क्यों, क्या बात है ?”

“कुछ नहीं, यह कमबखत चक्कर कब खत्म होंगे !” और एकाएक कानमें किसी जानी-बूझी आवाज़ने कहा, “इस थैलीमें मैंने सुपारी, इलायची, सौंफ, लौंग रख दिए हैं। सुना है पहाड़पर जब मोटर चढ़ती है तो चक्कर आने लगते हैं। मचली भी होती है.....आपके नहीं तो शायद और ही

किसीके काम आजाए ।” जल्दीसे उसने कोटकी जेबमें हाथ डाला और अन्दर ही अन्दर यैलीमेंसे सुपारी-इलायची और दो-चार लौंग निकालकर शीरीको दे दिए ।

“यह खा लीजिए । आपकी तबियत फौरन ठीक होजायगी ।”

“थैन्क यू !”

शीरीके मुँहसे इलायचीकी मीनी-मीनी खुशबू उड़कर हवामें फल गई और निर्मलको ऐसा लगा जैसे कोई इलायची इतनी खुशबूदार हो ही नहीं सकती ।

“अब क्या हाल है ?”

“अब तो अच्छी है तबीयत ।” उसके गालोंपर खाली लौट आई थी । सड़कके चक्कर भी अब खत्म हो गए थे, और दूर बफ्रीलि पहाड़ोंसे आती हुई ठंडी हवा बहुत भली मालूम होती थी ।

शीरीने निर्मलकी तरफ कृतज्ञतासे देखा । कितना प्रेम, कितना भोलापन-या ज्ञान आँखोंमें !

अब सड़क इतनी ऊँचाईपर पहुँच गई थी कि मोटर प्रायः बादलोंमेंसे होकर गुजर रही थी । चारों ओर धुंध ही धुंध छाई हुई थी । देवदार और चीड़के पेड़ सुरजको छिपाए हुए थे । जमीन गीली थी । शायद रातको यहाँ वर्षा हो चुकी थी ।

“ओह, कितनी सदीं हो रही है !” शीरीने कहा, “लाइए यह शाल डाल लें ।” और यह कहकर उसने अपनी सुन्दर, कोमल सुरमई रंगकी शाल अपनी और निर्मलकी टाँगोंपर डाल दी ।

धुंध इतनी गहरी थी कि मोटरसे गज्रभर आगे भी कुछ दिखाई न देता था । खारी रेंगती, रास्ता ढूँढती, आगे बढ़ रही थी ।

शालके नीचे निर्मलको अपने बाँए हाथसे किसी कोमल नाजुक वस्तुके स्पर्शका अनुभव हुआ । परन्तु उसे कोई आश्चर्य न हुआ, मानो वह इसकी प्रतीक्षा कर रहा था ।

शीरीका हाथ वर्फ़की तरह ठंडा हो रहा था । निर्मलने उसे अपने गरम हाथ में इस तरह ले लिया जैसे कोई गोदमें बच्चेको लेकर या हाथमें कबूतरको लेकर थपकी देता है ।

कितना छोटा-सा, प्यारा-सा हाथ था शीरीका ! उसके कोमल स्पर्शमें कितना प्रेम, कितना उद्वेग, कितनी मासूमियत थी । उसमें संसारके सृष्टिसे लेकर प्रलय तकके समस्त सुखोंका समावेश था । उसमें दावत भी थी और वादा भी ।

लारी धुंधको चीरती हुई ऊपर चढ़ती जा रही थी । शीरी खामोश थी । चारों ओर निस्तब्धता थी । निर्मलने आँखें बंद कर लीं । अब वह भुसाफ़िरोसे मरी हुई लारीमें न था; वह एक काल्पनिक नौकामें शीरीके साथ वादलोंपर तैरता हुआ असीम ऊँचाईकी ओर चला जा रहा था ।

उतार

उतार कितना कष्टदायक था और कितना अप्रिय !

धीरे-धीरे गरमी बढ़ती जा रही थी । गुलमर्गसे जब वह प्रातःकाल चले तो सरदीके मारे काँप रहे थे । श्रीनगर पहुँचते-पहुँचते धूप निकल आई और ओवर-कोट उतार देने पड़े । श्रीनगरसे जब वह दूसरी लारीमें चले तो निर्मल पुलोवर और कोट पहने हुए था और शीरी अपना सुरमई स्वैटर । परन्तु बाराभूला पहुँचते-पहुँचते उन कपड़ोंमें भी गरमी मालूम होने लगी । “आखिर कोट क्यों नहीं उतार देते ?” शीरीने कहा ।

बात ठीक थी, लेकिन न जाने क्यों निर्मलको शीरीका कहनेका ढंग बुरा मालूम हुआ । फिर सोचा, “नहीं शायद मेरे कानोंका दोष हो ।”

उसने कोट उतारकर गोदमें रख लिया । आपसे आप उसके हाथने शीरीके हाथको ढूँढ़ लिया । वही छोटा-सा, नाजुक-सा हाथ ।

सड़क घाटीकी समतल भूमिपर होकर चली जा रही थी । दोनों ओर सफ़ेदेके लम्बे-लम्बे पेड़ संतरियोंकी तरह तने खड़े थे । दूर धूपमें गुलमर्गके

पहाड़ोंकी बर्फसे ढँकी हुई चोटियाँ चमक रही थीं । एकके बाद दूसरे मीज़का परथर-आता जा रहा था ! यह उसके जीवनकी सबसे महत्त्वपूर्ण और सुखमय यात्राकी मंज़िलें थीं । एक महीना पहले वह इनको गिनता हुआ काश्मीर पहुँचा था और अब एक महीना बाद उनको गिनता हुआ वापस आ रहा था ।

एक महीना ! तीस दिन ! एक दिनमें चौबीस घंटे ! मगर ज़िन्दगीको महीनों, दिनों और घंटोंके हिसाबमें नहीं नापा जा सकता । केवल जीवित रहना ही ज़िन्दगी नहीं है । यों तो जानवरोंकी भी ज़िन्दगी होती है । कहते हैं, पौदोंकी ज़िन्दगी होती है । परन्तु मनुष्यका जीवन उसके उद्धारों और अनुभवोंके संचयका नाम है । एक क्षणमें मनुष्यको अमर जीवनका सार प्राप्त हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि तीस बरस जीवित रहनेपर भी जीवन-हीन रहे । काश्मीर आने तक जीवन भी ऐसे ही जी रहा था । पशुओं और पौदोंकी तरह । खाता था, पीता था, सोता था, दफ़्तर जाता था, वापस आता था । इस व्यर्थ आवश्यक दौड़-धूपसे उकता जाता तो एक कहानी या कविता लिखकर एक कल्पित संसारके सुखोंमें अपने आपको खो देनेका प्रयत्न करता । मगर कल्पना और सत्यमें वही अन्तर था जो शीरीं और गोविंदी या ज़मीन और आसमानमें था । एक महीने तक वह दोनों साथ रहे थे । पिछले तीस दिन उसकी आँखोंके सामने एक चल-चित्रकी भाँति फिर गए । 'डल' के शांत जलपर शिकारेकी सैर, शीरींका सिर उसके काँधेपर, शालीमारमें एक चेनारके साएमें पिकनिक, गुलमर्गकी मखमली हरियाली जिसपर लेंटे-लेंटे उन्होंने पूरे-पूरे दिन बिताए थे । खिलनमर्ग तक घोड़ोंपर चढ़ाई, वहाँसे उपुत्तर । श्वेत हिमा-च्छादित पहाड़ियाँ, नीली भील और उसमें तैरते हुए बर्फ़के बड़े-बड़े ढेर । और शीरींके पास होनेके कारण तो इनमें दुगुना आकर्षण पैदा हो जाता । प्रकृति सुंदर थी, परंतु प्रकृतिका सुन्दरतम उपहार तो स्वयं शीरीं थी । कितनी सादर थी उसके बालोंकी महक । कितनी सुंदर थी उसकी आँखें ! कितने

नाजुक और कोमल थे उसके हाथ ! नाजुक और कोमल, और बर्फ़की तरह ठंडे । नहीं, ठंडे नहीं, गर्म पसीनेसे भीगे हुए ।

एक झटकेके साथ निर्मलका कल्पित संसार छिन्न-भिन्न होगया । शीरीका हाथ अभी तक उसके हाथमें था और दोनों हाथ पसीनेमें तर थे । 'मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ ! इतनी गर्मीमें बेचारीका हाथ अपने हाथमें लिए बैठा हूँ ।' यह सोचकर उसने अपना हाथ धीरेसे खींच लिया । मगर न जाने क्यों उसे सहसा प्रतीत हुआ कि शीरीको अपने हाथका छूट जाना अच्छा मालूम हुआ ।

शीरी सोच रही थी, 'एक वह दिन था कि निर्मल मेरे हाथको छू लेना ही अपना सौभाग्य समझता था । और आज उसको मेरा वही हाथ बुरा लगने लगा है ।' उसने अपने हाथको देखा तो सुख और पसीनेसे तर पाया । अपना रूमाल निकालकर उसने निर्मलको जखानेके लिए हाथको देरतक रगड़कर सुखाया ।

'अच्छा, अब हमारा पसीना भी इतना बुरा लगता है !' निर्मलने सोचा और जलनके मारे उसने भी अपना रूमाल निकालकर अपना हाथ पोंछ लिया ।

डाइवरने पेट्रोल बचानेके लिए इंजन बन्द कर दिया था और लारी ढालपर आपसे आप लुढ़कती हुई तेज़ीसे नीचे जा रही थी ।

'शीरी, तुमने घर खत लिख दिया ?' यह प्रश्न असंगत था, परन्तु निर्मलने पूछ लिया ।

'कितनी बार तो कह दिया हॉ-हॉ-हॉ ।' शीरी गरमी, पेट्रोलकी बू और मोटरके चक्करमेंसे हैरान थी इसलिए गुस्सा निर्मलपर उतारा । वह निर्मलको बता चुकी थी कि उसने अपनी माँको खत लिख दिया है कि वह कर्सेटजीके वजय निर्मलसे शादी करना चाहती है । और वह चाहती भी यही थी । मगर इस बातको बार-बार दुहरानेसे चिढ़-सी हो गई थी, क्योंकि उसका बयान सच भी था और झूठ भी । खत उसने

ज़रूर लिखा था और इसी आशयका, मगर अभीतक डाकमें डाला न था। आखिरी वक़्त न जाने क्यों वह निश्चय न कर सकी थी और उसने यह सोचकर उसे बैगमें रख लिया था कि लाहौरमें कई रोज़ तो ठहरना ही है, वहाँसे भेज दिया जाएगा।

निर्मलने शीरींको यह न बताया था कि उसकी शादी होचुकी है और इसको वह झूठ न समझता था, क्योंकि गोविन्दीसे उसकी शादी 'भारे बाँधे' की थी। अब उसने तय कर लिया था कि गोविन्दी और लाहौर और जलालपुर जट्टोंको हमेशाके लिए छोड़कर वह बंबई चला जायगा। वहाँ उसको किसी फ़िल्मी कम्पनीमें कहानी और डायलाग लिखनेका काम मिलनेकी काफ़ी उम्मीद थी। फिर शीरींसे 'सिविल मैरिज' करके वह अपनी सारी उम्र वहीं गुज़ार देगा। यह था उसके जीवनको सुखमय बनानेका कार्यक्रम !

वर्षा ऋतु बीत चुकी थी। अब आसमान साफ़ था और ज़मीन खुशक। यद्यपि वह अब भी तीन हज़ार फ़ुटकी ऊँचाईपर थे, धूप काफ़ी कष्टदायी मालूम होरही थी। दूसरी ओरसे कोई लारी, या मोटर आती तो धूलका एक बादल उड़ाती हुई और न सिर्फ़ उनके कपड़े धूलमें अट जाते बल्कि महीन-महीन गर्द उनके मुँह और नथनोंमें घुस जाती। शीरीं इस संकटसे बचनेके लिए अपने सिरपर रेशमी रुमालकों मुँहपर नकाबकी तरह ओढ़े हुए थीं। एक बार रुमाल हटाया तो चेहरा पसीनेमें नहाया हुआ था।

'बेचारी !' निर्मलने प्रेमसे उसकी ओर देखते हुए सोचा, और फिर शीरींको सम्बोधित करते हुए कहा, "खिड़कीके पास गर्द ज़्यादा आरही है। तुम चाहो तो इधर आजाओ।"

उन्होंने अपनी सीटें बदल लीं। उनके शरीरोंमें इस बार भी एक दूसरेसे टक्कर और रगड़ हुई। मगर आज निर्मलको वह मादकतापूर्ण सनसनाहट अनुभव न हुई जो एक माह पहले हुई थी। न जाने क्यों ?

बीचकी सीटपर आरामसे बैठकर शीरींने अपना बैग खोला और उसमें

से पाउडर पफ़ निकाला। निर्मलने देखा कि शीरीके गालोंपर पसीनेकी वजहसे पाउडरकी बत्तियाँ-सी बन गई हैं। सुर्खी बहकर न जाने कहाँसे कहाँ पहुँच गई है। होठोंकी लिपस्टिक कहीं लगी हुई थी और कहींसे पायब हो गई थी और गर्द ज़म जानेके कारण होठोंका रंग लालके बजाय चाकलेट जैसा हो गया था। कमानदार भवोंके ऊपर हल्की-सी नीली-सी कमानें उभर आई थीं। शायद कई दिनसे उनको कतरकर बारीक न बनाया था। जिस चेहरेको देखकर कभी निर्मलके हृदयमें उमंगें उठने लगती थीं, आज उसको बिल्कुल आकर्षक मालूम न हुआ। न जाने क्यों ?

शायद शीरी समझ गई थी कि निर्मल क्या सोच रहा है। इसीलिए वह जल्दी-जल्दी पाउडर और सुर्खीकी सहायतासे अपने चेहरेकी "भरभरत" कर रही थी। निर्मलने एक बार कहा था कि शीरीसे मिलनेसे पहले उसे उन लड़कियोंसे नफ़रत थी जो पाउडर और लिपस्टिक लगाती थी। "तुम्हारी बात और है।" उसने कहा था, मगर शीरीको बहुत शंका थी कि निर्मल अब भी इस प्रकारके शृंगारको नापसन्द करता था इसलिए ऐसे अवसरपर वह अपनेको तुच्छ समझने लगती। परन्तु अपनी दृष्टिमें अपना महत्व बनाए रखनेके लिए वह सोचती, 'निर्मल योग्य और बुद्धिमान सही परन्तु वह फिर भी गँवार है। बंबई जैसे शहरकी 'सोसायटी' में मिला-जुला होता तो उसके विचार इस प्रकारकी रूढ़िवादितानोंसे भी शुद्ध हो जाते।' और यह विचार आते ही वह सोचने लगती कि 'बंबई जाकर वह अपने मित्रोंसे निर्मलका परिचय किस प्रकार कराएगी। और यदि निर्मलने उन्हें पसन्द न किया ? या उन्होंने निर्मलको पसन्द न किया ?' यह प्रश्न अक्सर उसके दिमागमें पैदा होता मगर वह उसको बार-बार अपने मस्तिष्कसे निकाल देती।

लारीके सफ़रमें अगर इंजन न बिगड़े तो पंचर होना तो आवश्यक है। ष्टेभरसे ज़्यादा रुकना पड़ा। पहली बार निर्मल और शीरीने दूसरे मुसाफ़ि़रोंको देखा। दो-एक तो वही थे जो पिछली बार भी उनके साथ ही

आए थे और उन दोनोंकी ओर अर्थ-पूर्णा दृष्टिसे देखकर आपसमें खुर-पुसर कर रहे थे। एक गोरा-सा बड़ी नाकवाला नौजवान था। फ़िल्म एकदम जैसी मूँछें बनाए हुए, सिरपर बाँका फ़्लैट हैट, गलेमें रेशमी मफलर और कोटके बजाय हवाई जहाज़के उड़कों जैसी चमड़ेकी आस्तीनोंका जैकेट, मुँहमें पाइप। शीरीको देखकर वह इस तरह आगे बढ़ा जैसे कोई शिकारी चिड़िया अपने शिकारपर भपटती है।

“आप मिस बाटलीवाला हैं ?” उसने पहले अंग्रेज़ीमें पूछा और शीरीका जवाब पाकर उसने निःसंकोच हाथ भिलाकर गुजरातीमें बात करना शुरू कर दिया। एम छे, केम छे, दूँ छे, सारो छे, यह छे, वह छे ! निर्मलकी समझमें कुछ न आया कि वह क्या बातें कर रहे थे। बीचमें शीरी ने निर्मलका परिचय भी कराया, “यह मेरे दोस्त हैं, मिस्टर निर्मल कुमार। काश्मीरमें हमारी मुलाकात हुई थी। और आप हैं मिस्टर दारूवाला। मोटरोंका कारोबार करते हैं। और सारे बंबईमें सबसे अच्छा टैगो डान्स करते हैं।”

“आप खुद क्या बुरा नाचती हैं। पिछले क्रिसमसपर याद है जब ताजमें कोकाको और आपको इनाम मिला था।” और फिर निर्मलको सम्बोधित करके, “हाँ, तो मिस्टर कुमार ! मुझे याद पड़ता है हम कहीं मिले हैं। हाँ, खूब याद आया, ताजके हार्बर बारमें। नहीं, नहीं, क्रिकेट-क्लबमें।” और जब निर्मलने आजिज़ीसे जवाब दिया कि ताज और क्रिकेट-क्लब क्या उसने तो कभी बम्बई शहर ही नहीं देखा तो मिस्टर दारूवालाने फिर शीरीसे ‘एम छे, केम छे’ का क्रम शुरू कर दिया।

कुछ देरतक निर्मल बेवकूफ़ोंकी तरह खड़ा उनकी गुजराती बातचीतका अर्थ समझनेका प्रयत्न करता रहा, मगर ‘ताज’ ‘ग्रीन’ ‘सी-सी-आई’ ‘महालक्ष्मी’ ‘प्रेस कोर्स’ ‘गोल्डेन प्लान’ के सिवा कोई शब्द समझमें न आया। एक बार उसको शङ्का हुई कि वह दोनों राजनीतिके विषयपर बातें कर रहे हैं, क्योंकि ‘स्टालिन’ और ‘चर्चिल’ के नाम बार-बार लिए जा-

रहे थे । मगर फिर 'बेटींग' का जिक्र हुआ तो पता चला कि यह शुद्धदौड़के घोड़े हैं, राजनीतिज्ञ नहीं । निर्मल प्रेमके मामलेमें प्रेमिकाको अपनी "संपत्ति" समझने और दूसरोंसे ईर्ष्या रखनेमें विश्वास न करता था, मगर शीरींका उस अन्ननवी नौजवानसे शुद्ध-मिलकर बातें करना उसे अच्छा न लगा ।

वह टहलता हुआ सबके दूसरे किनारेपर चला गया जहाँ कुछ और मुसाफिर पथरोंकी दीवारपर बैठे हुए थे । उनमेंसे एक बयस्क साहबने निर्मलसे पूछा, "क्यों बाबूजी ! यह जो बाई आपके साथ हैं यह आपकी पत्नी हैं ?" निर्मलने जल्दीसे जवाब दिया, "जी नहीं, आपको भ्रम हुआ है, वह केवल मेरी मित्र हैं । काश्मीरमें मुलाकात हुई है ।" वह साहब धीरेसे मुस्करा दिए ।

जैसे-तैसे करके लारी रवाना हुई तो शीरींसे फिर बात करनेका अवसर भिन्ना । परन्तु वह आप ही आप कोई अंग्रेज़ी गीत गुनगुना रही थी । निर्मलको अगर किसी चीज़से चिढ़ थी तो वह अंग्रेज़ी गाना था ।

"क्या गा रही हो ?"

"अरे, तुमने यह गीत नहीं पहचाना ? 'डाउन द अर्जेंटाईन वे' में कारमन मिरांडा गाती है ना !" निर्मलने यह फ़िल्म ही न देखा था । परन्तु गीत उसे अर्थ-हीन और बेतुका मालूम हुआ । 'मा मा या केरो, मा मा या केरो !'

"भला यह भी कोई गाना है ! मुझे तो बकवास मालूम होता है ।"

"तुम्हें तो हर अंग्रेज़ी चीज़ बकवास मालूम होती है ।"

"और तुम्हें हर अंग्रेज़ी चीज़ पूज्य मालूम होती है ।"

न जाने क्यों दोनोंके बातचीतके ढंगमें कटुता आती जा रही थी । शायद गरमीके असरसे, जो प्रतिक्षणा बढ़ती जा रही थी ;

शीरीं सोच रही थी, 'यह भी कोई बात है कि अंग्रेज़ी नाच न नाचो । अंग्रेज़ी गाना न गाओ । आखिर ज़िन्दगीमें यही तो दो-चार दिलचस्प चीज़ें हैं ।'

निर्मल सोच रहा था, 'क्या बंबई जाकर और शीरीकि दोस्तों—दारूवाला जैसे दोस्तों—के साथ रहकर मुझे भी अंग्रेज़ी नाच-गानेकी आदत डालनी पड़ेगी ?'

शीरीकि साथ सुखमय जीवन व्यतीत करनेके जो स्वप्न वह देख रहा था, दारूवालासे मिलकर भंग हो रहे थे। क्या शीरीकि सब दोस्त इसी तरहके होंगे ? क्या उसके साथ वह ऐसा ही व्यवहार करेंगे ? तीस दिन उन दोनोंने एक-दूसरेके साथ मित्रता और हँसी-खुशीमें गुज़ारे थे। उन्होंने अपने हृदय और अपने विचारोंमें एक सागंजस्य पाया था। ऐसा मालूम होता था कि नियतिने उन दोनोंको एक-दूसरेके लिए ही बनाया था। परन्तु जो लड़की दारूवालासे हँस-हँसकर बुढ़दोड़ों और नाचघरोंकी बातें कर रही थी वह तो कोई और ही शीरी थी, जिससे वह अबतक बिल्कुल अपरिचित रहा था। क्या इस शीरीसे भी उम्र-भरका विवाह सम्भव था ?

उम्र-भरका निवाह ? गोविन्दीसे भी तो उसे उम्र-भरका निवाह करना था। बेचारी गोविन्दी ! जो अंग्रेज़ी गाना तो क्या, हिन्दुस्तानी गाना भी न जानती थी। जो केवल रोटी पकाना जानती थी। उसने गोविन्दीसे कहा था, 'मैं काश्मीर जा रहा हूँ। महीने-भरके लिए तुम जलालपुर जहाँ चली जाओ।' और उसने जवाब दिया था, 'बड़ी अच्छी बात है, काश्मीर जाकर आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। यहाँ काम भी तो बहुत करते हैं आप। दिन-भर दफ़्तरमें सिर खपानेके बाद फिर रातको लिखने-पढ़ने बैठ जाते हैं।' और एक बार भी गोविन्दीने यह नहीं कहा था, 'मुझे भी ले चलिए काश्मीर।' कहा था तो बस यह कि, 'इस थैलीमें मैंने सुपारी, इलायची, सोंफ़ और लोंग रख दिए हैं। सुना है पहाड़पर जब मोटर चढ़ती है तो चक्कर आने लगते हैं।' और इस बार गोविन्दीके शब्दोंको याद करके वह गुस्सा होनेके बजाय मुस्करा दिया।

“क्या बात है जो आप ही आप मुस्कराए जा रहे हो ?”

“कुछ नहीं।” उसने झूठ बोला, “यूँ ही। कोई खास बात नहीं।” और फिर बात बदलनेके लिए “हाँ शीरी, यह तो बताओ अपनी माँके नाम यह पत्र तो डाल दिया था ना!” और निर्मलका जी चाहा कि शीरी जवाब दे ‘नहीं’। न जाने क्यों ?

“फिर वही सवाल ! कहो तो सौगंध-पत्र लिख दूँ।” शीरीके उत्तरमें कटुता थी और व्यंग था।

कुछ देर फिर खामोशी। दोनों तरफ़ तनाव। लारीके पिछले डिब्बेसे दारूवालाके सीटी वजानेकी आवाज़ आई। कोई अंग्रेज़ी नाचकी धुन थी। शीरीके नाबुक ऊँची एड़ीके जूते लारीसे फ़र्शपर नृत्य करने लगे। निर्मलने सड़कके किनारे लगे हुए वृत्तोंको देखना शुरू कर दिया।

“निर्मल !” इस बार शीरीकी आवाज़में नमी थी।

“हाँ, कहो क्या बात है ?”

“क्या तुम्हें अंग्रेज़ी नाचसे सचमुच इतनी नफ़रत है ?”

“है तो। बात यह है कि मैं ठहरा गँवार, हिन्दुस्तानी किस्मका आदमी।” और उसे आशा थी कि शीरी कहेगी, ‘ऐसा है तो तुम्हारी खातिर मैं भी नाचना छोड़ दूँगी।’ मगर शीरीने कहा, “यह तो बड़ी मुश्किल हुई।” और फिर खामोश होगई।

साढ़े-पाँच बजेके करीब वह डोमेलके डाक-बँगलेपर पहुँचे। डाइवरने कहा, “आज तो रावलपिंडी नहीं पहुँच सकते। रातको यहीं ठहरना होगा।”

चले तो थे इस हरादेसे कि इसी रातको रावलपिंडी पहुँच जाएँगे। मगर निर्मलको डोमेल ठहरना अच्छा मालूम हुआ। उसने सोचा, ‘इसी डाक-बँगलेमें हमारा पहली बार प्रेम हुआ था। उस वातावरणमें हम एक दूसरेको फिर पासकेंगे। और आजकी जली-कटी बातें मुला सकेंगे।’

मगर दारूवालाकी मुसीबत सिरपर थी। इनके कमरेके बगलमें उसने भी कभरा ले लिया और शीरीसे आकर सदाकी तरह बेतकरलुकीसे बात करनी शुरू कर दीं।—‘देखिए, आजकल रेलमें ‘रश’ बहुत होता है।’

इसलिए सीटें रिजर्व करानेके लिए यहाँसे तार दे देना चाहिए। नहीं तो बड़ी मुश्किलमें पढ़ जाएँगे। कहिए तो तार दे दूँ दो फ्रस्ट क्लास की सीटोंके लिए ?”

शीरीने कहा, “मिस्टर निर्मलकुमारसे पूछ लीजिए। उनको भी तो सीट रिजर्व करानी होगी। और हौं, देखिए एयर-कन्डीशण्ड कम्पार्टमेन्टके लिए तार दे दीजिएगा, नहीं तो सैरका सब मज़ा किरकिरा हो जाएगा।”

बराबरेमें निर्मल यह बातें सुन रहा था। उसने जल्दी-से अपने कमरेमें जाकर अपने बटुएमें देखा तो केवल साढ़े ग्यारह रुपए निकले। तीनसौ में बड़ी मुश्किलसे महीने भरतक गुज़ारा हुआ था। वह भी इस तरह कि शीरी हमेशा अपना खर्च खुद उठाती थी और कभी-कभी निर्मलका भी। अब सिर्फ साढ़े ग्यारह रुपए रह गए थे। डाक-बँगलेका किराया और खानेका दाम देकर मुश्किलसे छः-सात रुपए बचनेकी उम्मीद थी। वह तो लाहौर तक फ्रस्ट क्लोड थर्डमें भी नहीं जासकता था। और शीरीसे रुपया माँगना उसकी स्वाभिमान गवारा न करता था।

“कहिए मिस्टर कुमार ! तो आपके लिए भी तार दे दूँ !” दारूवालाने कमरेमें भाँककर कहा।

“मेरे लिए....जी....तकलीफ़ न कीजिए।”

“अरे भई, इसमें तकलीफ़की क्या बात है। डाकखाने तो जा ही रहा हूँ। जहाँ दो सीटोंके लिए तार दूँगा, वहाँ तीनके लिए भी दे सकता हूँ। या आपने पहलेसे सीट रिजर्व करा रखी है ?”

निर्मलने यह बहाना यनीमत जाना। “जी हौं, मैं तो पहले ही रिजर्व करा चुका हूँ।”

और बराबरके कमरेमें यह सुनकर शीरीके माथेपर बल पड़ गए। अपनी सीट रिजर्व करा ली और मेरा खयाल भी न किया।

डाकखाना बन्द होचुका था। तार न जासका, मगर दारूवालानेको दक-बक करनेका एक विषय मिल गया,—“अजीब आफ़त है। न जाने

कलकी ट्रेनमें कोई फ़स्ट क्लास एयर-कन्डीशण्ड बर्थ मिले भी या नहीं । या मुमकिन है सेकेन्ड क्लासमें जाना पड़े ।” और उसने सेकेन्ड क्लासका ज़िक्र किया जैसे उस दर्जेमें सफ़र करना उसका बहुत बड़ा अपमान था । “मगर मिस्टर कुमार, आप तो मज़ेमें रहे, पहलेसे इन्तज़ाम कर लिया ।”

शीरी अन्दर कमरेमें कपड़े बदल रही थी । इसलिए दारूवालाकी बातोंसे छुटकारा पानेका कोई उपाय न था । उसकी ज़बान थी कि कच्चीकी तरह चलती जा रही थी । “अरे मिस्टर कुमार, आप बंबई आइए, बंबई । फिर आपको ज़रा दुनियाकी सैर कराई जाए । मेरी बात मानिए तो नवम्बर में आइए । रेसेज़ भी होंगी । फिर ज़रा लुस्फ़ रहेगा । मगर यह बताए देता हूँ कि अगर आपको नवम्बरमें आना है तो अभीसे खत लिखकर ताजमें कमरा रिज़र्व करा लीजिए वरना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी । ताजमें आप होंगे तो फिर हरवक्त मुलाकात हुआ करेगी । मैं दोपहरका खाना अफ़सर वहीं खाता हूँ । और फिर हर डान्स-नाईटपर तो डिनर वहींपर होता है ।” और यह कहते-कहते उसने वहीं बरामदेके फ़र्शपर डान्सके अन्दाज़में थिरकना शुरू कर दिया । “ओह न्वाय ! ओह न्वाय ! ऐसा डान्स फ़ोर दुनियामें कहीं नहीं है ।...मगर आप तो शायद बाटलीवाला पैलेसमें ठहरेगे ! मला-बार हिलपर । अहा हा ! क्या मकान बनाया है मिस शीरीके पिताने । हर चीज़ विलायतसे मँगवाई है । यहाँ तक कि फ़र्नीचर साराका सारा फ़्रांससे बनकर आया था । बहुत शौकीन आदमी हैं, मिस्टर बाटलीवाला भी घटिया चीज़को तो कभी गवारा कर ही नहीं सकते ।”

निर्मलके दिमापमें एक छयाल बिजलीकी तरह कौंध गया, “भला वह एक घटिया दामादको क्यों गवारा करने लगे ?”

शीरी बाहर आई तो दोनों उसका स्वागत करनेको खड़े हो गए । श्रीनगरसे चलते समय वह शलवार-कमीज़ पहने थी, मगर इस वक़्त उसने साड़ी पहने थी और वह भी खास पारसी ढंगसे । दारूवाला बोला, “थैन्क

गॉड ! आपने वह गँवारू कपड़े तो उतारे ।” शीरीने जवाब दिया, “कभी-कभी पहननेके लिए पंजाबी लिबास भी बुरा नहीं होता !”

भूलेके पुलपर फिर सैरको गए, मगर एक महीने पहलेका जादू टूट चुका था । दारूवालाकी उपस्थितिने उनको ठीक तरहसे बात करनेका अवसर भी नहीं दिया । वापसीपर शीरी कुछ सोचती हुई बच्चोंकी तरह ज़ोर-ज़ोरसे बेग हिलाती आगे-आगे जारही थी । और दारूवाला निर्मलके कान खा रहा था ।—“भई कपड़े सिलवाने हों तो ‘ला फ़ान्ज़’ में सिलवाओ । यह खाहौरेके दरज़ी क्या जानें छूट सीना किसे कहते हैं ।” इतनेमें शीरीके हाथसे फिसलकर बेग कुछ दूर जागिरा । विलप खुल गया और सब चीज़ें बिखर गई । निर्मल और दारूवाला दोनों चीज़ोंको उठानेको दौड़े । पाउडर पफ़, लिपस्टिक, बालोंके पिन, कुछ रुपए और नोट, रूमाल....और एक खत ! इससे पहले कि शीरी उसको भ्रमट ले, निर्मलने पता पड़ लिया—“मिसेज़ रोशन वाटलीवाला, वाटलीवाला पैलेस, मलाबार हिल, बंबई ।” यह वही खत है जो निर्मलसे शादी करनेके बारेमें उसने माँको लिखा था और उसके कथनानुसार डाकमें डाला जाचुका था ।

“अरे यह खत !—लो—डालना ही भूल गई ।” भूठ बोलनेका असफल प्रयत्न करनेमें वह हकला रही थी । मगर निर्मलको इसपर ज़रा-भी गुस्सा न आया । यह देखकर कि खत अभी डाकमें नहीं पड़ा था उसको सन्तोष होगया । उसने कहा, “खैर, अब डाकमें भेजनेसे क्या फ़ायदा ? इससे पहले तो तुम खुद ही बंबई पहुँच जाओगी ।”

अगले दिन सबेरे जब लारी डोमेलसे चली तो निर्मलने देखा कि शीरी कुछ अनमनी-सी है । बेग गिरनेके बाद उन दोनोंने उस खतका कोई ज़िक्र न किया था ।

लारी तेज़ीसे ढालपर चली जारही थी । ड्राइवरने उनसे वादा किया था कि फ़्रान्टियर मेलके छूटनेसे पहले ही वह उनको रावलपिंडी पहुँचा देगा ।

“शीरी !” निर्मलने नरमीसे कहा ।

“हाँ, निर्मल !” शीरीकी आवाज़में एक अजीब-सी वेदना थी ।

“तुमने जानकर वह खत न डाला था ना ?” निर्मलने अंग्रेजीमें सवाल किया ताकि ड्राइवर उनकी बातें न समझ सके ।

शीरीने जवाबमें धीरे-से सिर हिला दिया ।

“तुम निश्चय न कर पाई थीं हमारे बारेमें, यही है ना ?” जवाबकी आवश्यकता ही न थी ।

“तुमने ठीक किया, शीरी । मेरे तुम्हारे बीच एक दीवार खड़ी है । हम कभी खुश न रह सकेंगे ।” और यह कहकर उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई बड़ा बोझ उसके सिरसे उतर गया हो ।

शीरी कुछ देर चुप रही । अब रावलपिंडी नज़र आने लगा था । फिर वह बोली, “भगर हम दोस्त तो रहेंगे ना ? मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ?”

निर्मलने सहृदयतासे जवाब दिया, “भला, यह हो सकता है शीरी ! तुमने एक महीनेके लिए मेरे निरीह जीवनको रसमय बना दिया । यह अहसान कम है तुम्हारा ? तुम भूल जाओ तो और बात है । शायद मैं कभी बंबई आऊँ, तुमसे मिलनेके लिए बाटलीवाला पैलेसपर जाऊँ तो तुम मुझे देखकर कहो, ‘हाँ, याद आ गया, कहीं देखा है आपको’ ।”

शीरीने निर्मलके ही शब्दोंमें उत्तर दिया, “भला यह कभी हो सकता है !”

और फिर निर्मलने कहा, “अच्छा तो याद रखना, मैं आऊँ तो शलवार-कमीज़ पहनना । कभी-कभी पहननेके लिए पंजाबी लिबास भी बुरा नहीं होता ।”

रावलपिंडीके स्टेशनपर पहुँचकर वह मुसाफ़िरोकी भीड़में खो गए । दारूवाखाने भाग-दौड़ कर एक बाबूकी मुट्ठी गरम की और फ़र्स्ट क्लासके

एक दर्जेमें दो सीटोंका प्रबंध कर ही लिया। मगर वह एयर-कंडीशयड नहीं था। अगस्तकी दोपहरी। पंखोंमें से भी गरम हवा निकल रही थी।

रेल चलनेवाली थी कि निर्मल नज़र आया। दारूवालाने कहा, “कहिए, आपको कहाँ जगह मिली ?”

निर्मलने गाड़ी के दूसरे सिरेकी ओर इशारा कर दिया।

“ओह ! एयर-कंडीशयड ! बड़े खुशकिस्मत हैं आप !”

“जी हाँ, बिल्कुल एयर-कंडीशयड दर्जा है।”

गाड़ने सीटी दी और निर्मल शीरीं और दारूवाला दोनोंसे हाथ मिलाकर अपने थर्ड क्लासके खचाखच भरे हुए डिब्बेमें आकर बैठ गया।

अब रेल तेज़ीसे लाहौरकी ओर चली जा रही थी। निर्मल लिङ्कीके पास बैठे हुए आराम से खरहा था। मगर इस कष्टमें भी एक सुख था। अब वह कल्पना और विचारोंकी ऊँचाइयोंसे उतरकर ज़मीनपर आगया था। वास्तविकता उस बिना गद्देकी सीटकी भाँति कटोर और कष्टदायी थी, मगर उससे वह परिचित था और उसपर वह विश्वास कर सकता था। निर्मलके चारों ओर धूपमें तपे हुए शरीरोंवाले किसान बैठे थे। वह ताज़महल और क्रिकेट-क्लबकी बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि खेतोंकी, वर्षाकी और फ़सलकी। एक मुंशीजी ऐनक लगाए अखबारमें से स्टालिन और चर्चिलकी ताज़ा मुलाकातका हाल पढ़कर सुना रहे थे; मगर यह चार टाँगवाले स्टालिन और चर्चिलका ज़िक्र नहीं था। वह शरमीली चौदह बरसकी दुलहन जो एक कोनेमें बैठी थी, उसके चेहरेपर शरमकी लाली थी—पाउडर और ‘रूज़’ की नहीं। इस दरजेमें सचमुचके इन्सान बैठे थे। उसके बाप जैसे खुरदरे, मैले-कुचैले, गँवार, अस्वस्थ, अनपढ़—मगर, इन्सान ! सचमुचके इन्सान ! मेहनत मज़दूरी करनेवाले, ठोकरें खानेवाले इन्सान ! उनकी मुहब्बतमें उसे एक विशेष अपनेपनका अनुभव होता था। वह अपनी और उनकी दरिद्रता और दुर्दशापर संतुष्ट नहीं था।

मगर वह जानता था कि उनको नीचे छोड़कर वह स्वयं ऊपर चढ़ गया तो उसको वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा ।

खेत, पेड़, बिजलीके खम्भे, किसानोंके भोंपड़े, गाँव, स्टेशन—यह सब उसके समानेसे तेज़ीसे घूमते हुए चले जा रहे थे । और उन सबमें उसको एक चेहरा भाँकता हुआ दिखाई दे रहा था । पीला-पीला चेहरा, छोटी-छोटी आँखें, मुँहपर राख मली हुई, गालोंपर चूल्हेकी कालिख । मगर इस वक्त यह चेहरा उसको संसारमें सबसे सुंदर लग रहा था । और उसके कान रेलके पहियोंकी घड़घड़ाहटमें बराबर एक ही आवाज़ सुन रहे थे, “क्योंजी, आप आगए ?”



और पक्षीना, मछलीकी वृ और नारियलके तेलकी वृ और दोपहरकी धूपमें फैलती हुई वह खुशबूएँ और बदबूएँ । मराठी और गुजराती, और हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ी ज़बानोंमें बातचीत मिला हुआ शोर,—जो कुछ भी समझमें न आता । कई लाख शहदकी मक्खियोंकी मनभनाइट, इतिज़ार, साठ सेकेंडोंका एक मिनट, और साठ मिनटोंका एक घंटा । एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे और नागिनकी तरह बल खाती हुई चींटीकी रफ्तारसे रेंगती हुई औरतोंकी यह लम्बी कतार धीरे-धीरे बढ़ती हुई । जितनी देरमें अगले सिरेसे एक औरत अनाज लेकर जाती दो नई औरतें पीछे आकर खड़ी हो जाती थीं । दो सौ औरतें, ढाई सौ औरतें, तीन सौ औरतें, साढ़े-तीन सौ औरतें कितने सत्रके साथ सुबहसे इंतज़ार कर रही थीं ! एक टाँग थक जाती तो दूसरीके सहारे खड़ी हो जाती थीं । संतोष और लगनका एक अनोखा दृश्य जैसे पुजारिनें मंदिरके द्वार खुलनेका इंतज़ार कर रही हों । एक नया शिवालय जहाँ हिन्दू और मुसलमान, पारसियों और यहूदियों सब पूजाके लिए आई थीं । हरएकके हाथमें एक थैला, हरएकके दिमागमें बस एक खयाल, एक इबिस, एक इच्छा—एक पायली* चावल !

दुर्गा आई और औरतोंकी कतारके आखिरी सिरेपर सबसे पीछे खड़ी होगई । उसको आज यहाँ आनेमें देर होगई थी । सुबहसे उसके सिरमें, शरीरमें, पेटमें बहुत दर्द हो रहा था । उसकी हालत ऐसी न थी कि वह आज यहाँ घंटोंके लिए आकर खड़ी होती, मगर मज़बूरी थी । घरमें चावलके आखिरी बचेखुचे दाने भी खत्म हो चुके थे । दो वक़्त बाज़ारका खाना खाया । आज कई दिनके बाद दूकान खुली थी । अगर उसने आज चावल न खरीदे तो मालूम नहीं फिर कबतक घरका खाना नसीब न हो । और इस बीचमें अगर कहीं दिन पूरे हो गए और वह वक़्त आगया जिसका इन्तज़ार था, तो, फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगी ।

* पायली : अनाज तौलने की एक नाप जो बम्बई में इस्तेमाल होती है । एक पायली चावल लगभग साढ़े तीन सेर होते हैं ।

दुर्गाका पति एक कारखानेमें काम करता था। सुबह घरसे निकलता तो कहीं चिराय जले वापस आता, वह भी दिनभर मशीनकी तरह काम करनेके बाद थका-मौंटा। बाज़ारका सब सौदा-सुलझ दुर्गाको ही लाना पड़ता था। वह मज़दूरी पेशा औरत उहरी उसको काम करनेमें न कोई संकोच था, न कोई दिक्कत। वह जबतक अपने मौं-बापके साथ गाँवमें रहती थी खेतीके काममें हाथ बटाया करती थी। चरखा कातती, चक्की चलाती, अपने बाप-भाईके लिए रोटी पकाकर खेतपर लेजाती, गाय-बैलोकें लिए कुट्टी काटती, दूध दुहती और रातको सोनेसे पहले उनके पाँव मिलाकर बाँधती.....। ब्याहके बाद जबसे शहर आई थी अपने नंदूकी तरह वह भी कारखानेमें काम करती थी। दस घंटे रोज़ाना वहाँ काम करती, फिर घर आकर चूल्हा फूँकती। मगर उसको कभी यह ख्याल भी नहीं हुआ था कि वह बहुत मेहनत करती है। अपने नंदूकी खातिर वह सब-कुछ करनेको तैयार थी। उसका नंदू कितना अच्छा था। उसने बंबई लाकर दुर्गाको कितनी सैं करवाई थीं—चिड़ियाघर, चौपाटी, अपोलो बन्दर, कई बार सिनेमा ले गया। ऐसी चीज़ें दुर्गाने अपने गाँवमें कहीं देखी थीं! नंदू उसका बहुत खयाल रखता था। और मज़दूरोंकी तरह न वह शराब पीकर आता था, न अपनी बीबीको पीटता था। और अभी छठा महीना पूरा नहीं हुआ था कि उसने दुर्गाका कारखाने जाना बन्दकर दिया,—“अब तुम्हें घरमें आराम करना चाहिए। अब तू मेरे लड़केकी माँ बननेवाली है ना ?” नंदूने हंसकर कहा था, “देख दुर्गा, लौंडा ले लूँगा, लौंडिया नहीं चाहिए।”

नागिनकी तरह बल खाती हुई, चींटीकी रफ़्तारसे रेंगती औरतोंकी क्रतार अनाजकी दूकानकी तरफ़ बढ़ी जा रही थी। अब दुर्गाके पीछे भी आठ-दस औरतें क्रतारमें आ मिली थीं। कहीं-कहीं आपसमें बहस हो रही थी। एक पारसिन बाज़ारकी बढ़ती हुई क्रीमतोंकी आलोचना कर रही थी। एक खोजन अनाजकी कमीका दोष कांग्रेसके लिए धिरे रख रही थी। एक ईसाई औरतका विचार था कि यह सब महात्मा गाँधीका क्रस्तर है। न वह

सरकारसे लड़ाई मोल लेते, न सरकार हिन्दुस्तानियोंको सजा देनेके लिए अनाजपर पाबंदी लगाती ।

“कांग्रेस और महात्मा गाँधीको क्यों दोष देती हो। मालूम नहीं है कि सरकारने लाखों मन गेहूँ ईरान, ईराक, और मिश्र भेज दिया है ?” एक गुजरातिन बोली ।

“हाँ सरकारने अनाज बाहर भी भेज दिया है,” एक मराठिन चमककर बोली, “मगर हम हिन्दुस्तानी कब बेक्रमूर हैं । बनिधों और आदतियोंने कुछ कम अनाज अपने घरोंमें भर रखा है !”

“और क्या ! हम एक पायली चावलके लिए पाँच-पाँच और छः-छः घंटे खड़े रहते हैं और यह बनिए हैं कि हरएकने हजारों मन अनाज छिपाकर रख छोड़ा है और चोरीसे दुगनी तिगुनी क्रीमतोंपर बेच रहेहैं !”

“ऐसे लोगोंको तो फाँसी दे देनी चाहिए !”

“वह दूसरे मुल्कोंमें होता है। हमारे यहाँ तो उनको रायबहादुर और खानबहादुरके खिताब मिलते हैं। लड़ाईके कामोंके ठेके दिए जाते हैं। यह हिन्दुस्तान है !”

दूसरी तरफ लड़ाईकी खबरोंपर बहस हो रही थी ।

“अरे तुम्हें नहीं मालूम यह जर्मन और जापान एक ही थैलीके चट्टे बट्टे हैं। जापानको मौका मिल गया तो रूसपर हमला करनेसे बाज न आएगा ।”

“अजी तो मानलो कि उसकी शान्त भी आगई। यह बर्मा और फिलीपाइन नहीं हैं कि हड़प कर गया और डकार भी न ली। यह रूस है, रूस !” यह किसी पत्रकारकी बीबी थी जिसका पति शायद सोतेमें भी खबरोंकी हेड लाइनें पढ़ा करता था ।

रूस ! धूपमें दुर्गाका सिर चंकरा रहा था, मगर उसने सोचा यह शब्द “रूस” मैंने कहीं सुना है और न जाने क्यों उसको एसा मालूम हुआ जैसे

इस "रूस" और उसकी ज़िन्दगीमें कोई गहरा सम्बन्ध है। हाँ ! अब याद आया। नई-एक बार उसे एक जलसेमें लेगया था। मज़दूरोंका जलसा था, कोई पचीस-तीस हज़ार मज़दूर होंगे। कई हज़ार तो औरतें ही थीं। हरतरफ़ लाल-लाल भंडे, और भंडोंपर हथौड़े और हँसियाका निशान। बीचमें एक ऊँचा-सा चबूतरा जिसपर खड़े होकर लोग व्याख्यान दे रहे थे। और दुर्गा यह देखकर दंग रह गई कि व्याख्यान तो इतनी दूर चबूतरेपर हो रहा है मगर आवाज़ उसके पास ही एक खंभेपर लगे हुए काले भोंपूमेंसे आरही है। अजीब-सी आवाज़ जैसे कोई ऊँएमें मुँह करके बोल रहा हो। और यह आवाज़ कह रही थी, "भाइयो ! हिटलरके खुनी भेड़ियोंने रूसपर हमला कर दिया है। रूस जो मज़दूरोंका अपना मुल्क है। रूस जहाँ मज़दूरोंका अपना राज्य है.....दुनियाके मज़दूरोंको चाहिए कि वह रूसकी मददके लिए खड़े हो जाएँ।" और फिर "सोवियत-रूस ज़िन्दाबाद" के नारे हज़ारों गलोंसे इसतरह निकले कि मालूम होता था आसमान फट पड़ेगा।

कितनी देर होगई थी उसको खड़े-खड़े। दुर्गाने मुड़कर देखा कोई सोलह-सत्रह औरतें उसके पीछे थीं। अब वह कतारके साथ बढ़ते-बढ़ते सड़कके नुक्कड़पर आगई थी। गरदन टेढ़ी करके वह अनाजकी दूकानका लाल साइनबोर्ड भी देख सकती थी। मगर अब भी कमसे कम सौ औरतें उसके और एक पायली चावलके दरभ्यान बाधक थी। 'मालूम नहीं क्यों यह दूकानदार इतनी देर लगाता है ?' दुर्गाने एक थकी हुई टाँगसे दूसरी थकी हुई टाँगपर बोझ बदलते हुए सोचा। और औरतें भी बोलते-बोलते थक गई थीं और नरमी और खामोशीने पूरी कतारको अपने पंजेमें दबोच रखा था। नीली वर्दी पहने एक पुलिसका सिपाही सामने पेड़के नीचे ऊँच रहा था। उसको ऊँचे देखकर दुर्गाकी तमाम थकान, उसकी दागोंका दर्द, पेटकी चुपन सब उसकी आँखोंमें सिमट आई। उसका जी चाहा वहीं सड़ककी पटरीपर सिर रखकर लेट जाए। उसके पैर डगमगाए तो उसने अपनेसे अगली औरतके कन्धेका सहारा ले लिया।

“अरी मेरी बहन ज़रा अपने ही सहारे खड़ी रहो !” कोई बुढ़िया औरत थी। उसकी आवाज़में कोई गुस्सा या जलन नहीं थी, मगर दुर्गा शर्मिदा होकर बबरा-सी गई। अनायास ही पीछे हटी तो इस दफ़ा सख्त डाँट पड़ी। “.....! अन्धी है, मेरा पाँव कुचल दिया।” और जब यह औरत दुर्गासे बचनेके लिए सहसा पीछे हटी तो क्रतारके आखिर तक गालियों और कोसनेका कई भाषाओंमें शोर मच गया।

दुर्गा शरमसे पानी-पानी होगई। उसने दाँत किचकिचाकर अपने बदनको काढ़में किया और ज़मीनपर नज़रें गड़ा दीं। एक बार उसने सोचा कि एक पायली चावलकी आशा छोड़कर घर भाग जाए। मगर फिर सोचा कि नंदू शामको थका-हारा आएगा। तो क्या खाएगा। उसका अच्छा-अच्छा नंदू जो उसकी खातिर आजकल कई-कई घंटे “ओवर टाइम” काम करता है। और अब तो वह दुकानके करीब ही आगई थी अगर किसी न किसी तरह एक-आध घंटा और बीत जाए तो फिर वह चावल लेकर ही घर जाएगी।

मगर यह पेटमें दर्द क्यों होरहा है ? जैसे कोई आरी चला रहा हो। दुर्गा पीड़ाके मारे पसीनेमें नहा गई थी। उसका सिर फिर चकरा रहा था। और पेटके अन्दर दर्दकी लहरें उठ रही थीं—वेदना और पीड़ाका ज्वार-भाटा। मालूम होता था कि कोई दुश्मन भाला लिए बार-बार हमला कर रहा हो। एक वारका ज़ख़म नहीं भरने पाता कि दूसरा वार करता है। क्या दिन पूरे होगए हैं ? क्या वह वक्त आगया है जिसका वह इतने दिनोंसे इन्तज़ार कर रही थी ? नहीं, यह कैसे हो सकता है। अभी तीन ही दिन तो हुए दार्डने कहा था कि दस-पन्द्रह दिन और लगेगे। शायद यह कोई और किस्मका दर्द है। दर्द और तकलीफ़के इस तूफ़ानमें दुर्गा न जाने किसतरह पूरी क्रतारके साथ-साथ आपसे आप दुकानके दरवाज़े तक पहुँच गई। अब सिर्फ़ एक औरत उसके सामने थी। जब यह औरत भी दुकानके अन्दर चली गई तो दुर्गाने देखा कि उसको भी सीढ़ीपर चढ़कर जाना होगा। एक-एक

फुटकी यह दो सीढ़ियाँ उसको ऐसी मालूम हुईं जैसे उसको गाँवका मंदिर-वाला टीखा जिसकी चोटीपर जानेके लिए सी से ज़्यादा सीढ़ियोंपर चढ़ना पड़ता था। हे भगवान् ! वह उस डगमगाती हुईं सीढ़ीपर चढ़कर दूकानके अन्दर कैसे जा सकेगी।

उससे अगली ओरत थैलीमें एक पायली चावल लिए मुस्कराती, पसीना पोंछती दूकानसे बाहर निकल आई। दुर्गाके पीछेवाली ओरतने उसको टहोका दिया, “चल बाबा, चल। क्या सो रही है ?” बनियेने भी दुर्गाकी तरफ़ देखा और कहा “आ बाई, क्यों देर लगा रखी है ?” मगर उसने यह न देखा कि दुर्गाकी सांत पीली पड़ती जा रही थी। उसकी टांगें सीढ़ीपर चढ़नेके छयाल से ही डगमगा रही थीं।

“मुभसे....मुभसे.....मुभे यहीं दे दो भाई।” उसके होंठ सूखे हुए थे, आवाज़ भी मुश्किलसे निकली।

“तुममें कौन से मुर्बाबके पर लगे हैं। लेना है तो अंदर आकर लो।”

“चलती क्यों नहीं आखिर ?”

“नहीं लेना है तो रस्ता छोड़ो, दूसरोंको जगह दो।”

हर क्रदमपर दुर्गा यही समझती रही कि वह चकराकर गिर पड़ेगी। मगर किसी न किसी तरह घसीटकर उसने अपने शरीरको दूकानके अंदर पहुँचा दिया। काँपते हुए हाथोंसे थैला बनियेकी तरफ़ बढ़ाकर उसने दाम सामने रख दिए जो चार घंटेसे वह अपनी मुट्ठीमें लिए हुए थी और जो पसीनेसे गीले हो रहे थे। दूकानदारने पायलीका नपना उठाया, उसको चावलसे भरकर दुर्गाके थैलेमें डाल दिया। फिर दुर्गाने देखा कि वह मोटा बनिया आपसे आप घूम रहा है, पायलीका बरतन भी, चावलका थैला भी। पूरी दूकान घूम रही है। और घूमते-घूमते यह पूरी दूकान—अनाजकी बोरियाँ, धीके पीपे, दीवारपर लटकी-हुई हनुमानजी की तस्वीर—दुर्गासे टकराई और उसके मुँहसे एक चीख निकल गई।

एक पायली चावल

उसने देखा कि वह चावलके एक ढेरके नीचे दबी पड़ी है। उसका सौँस घुटी लारही है मगर उसके ऊपरसे चावल आपसे आप हटते गए। हनुमानजी उन चावलोंको पायलीके बरतनमें भर-भरकर सब औरतोंको बाँट रहे हैं। 'यह लो एक पायली चावल। लो एक पायली चावल।' और हनुमानजीकी दुम खुशीसे नाच रही है। मगर नहीं, यह तो दुम नहीं, एक नागिन है और उसका मुँह उस औरतकी तरह है जिसने दुर्गाको गाली दी थी। और दमभरमें यह नागिन फूलती गई, बढ़ती गई और दूकानसे लेकर बल खाती हुई नुककड़वाली गली तक जा पहुँची। फुकारें मारती हुई अब वह दुर्गाकी तरफ बढ़ती हुई आरही थी। कोई दममें उसको हड़प कर जाएगी। नागिनने सौँस खींचा और दुर्गा खिंची हुई उसके पेटमें चली गई.....।

मगर नहीं, यह नागिनका पेट नहीं था, एक अँधेरा कमरा था। अँधेरा और गरमी, हवा बंद, दुर्गाका दम घुटने लगा। अँधेरेमें से किसीकी आवाज़ आई—'यह हिन्दुस्तान है, हिन्दुस्तान!' और फिर अँधेरेमें दूरसे दो लाल रोशनियाँ चमकने लगीं। दुर्गा समझी यह किसी नागिनकी आँखें चमक रही हैं। मगर करीब आई तो उसने देखा कि यह तो लाल भंडे हैं और उनपर हथौड़े और हँसियाका निशान। आपसे आप हवामें उड़े जा रहे थे। अब चारों तरफ़ रोशनी होगई। हजारों लाखों मज़दूर कुछ अजीब ज़बानमें गाते हुए चले जा रहे थे। एक कुँएके अंदरसे आवाज़ आई—'यह रूस है, रूस।' और फिर एकाएक बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। दूरसे बादलोंके गरजनेकी आवाज़ आई। नहीं, यह बादल नहीं गरज रहे थे, तोपें चल रही थीं, बम बरस रहे थे—जैसे उसने सिनेमामें देखे थे। एक बम बिल्कुल दुर्गाके पास आकर गिरा और उसके टुकड़े-टुकड़े होकर हवामें उड़ गए.....।

और अब उसको ऐसा मालूम हुआ कि वह नंगी पड़ी है। नंगी, एकदम नंगी। दुर्गा शर्मके मारे गड़ गई। मगर वह उठने न पाई थी कि

एक डरावना देव आया और एक बहुत बड़े आरसे उसका पेट काटने लगा । मगर जब उसको करीबसे देखा तो दुर्गाके आश्चर्यकी सीमा न रही, क्योंकि वह स्वयं उसका पति नन्दू था । खुशी-खुशी वह उसका पेट काट रहा था और कहता जाता था कि, “लौंडा ले लूँगा, लौंडा ! मुझे लौंडिया नहीं चाहिए ।” और चारों तरफ़ हज़ारों आदमी जमा हो गए और दुर्गाको इस हालतमें देखकर हँसने लगे । एकने कहा, “यह हिन्दुस्तान है—हिन्दुस्तान ।” तो इसपर वह मोटी गुजरातिन बोली, “भाँधीनी को क्यों दोष देती है, उनको तो खुद अंग्रेज़ भूखा मार रहे हैं.....।”

सब लोग गायब हो गए । अब दुर्गाने देखा कि वह मोटी हो गई है— उस बनिपसे भी ज़्यादा मोटी । और उसकी तोंद निकल आई है एक मटके बराबर । और फिर किसिने उसकी तोंदमें सुआ भोंक दिया और उसमें से खून निकलने लगा । इतना निकला कि उसके तमाम कपड़े और शरीरसे खून लथपथ हो गया और उसका पेट पिचककर कमरसे लग गया । कहीं दूर कोई दुर्गाके दिमागके दरवाज़ेको खटखटा रहा था । कुछ लोग बातें कर रहे थे । और बेहोशीके बादलोंमेंसे दूकान घूमती-घूमती निकल रही थी । घूमते-घूमते.....धीरे-धीरे दूकान ठहर गई । सामने हनुमानजीकी तस्वीर पूर्ववत् लटकती हुई थी ।

कमज़ोरीकी वजहसे दुर्गा गरदन भी न मोड़ सकती थी । मगर उसको ऐसा लगा जैसे दूकान आदमियोंसे भरी हुई हो । आवाज़ें पहलेकी तरह आ रही थीं, मगर कोई-कोई लफ़्ज़ ही समझमें न आता था ।

“.....बेचारी.....शायद पहला ही है !.....”

“किसी मज़दूरकी.....मालूम नहीं कहाँ होगा.....”

“चलो हटो;.... तमाशा.....निकालो...”

दुर्गाने अपने पेटमें एक अजीब ख़ालीपन अनुभव किया । हाथ हिलानेकी कोशिश की तो ऐसा मालूम हुआ मानों तमाम कपड़े पानी.....नहीं खून...में लथपथ हैं । और एकाएक उसके दिमागमें एक भयानक ख़याल

बिजलीको तरह कौंध गया ।

“मैंने यहाँ...तमाम दुनियाके सामने बच्चा जना है ! हे भगवान् ! क्या यह बेशरमी मेरी ही किस्मतमें लिखी थी ?” उसका बस चलता तो वहीं ज़मीनमें गड़ जाती । ऐसी बेइज़्जतीसे तो मौत ही अच्छी थी । कमजोरीकी एक लहर आई और दुर्गाने आँखें बंदकर लीं । उसने सोचा, “अब मैं किस तरह यहाँसे जाऊँगी ? सारी दुनिया मेरी तरफ़ उँगली उठाएगी ।”

कई मिनट दुर्गा इसी शर्मिन्दगीके सागरमें डूबी रही । कमजोरी और बेहोशी फिर झा जानेवाली थी कि...

“कै—एँ—एँ—एँ.....”

एक बच्चेके रोनेकी आवाज़ आई । एक बच्चा । दुर्गाका बच्चा । नंदूका बच्चा ।

और, उस नर्हीसी आवाज़ने दुर्गाकी परेशानी और शर्मिन्दगी दूर कर दी । दुर्गाके दिमागपर से कमजोरी और बेहोशीके बादल हट गए । उसने तकलीफ़की परवाह न करते हुए गरदन मोड़ी और देखा कि चीथड़ोंमें लिपटा हुआ एक लाल बोटी-सा बच्चा नन्हा-सा मुँह खोलकर रो रहा है । “भूखा होगा,” यह सोचकर उसने अपने बच्चे को छाती से लगा लिया और अपनी चोली के बंद खोलने लगी ।

और सब लोग मुस्कराते हुए दूकानसे बाहर निकल आए ।

कुछ मिनटके बाद दुर्गा दीवारका सहारा लेती हुई उठी और डगमगाते क़दमोंसे मगर आँखोंमें विजयगर्व लिए हुए बाहर चली गई । एक हाथ से वह गोदमें अपने बच्चेको यामे हुए थी, दूसरे हाथमें थैला और थैलेमें एक पायली चावल ।



अवावील



उसका नाम तो रहीमखाँ था, मगर उस जैसा ज़ालिम भी शायद ही कोई हो। गाँव-भर उसके नामसे काँपता था। न आदमीपर तरस खाए, न जानवरपर। एक दिन रामू लोहारके बच्चेने उसके बैलकी दुममें काँटे बाँध दिए थे तो मारते-मारते उसको अघमुआ कर दिया। अगले दिन ज़िलेदारकी घोड़ी उसके खेतमें घुस आई तो लाठी लेकर इतना मारा कि लहू-लुहान कर दिया। लोग कहते थे कि कमबख्तको खुदाका खौफ़ भी तो नहीं है। मायूम बच्चों और बेज़बान जानवरों तकको माफ़ नहीं करता। यह ज़रूर जहन्नुममें जज़ेगा। मगर यह सब उसकी पीठके पीछे कहा जाता था। सामने किसीकी हिम्मत ज़बान हिलानेकी न होती थी। एक दिन बुन्दूकी जो शामत आई तो कह दिया, “अरे भई, रहीमखाँ, तू क्यों बच्चोंको मारता है।” वस, उस परीबकी वह दुर्गति बनाई कि उस दिनसे लोगोंने बात करनी छोड़ दी, कि मालूम नहीं किस बातपर बिगड़ पड़े। बाज़ लोगोंका ख्याल था कि उसका दिमाग़ खराब हो गया है। उसको पागलखाने भेजना चाहिए। कोई कहता था अबकी किसीको मारे तो यानेमें रपट लिखवा दो। मगर किसकी मजाल थी कि उसके खिलाफ़ गवाही देकर उससे दुश्मनी मोल लेता।

गाँव-भरने उससे बात करनी छोड़ दी, मगर उसपर कोई असर न हुआ। सुबह-सबरे वह हल फाँधेपर घरे अपने खेतकी तरफ़ जाता दिखाई देता था। रास्तेमें किसीसे न बोलता। खेतमें जाकर बैलोंसे आदमियोंकी तरह

चातें करता । उसने दोनोंके नाम रख दिए थे । एकको कहता था नत्थू, दूसरेको छिद्दू । हल चलाते हुए बोलता जाता, “क्यों बे नत्थू, तू सीधा नहीं चलता । यह खेत आज तेरा बाप पूरा करेगा ? और अबे छिद्दू, तेरी भी शामत आई है क्या ?” और फिर उन गरीबोंकी शामत ही आ जाती । सूतकी रस्सीकी मार ! दोनों बैलोंकी पीठपर ज़ख़म पड़ गए थे ।

शामको घर आता तो वहाँ अपने बीबी-बच्चोंपर गुस्सा उतारता । दाल या सागमें नमक कम है, बीबीको उधेड़ डाला । कोई बच्चा शराबत कर रहा है, उसको उखटा लटक़ाकर बैलोंबाली रस्सीसे मारते-मारते बेहोश कर दिया । गरज़ हररोज़ एक आफ़त मची रहती । आस-पासके भोपड़ों-वाले रोज़ रातको रहीमख़ाँकी गालियों और उसकी बीबी और बच्चोंके मार खाने और रोनेकी आवाज़ सुनते, मगर बेचारे क्या कर सकते थे ! अगर कोई मना करने जाए तो वह भी मार खाए । मार खाते-खाते बीबी गरीब तो अघमूर्ख हो गई थी । चालीस बरसकी उम्रमें साठकी मालूम होती थी । बच्चे जब छोटे-छोटे थे तो पिटते रहे । बड़ा जब बारह बरसका हुआ तो एक दिन मार खाकर जो भागा तो वापस न लौटा । करीबके गाँवमें रिश्तेके एक चचा रहते थे, उन्होंने अपने पास रख लिया । बीबीने एक दिन डरते-डरते कहा, “हुलासपुरकी तरफ़ जाओ, ज़रा नूरुको लेते आना !” फिर क्या था, आग बबूला हो गया—“मैं उस बदमाशको लेने जाऊँ ? अब वह खुद भी आया तो टाँगें चीरकर फेंक दूँगा ।”

वह बदमाश क्यों मौतके मुँहमें वापस आने लगा था । दो साल बाद छोटा लड़का बुँदू भी भाग गया और भाईके पास रहने लगा । रहीमख़ाँको गुस्सा उतारनेके लिए बस बीबी रह गई थी, सो वह गरीब इतनी पिट चुकी थी कि उससे भी न रहा गया और मौक़ा पाकर, जब रहीमख़ाँ खेतपर गया हुआ था, वह अपने भाईको बुलाकर उसके साथ अपनी माँके यहाँ चली गई । पड़ोसकी औरतले कह गई कि आएँ तो कह देना कि मैं कुछ रोज़के लिए अपनी माँके पास रामनगर जा रही हूँ ।

शामको रहीमखाँ बैलोंको लिए वापस आया तो पड़ोसने डरते-डरते बताया कि उसकी बीबी अपनी माँके यहाँ कुछ रोज़के लिए गई है। रहीमखाँने जैसा कि वह कभी न करता था, आज खामोशीसे बात सुनी और बैल बाँधने चला गया। उसको यकीन था कि उसकी बीबी अब कभी न आएगी।

अहातेमें बैल बाँधकर भोपड़ेके अन्दर गया तो एक बिल्ली म्याऊँ-म्याऊँ कर रही थी। कोई और नज़र न आया तो उसको ही दुम पकड़कर दरवाज़ेसे बाहर फेंक दिया। चूहेको जाकर देखा तो ठंडा पड़ा हुआ था। आग जलाकर रोटी कौन डालता ? बगर कुछ खाए-पिए ही पड़कर सो रहा।

अगले दिन रहीमखाँ जब सोकर उठा तो दिन चढ़ चुका था। लेकिन आज उसे खेतपर जानेकी जल्दी न थी। बकरियोंका दूध दुहकर पिया और हुक्का भरकर पलंगपर बैठ गया। अब भोपड़ेमें धूप भर आई थी। एक कोनेमें देखा तो जाले लगे हुए थे। सोचा कि लाआ सफ़ाई ही कर डालूँ। एक बाँसमें कपड़ा बाँधकर जाले उतार रहा था कि खपरैलमें अबाबीलोंका एक घोंसला नज़र आया। दो अबाबीलें कभी अन्दर जाती थीं, कभी बाहर आती थीं। पहले उसने इरादा किया कि बाँससे घोंसला तोड़ डाले। फिर मालूम नहीं क्या सोचा, एक घड़ौँची लाकर उसपर चढ़ा और घोंसले में भौंककर देखा। अंदर दो लाल बोटी-से बच्चे पड़े चूँ-चूँ कर रहे थे। और उनके माँ-बाप अपनी औलादकी हिफ़ाज़तके लिए उसके सिरपर मँडरा रहे थे। घोंसलेकी तरफ़ उसने हाथ बढ़ाया। ही था कि मादा अबाबीलने चोंचसे उसपर हमला किया।

“अरी, आँख फोड़ेगी ?” उसने अपना खौफ़नाक क़हक़हा मारकर कहा और घड़ौँचीपर से उतर आया। अबाबीलोंका घोंसला सलामत रहा।

अगले दिन उसने फिर खेतपर जाना शुरू कर दिया। गाँववालोंमें से अब कोई उससे बात न करता था। दिन-भर हल चलता, पानी देता, या खेती काटता लेकिन शामको सूरज छिपनेसे पहले ही घर आ जाता।

हुक्का भरकर, पलंगपर लेटकर अबाबीलोंके घोंसलेकी सैर देखता रहता । अब दोनों बच्चे भी उड़नेके काविल हो गए थे । उसने उन दोनों बच्चोंके नाम अपने बच्चोंके नामपर नूरु और बुन्दू रख दिए थे । अब दुनियामें उसके दोस्त यह चार अबाबील ही रह गए थे । लोगोंको यह हैरत ज़रूर थी कि मुद्दतसे किसीने उसको अपने बैलोंको मारते न देखा था । नत्थू और खिदू खुश थे । उनकी कमरोंपर से ज़छमोंके निशान भी करीब-करीब गायब हो गए थे ।

रीमल्लों एक दिन खेतसे ज़रा जल्दी चला आ रहा था कि कुछ बच्चे सड़कपर कबड्डी खेलते हुए मिले । उसको देखना था कि सब अपने-अपने छोटकर भाग गए । वह कहता ही रहा, “अरे मैं कोई मरता थोड़े ही हूँ !” आसमानपर बादल छाए हुए थे । जल्दी-जल्दी बैलोंको हाँकता हुआ घर लाया । उनको वाँधा ही था कि बादल ज़ोर-से गरजा और बारिश शुरू हो गई ।

अंदर आकर किवाड़ बंद किए और चिराय जलाकर उजाला किया । रोज़की तरह बासी रोटीके तुकड़े करके अबाबीलोंके करीब एक ताक़में डाल दिए । “अरे नूरु ! अरे ओ नूरु !” पुकारा मगर वह न निकले । मगर वह न निकले । घोंसलेमें जो भाँका तो चारों अपने-अपने परोंमें सिर दिए सहमे बैठे थे । ठीक जिस जगह छतमें घोंसला था वहाँ एक सुराख था और बारिशका पानी टपक रहा था । अगर कुछ देर यह पानी इसी तरह आता रहा तो घोंसला तबाह हो जाएगा और अबाबीलें बेचारी बे-घर हो जाएँगी ।—यह सोचकर उसने किवाड़ खोले और मूसलाधार बारिशमें सीढ़ी लगाकर छतपर चढ़ गया । जबतक मिट्टी डालकर सुराखको बंद करके उतरा तो बिस्कुल भीग चुका था । पलंगपर जाकर बैठता तो कई छींके आईं, मगर उसने परवाह न की और गीले कपड़ोंको निचोड़ चादर ओढ़कर सो गया । अगले दिन सुबह उठा तो तमाम बदनमें दर्द और सख्त बुखार था । कौन हाल पूछता और कौन दवा लाता ! दो दिन इसी हालत-

में पड़ा रहा ।

जब दो दिन उसको खेतपर जाते हुए न देखा तो गाँववालोंको चिंता हुई । काख ज़िलेदार और कई किसान शामको उसे भीपड़ेमें देखने आए । भौंककर देखा तो वह पलंगपर पड़ा आप ही आप बातें कर रहा था, “अरे बुन्दू, अरे वूरू ! कहाँ मर गए ! आज तुम्हें कौन खाना देगा ?” कुछ अवाबीलें कमरेमें फड़फड़ा रही थीं ।

“बेचारा पागल हो गया है ।” काख ज़िलेदारने सिर हिलाकर कहा । “सुइहको शफ़ाखानेवालोंको पता दे देंगे कि पागलखाने भिजवा दें ।”

अगले दिन सुबह जब उसके पड़ोसी शफ़ाखानेवालोंको लेकर आए और उसके भीपड़ेका दरवाज़ा खोला तो वह मर चुका था । उसके पाँयते चार अवाबीलें खामोश बैठी थीं ।



मेमार*



बुंदू मेमार खुश था। आज उसका इकलौता बेटा इब्राहीम अपनी बीबी यानी बुन्दूकी बहूको रखत कराके घर ले आएगा। आजसे उसके अंधेरे घरमें बहूके आनेसे चाँदना हो जाएगा। शायद उसके कदमोंकी बरकतसे बुन्दूकी क्रिस्मत भी जाग उठे और क्या ताज्जुब बुन्दूको रोजगार फिर नसीब हो जाए।

बुंदू मेमार आज खुश था। पूरे पाँच सालके बाद उसके भुर्रियों-भरे चेहरेपर मुस्काहटकी भलक नज़र आई थी। आज तो उसे हुक्केके धुँएँमें भी नया लुत्फ हासिल हो रहा था। अपने टीनके भोपड़ेके सामने दरखतकी छाँवमें बैठा वह भोली-भाली भटियारीके महलके पीछे सूरज डूबनेका तमाशा देख रहा था। लाल-लाल, गुलाबी-गुलाबी, नीले-नीले, बादल आसमानपर छाए हुए थे जैसे उसकी बहूका चपदार दुपट्टा जो आज ही वह रंगरेज़के यहाँसे रंगवाकर लाया था। दुपट्टा घटिया मोटी मलमलका था। सूसीका पायजामा, जापानी नकली रेशमका कुरता, चाँदीके दो कड़े हाथोंके लिए,—बस, यही तो कुल सामान था जो वह अपनी बहूके रखसतीके जोड़ेके लिए मुहय्या कर सका। आज अगर वह बे-रोज़गार न होता तो क्या ऐसा घटिया जोड़ा और चाँदीका सिर्फ़ एक ज़ेवर देता अपनी बहूको ? कुछ नहीं तो अतलसका पायजामा, बनारसी कामका दुपट्टा, सोनेकी बालियाँ, सोनेके कड़े और चाँदीके भाँजन तो ज़रूर ही बनवाता। आखिर एक ही बेटा तो था उसका। आज

* मेमार : मकान बनानेवाला।

उसकी माँ अगर जिन्दा होती तो क्या.....

सूरजके साथ लुंदके चेहरेकी मुस्काहट भी बड़ते हुए अँधेरेमें डूब गई । उसकी बीबीको मरने बारह बरस हो चुके थे, फिर भी उसकी याद आते ही लुंदकी आँखें डबडबा आती थीं । कितना चाव था उसको अपने बेटेके ब्याहका ! काश, आज वह जिन्दा होती !

थोड़ी देरतक लुंद खामोश बैठा सोचता रहा । फिर जब दूसरे भोपड़ोंमें चिराय जलने लगे तो उसको खयाल आया कि उसका घर अँधेरा पड़ा है । अब उसका बेटा बहूको लेकर आनेवाला ही होगा । ऐसे मीकेपर घरमें रोशनी का न होना शायद अपशगुन हो । यह सोचकर वह उठा और अंदर जाकर कड़वे तेलका चिराय जलाया । आज उसने अपने घरको खास तौरपर साफ़ किया था । घर क्या था, चार दीवारोंके बीच बारह फुट वर्गाकार कच्ची ज़मीन धिरी हुई थी । ऊपर टीनकी छत जो गरमीके दिनोंमें तपने लगती थी, बरसातमें टपकती थी और जाड़ोंमें ठंडी बर्फ़ हो जाती थी । ऐसे ही कोठरीके भोपड़ोंमें लुंदके सब पड़ोसी रहते थे । उनकी यह आवादी नई दिल्लीसे मील-भर दूर पहाड़ीपर थी । पाँच बरस पहले तक वह सब आठवीं दिल्लीको बनानेके काममें लगे हुए थे । मगर जब शहर बनकर तैयार हो गया तो वह सब बेकार हो गए । फ़ाकोपर नौबत आ गई । लुंद खानदानी मेमार था । अपने काममें होशियार । उसके बाप-दादोंने लाल क़िला और जामा मस्जिद ऐसी इमारतें बनाई थीं, लुंदने वाइसरीगल लाज और असे-भ्वली चेम्बर । फिर भी वह अब छोटै-छोटै मकानोंके बनानेके काममें चूना गाया उठानेकी मजदूरी करनेपर मजबूर था । अब सबसे लड़ाई शुरू हुई थी तो लोहै लकड़ी और सीमेन्टकी क्रीमलें बढ़ जानेकी वजहसे बेटेने एक ठेकेदारके मकानपर बैरैकी हैसियतसे नौकरी कर ली थी । उसीकी तनख्वाहसे गुज़ारा होता था । कितना दुख हुआ था लुंदको जब उसके बेटेने यह नौकरी करना मंज़ूर किया था । लुंद मेमारका बेटा, और नौकरी ! माना कि उसको दस रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी और खाना मुफ़्त । और इससे

ज्यादा तो आजकल मेमारोंको भी कहाँ नसीब था । मगर एक मेमार फिर एक मेमार ही होता है । कारीगर, अपने फ़नका माहिर, अपने वक़्त, अपने हाथ-पाँव, अपने दिल और दिमाग़का मालिक । जहाँ जी चाहे काम करे । जिस वक़्त जी चाहे काम करे । वह किसीका नौकर नहीं कि कोई उसके ऊपर रोब जमाए । बुंदूको खानदानी मेमार होनेपर फ़ख़ था । कितना अहम काम था उसका ! उसकी ज़रा-सी ग़फ़लतसे दीवार टेढ़ी रह जाए तो पूरी इमारत बदनुमा मालूम होने लगे । वह और उस जैसे मेमार ही तो इंजीनियरोंके नीले नक़शोंको खूबसूरत और शानदार इमारतोंमें तबदील करते थे । ईंट और गारे और चूनेसे ताज़महल जैसा हुस्न, कुतुबमीनार जैसी अज़मत, जंतर-मंतर जैसी हिकमत पैदा करते थे । नक्क़ाशा अपनी तस्वीरोंमें रंग भरकर शाहकार बनाता है, बुत-तराश पत्थरकी मूर्तियोंमें जान डालता है, गवैया अपने सितारके तार छेड़कर महफ़िलके दिलमें हलचल मचा देता है, उसी तरह मेमार मेहराबों और स्तम्भों, दीवारों और दरवाज़ों, खिड़कियों और भरोखों, जालियों और कटहरों, मीनारों और गुंबदों, कलसों और कंगूरोंके द्वारा सौंदर्यका निर्माण करता है । और आज एक ऐसे मेमारका वेटा दिन-भर एक जाहिल, बदतमीज़ ठेकेदारकी खिदमत करनेपर मजबूर है ।

बुंदू आर्थिक समस्याओंके बारे में कुछ न जानता था । राजिनीतिसे उसे कोई लगाव न था । उसको यह शिकायत भी न थी कि वह नई दिल्ली सात समुंदर पारवाले फिरंगियोंके लिए क्यों बसाई गई है । उसको दुःख था तो यह कि मेमारोंकी अब कोई क़दर करनेवाला न रहा था । उसका जैसा होशियार मेमार बे-रोज़गार हो,—आखिर क्यों ?

वह इसी उधेड़-बुनमें था कि दरवाज़ेके बाहर किसीके ख़ाँसनेकी आवाज़ आई ।

“अरे भई बुंदू ! कहो, बहू आ गई ?”

“आओ चचा खैरुद्दीन, अंदर आओ । बहूको लेने गया है इब्राहीम । अब आता ही होगा ।”

चचा खैरुद्दीन, जिनके बारेमें यह मशहूर था कि शाहजहाँकी सब इमारतोंकी नींवका पत्थर उन्होंने ही रखा था, लाठी टेककर अंदर दाखिल हुए। वह मेमारोंमें सबसे बड़े थे और अपनी विरादरीके सरपंच, गुरु, नेता, सब-कुछ समझे जाते थे।

“चलो, अन्धा हुआ। इबाहीमकी बहू आ जाएगी तो तेरे खाने-खुश्क़े-की तो खबर रखेगी। मगर बुंदू....” यह कहकर चचा खैरुद्दीन रुक गए, गोया कुछ कहते हुए भिन्नकते हैं।

“कहो, चचा !”

“भई, कहना क्या था। ऐसे ही छयाल आया था कि पूछ लूँ कि रातको तू कहाँ सोएगा।”

“मैं कहाँ सोऊँगा ? क्यों ?” और फिर एकाएक बुंदू चचा खैरुद्दीन-का इशारा समझ गया। आज उसका बेटा अपनी बीबीके साथ पहली रात बसर करेगा। और उनके घरमें सिर्फ़ यह एक कोठरी बारह फुट चौकोर। कमसे कम आजकी रात तो दूबहा-दुलहनको एकांत चाहिए।

“फिर मत कर। तू मेरे ‘हाँ पड़ रदियो।’ यह कहकर चचा खैरुद्दीन कुछ खिसियानी-सी ख़ाँसी ख़ाँसते हुए चल दिए, गोया हमदर्दीके इज़हारसे घबराते हैं।

“नहीं, मैं चचा खैरुद्दीनके यहाँ नहीं जाऊँगा।” बुंदूने दिल-ही-दिलमें कहा। “विरादरीवाले मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। मैं कहीं और पड़ रहूँगा।” यह सोचकर उसने अलगनीपर से अपनी गाढ़की चादर उतारकर कंधेपर डाल ली। सरदी चमक रही थी। “कहीं तिर छुपाने की जगह मिली तो यही ओढ़कर लेट रहूँगा। एक रातही की तो बात है।”

इतनेमें उसका बेटा अपनी बीबीको लेकर आ गया। वह उसका दिया हुआ जोड़ा पहने हुए, घूँघट निकाले खड़ी थी। बुंदूकी समझमें नहीं आ रहा था कि इस नई दुलहनसे क्या बात करे !

“क्यों भई इबाहीम, आ गए तुम लोग ?” उसने खामोशी तोड़नेके

लिए बेकार-सा सवाल किया और बैर जवाबका इंतजार किए हुए कहा, “अच्छा तो तुम आराम करो, मैं कहीं और सो जाऊँगा।” और वह भोपड़ीसे बाहर चला गया।

नई दिल्लीका शहर मीलोंतक जगमगा रहा था। पहाड़ीपरसे बुंदूको ऐसा मालूम हुआ जैसे काले संगमरमरके फ्रंशपर किसी मेमारने हीरोको जड़ दिया हो। “इतने बड़े शहरमें,” उसने सोचा, “क्या एक आदमीको रात बसर करनेकी जगह नहीं मिल सकती? कोई कमरा-कोठरी नहीं, तो किसी बरामदेहीमें पड़ रहूँगा।”

नई दिल्लीके रास्ते बुंदूको खूब याद थे। आखिर क्या यह उसके अपने हाथोंसे बनाया हुआ शहर नहीं था? वह हर इमारतसे वाकिफ था। यह है वाइसरीगल लाज, लाट साहबके रहनेका मकान। उसमें कई सौ कमरे हैं। हर कमरा इतना बड़ा कि उसमें बुंदू जैसी दस कोठरियाँ आ जाएँ। गुसलखाने—संगमरमरके, दरजनों। वह भी तो किसी कमरेसे छोटे नहीं। और क्या फ्रंश हैं चिकने और चमकते हुए, चाहे तो खाना बिखेरकर खा लो। नाचनेका बड़ा कमरा, चारों तरफ आईने ही आईने और लकड़ीके फ्रंशपर ऐसा पालिश कि वह भी आईना ही मालूम होता है। उसीपर तो साहब लोग और उनकी भेमें नाचती हैं।

भगर आज वाइसरीगल लाजमें अँधेरा पड़ा हुआ है। हाँ ठीक, याद आया। बड़े दिनोंकी छुट्टियोंमें लाटसाहब कलकत्ते जाते हैं ना! तो यह इतना बड़ा महल खाली पड़ा है। सैकड़ों कमरे, कमरेसे बड़े गुसलखाने, मीलों लंबे बरामदे, आईने जैसे फ्रंशवाला नाचनेका कमरा सब खाली। क्या इसके नौकरोंके रहनेवाले हिस्सेमें किसी गोदामकी कोठरी, किसी बरामदेमें भी बुंदू मेमारको थिर छिपानेकी जगह नहीं मिल सकती? वाइसरीगल लाजके सदर दरवाजेके पास बुंदूको लकड़ीकी काबुकनुमा एक कोठरी नज़र आई। शायद यही खाली पड़ी हो, वह रात यहाँ ही बसर कर सके। भगर वह उधर बढ़ा ही था कि उस काबुकमेंसे एक बड़ी मूँछोंवाला

सिपाही निकला और बुंदूको देखकर ललकारा, “कौन है ?” और फिर करीब आकर कहा, “अबे उचकके ! यहाँ क्या सूँघता फिर रहा है ? क्या लाटसाहबकी कोठरीमें सेंध लगानेका इरादा है ?” बुंदू वहाँसे चुपके सरक आया । अपनी इज़्जत अपने हाथ है ।

नई दिल्लीकी सड़कें हरतरफ़ फैली हुई थीं । चौड़ी साफ़-सुथरी सड़कें । बुंदूके मकानका फ़र्श भी ऐसा नहीं था । बिजलीकी रोशनीसे रातपर दिनका गुमान होता था । मगर बिजलीकी रोशनीमें गरमी भी तो नहीं होती जो बुंदू किसी बत्तीके नीचे खड़े होकर अपने ठिठुरे हुए हाथ ही सेंक लेता । डाकखानेके घंटेने दस बजाए । अब वह सड़कीं मारे काँप रहा था । बुंदू तेज़ीसे चलने लगा ताकि बदनमें कुछ गरमी आ जाए, मगर हवा इतनी ठंडी थी कि मालूम होता था कि उसकी हड्डियोंमें कोई बर्कके भाले चुभो रहा हो ।

उसके दिमागमें वाइसरीगल लाजका नक़शा घूम रहा था । एक आदमीके रहनेका मकान । हाँ, लाट भी तो एक आदमी ही होता है । फिर उसके लिए कई सौ कमरोंकी क्या ज़रूरत है ? और, एक-एक कमरा इतना बड़ा कि जिसमें मेमारोंकी सारी बस्ती समा जाए । दरजनों गुसलखाने, मीलों लम्बे बरामदे, नाश्तेका कमरा अलग, दोपहरके खानेका अलग, और वह शीशे जैसे फ़र्शवाला नाचका कमरा,—एक आदमीके लिए यह सब कुछ; और बुन्दू मेमारके लिए जिसने अपने हाथोंसे उन सब इमारतोंको बनाया था रात गुज़ारनेको एक कोठरी भी नहीं ? उम्रमें पहली बार बुन्दूके दिमागमें एक बाधियाना सवाल घूम रहा था—“क्यों ? क्यों ? क्यों ?”

इसी तरह चलते-चलते बुन्दूने दिल्लीकी सारी सड़कें तय कर डालीं, मगर कहीं सिर छुपानेका ठिकाना न मिला । जब सड़कोंकी रोशनियाँ पीछे रह गईं तो बुन्दू एकाएक रुक गया । यह सामने कौन-सी आलीशान इमारत है जो चाँदनी रातमें चमक रही थी । अब उसको याद आया कि यह वो हुमायूँका मक़बरा है । शायद उस दरवाज़ेके किसी कोनेमें पढ़ रहनेकी

जगह मिल जाए। बूंदूकी थकी हुई टाँगोंमें फिर जान आ गई और वह और जल्दी-जल्दी क्रम बढाता हुआ मकबरेकी तरफ चला। मगर दरवाज़ेमें दाखिल भी नहीं हुआ था कि एक चपरासीने डोंट दिखाई, “अबे कौन है तू ? निकल सले यहाँसे, नहीं तो एक रसीद करता हूँ।”

अब बूंदूमें इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि उससे बहस करता या उसकी खुशामद ही करता। वह उल्टे पैरों वापस हो गया। फिर नई दिल्लीकी तरफ चल दिया। अब उसके दिमागमें दोहरा कोलाहल मचा हुआ था। बादशाद मर भी जाए तो उसकी मुर्दा हड्डियोंके लिए इतना बड़ा महल चाहिए ? और मेरी ज़िन्दा हड्डियोंके लिए एक कोठरी भी नहीं ? आखिर यह हुमायूँका मकबरा किसने बनाया था ? मेरे बाप-दादाने । और आज मुझे यहाँसे कुत्तेकी तरह दुतकारकर निकाल दिया...क्यों ? आखिर क्यों ?...लाट साहबका महल...तीन-चार सौ कमरे...चाय पीनेका कमरा अलग... सिगरेट पीनेका कमरा अलग...शराब पीनेका कमरा अलग... और एक बादशाह...जिसको मरे हुए कई सौ बरस हो गए...उसकी कब्रके लिए भी महल चाहिए। और बूंदू मेमारके लिए कुछ भी नहीं ? आखिर क्यों ? क्यों ? क्यों ?

जब टाँगोंने चलनेसे जवाब दे दिया तो सड़कके किनारे ही बूंदू चादर लपेटकर लोट गया। नींद सूलीपर भी आ जाती है। बर्फके भाले चुमते रहे, मगर बूंदू सो गया।

सुबह पहाड़ीके पीछेसे सूरजने मुँह निकाला और नई दिल्लीपरसे कुहरेका नकाब हटाया। सूरजकी किरणों वाइसरीगल लाजपर पड़ीं, मगर उसकी फयरकी दीवारोंको तोड़कर आगे न बढ़ सकीं। एक काल-देवकी तरह वाइसरीगल लाजका साया रंगता हुआ आया और बूंदू मेमारकी टिटुरी हुई खाशको रौंदता हुआ आगे बढ़ गया।



राधा

राधा आज कितनी खुश थी। दिवालीके दिन हमेशा उसके नाचके मतवालोंकी अवाधारण भीड़ होती थी। कमसे कम सौ रूपए आमदनीकी उम्मीद थी। इस अवसरके लिए उसने एक बिल्कुल नया पुजारिनका नाच सोच रखा था और उसे विश्वास था कि वह सबको पसंद आएगा।

राधाने अपना लँहगा ऊपर सरकाया और गोरे-गोरे मुडौल टखनों पर घुँघरू बांधने लगी। साथ-साथ वह गाना भी गुनगुना रही थी जो आजके मुजरेमें वह गानेवाली थी। दूसरे कमरोंमें साज़िन्दोंने अपने-अपने साज़ोंको छेड़ना शुरू कर दिया था। राधाका शरीर संगीतका अनुसरण करनेका इतना आदी हो गया था कि नाचकी गत सुनते ही उसकी तालपर अनायास ही धीरे-धीरे नाचना शुरू कर देता। बचपनसे उसको नाचनेका शौक था। नाच ही उसका मज़हब था, नाच ही उसकी ज़िन्दगी। नाचते वक्त वह अपने सारे दुःखों—सारी तकलीफों को भूल जाती थी। जैसे ही साज़िन्दोंने अभ्यासके लिए एक चुलबुले नाचकी गत बजानी शुरू की राधाके दोनों पाँव ज़मीनपर तालके साथ पड़ने लगे—छुन, छुन, छुन, छुना, छुन; छुन, छुन, छुन, छुना छुन।

“राधा, राधा बेटा !” हाँपते-काँपते, पसीनेमें भीगे हुए उस्तादजी कमरेमें दाखिल हुए। मालूम होता था बड़े मियाँ ज़मीनपर तीन-तीन सीढ़ियाँ एक-एक छँलागमें नाँधते हुए आ रहे थे।

“क्या है उस्तादजी !” राधाने मुस्कराकर पूछा। वह उस बड़े गवैये को बहुत चाहती थी जिसने उसे बचपनमें नाचना और गाना सिखाया।

या श्रीर जो उस वक्तसे राधाका पिता, मित्र, शुभचिंतक और दलाल सब कुछ रहा था।

“राधा !” उस्तादजी सॉसको काबूमें लाते हुए बोले, “आज लंछमी सचमुच हमारी तरफ देखकर मुस्कराई हैं।”

“क्या हुआ उस्तादजी ? आखिर कुछ बताओगे भी ?”

“यहाँ तो मैं कह रहा हूँ। आज जलपुरके राजा साहब हमारे यहाँ मुज्जेमें आ रहे हैं राजा साहब जलपुर ! कुछ समझी !”

“जी हाँ !” राधाने अबसरके महत्त्वका रोव खाते हुए जवाब दिया। “मगर इन राजा साहबके बारेमें कुछ तो बताइए। क्या, बूढ़े हैं राजा साहब ?”

“बूढ़े !” उस्तादजीने यह शब्द इतने तिरस्कारसे कहा मानो बुढ़ापा तो दुनियामें सिर्फ़ उनका ही हक़ था। “बूढ़े ! भई कमाख़ कर दिया ! अरे इन राजा साहबकी तो पैदाइश मुझे ऐसी याद है कि जैसे आजका दिन। इनके स्वर्गीय पिता, राजा साहब ने जो जलसा बेया होने की खुशी में किया था वह भी याद है। हा—हा—हा, क्या शानदार जलसा था ! कुछ नहीं तो पूरी छः टोखियाँ होंगी। राजा साहब की उम्र पन्चीस-छब्बीससे ज़्यादा तो हरगिज़ न होगी। अभी पाँच ही बरस तो हुए उनकी शादी को। तुम्हें याद नहीं ? तुम्हारी बेचारी माँ भी तो गई थी उस मौक़ेपर नाचने ! मगर, हाँ, तुम तो जब बहुत ही कम उम्र थीं इसलिए तुम्हें.....।

उस्तादजीका वाक्य अधूरा ही रह गया क्योंकि उन्हें एकाएक अपनी चलतीका आभास हो गया था। उनको राधाकी माँका ज़िक्र न करना चाहिए था। माँके मरनेका राधाको बहुत दुःख था। छः महीने तक तो वह अधमरी हो गई थी। किसी बातका होश ही न रहा था। नाचना भी भूल गई थी। कुछ महीनोंसे उस्तादजी उसका जी बहलानेमें किसी हदतक कामयाब हुए थे। मगर अब भी कोई भूलसे बातचीतमें उसकी माँका ज़िक्र कर देता तो राधा एकाएक दुःखके अथाह सागरमें डूब जाती थी।

“बेटा...बेटा...!” उस्तादजी अपनी रलतीको मिठनेकी कोशिशमें हकलाने लगे । “श्रोओ मत । मुझे यह जिक्र ही नहीं छेड़ना चाहिए था । अच्छा, अब अँधू पोंछ डालो । देखो, आज दीवालीकी रात है । अब बल्दी तैयार हो जाओ, राजा साहब आने ही वाले होंगे ।”

एक साजिन्दा घबराया हुआ आया, “राजा साहब आ रहे हैं ।”

राधाने अपने अँधू पोंछ डाले और अपनी हिचकियोंको घोंट दिया । यह रोने-धोनेका समय नहीं है और एक नाचनेवाली वेश्याको कब यह अधिकार है कि वह अपने दुःखको प्रकट करे ?—यह सोचकर वह अपनी लाचारीपर खुद ही मुस्कराई । ऐसी मुस्कराहट जिसमें दुःख ही दुःख था ।

राजा साहब जलपुर एक लंबे डीलडौलका नौजवान था । राजपूती शान उसके चेहरे और टेढ़े साफ़ेसे टपकती थी । उसके बात करनेके ढंग और बर्तावमें एक तरहकी सादगी और बेतकल्मुक्ती थी । दौलत और ताक़त इंसानको मामूली तकल्मुक और भिभकसे मुक्त कर देते हैं । मसनद-पर बैठे हुए वह नाचती हुई राधाको निर्लज्ज दृष्टिसे देख रहा था । उसकी अनुभवी आँखें जिन्होंने दुनिया देखी थी—राधाके शरीरकी बोटी-बोटीको टटोल रही थीं, परख रही थीं, दौलतके तराजूमें तोल रही थीं । उसके काले चमकीले बाल जिनको नागिन जैसी लहराती चोटीमें गुँथा गया था, उसका झुंध कर लेनेवाला लंघा चेहरा, और गुलाबी होंठ जो प्यार करनेके लिए ही बनाए गए थे, उसका सीना जिसमें यौवनकी लहरें हिलोरें ले रही थीं, उसकी पतली कमर जो चोली और लहंगेके बीच चमक रही थी, उसके सुडौल गोरे-गोरे टखने जो नाचके बीचमें अक्सर खुल जाते थे । राजाकी आँखोंने इन सब चीज़ोंकी क्रीमत लंगई और मन ही मन उसका सूख आँककर निर्णय कर लिया कि इस हज़ारमें भी यह सौदा बुरा नहीं है । और संभव है खरीदनेकी ज़रूरत ही न पड़े, किराए पर मिल जाए । औरतके शरीरकी क्रीमत भी तो किरातोंमें अदा की जा सकती है । राजाने अपनी उम्रमें हर जाति और वर्णकी औरतोंके शरीर खरीदे थे । स्वयं उसकी पत्नी

बहुत रूपवती थी। मगर राजा नई चीज़का क्रायल था। हर साल अपनी मोटर बदलता और मोटरके साथ-साथ.....

राधाने नाच खतम किया तो उसकी प्रशंसा करनेके लिए कमरेमें राजाके अतिरिक्त कोई न था। और सब तमाशाईं राजाके सेक्रेटरीका संकेत पाकर धीरे-धीरे उठ चुके थे। और लोगोंको न देखकर राधाको कुछ निराशा हुई; क्योंकि वह हमेशा एक समूहके सामने नाचना चाहती थी, उनकी प्रशंसा और “वाह वाह” की वह इच्छुक थी। इतने आदमियोंको अपने नाचसे खुश करके उसको भी खुशी होती थी। यही उसका इनाम था और यही उसके जीवनका सबसे प्रकाशमय भाग। इसीसे उसका उत्साह बढ़ता था और दिन-प्रतिदिन अच्छा नाचनेकी उमंग दिलमें पैदा होती थी। उसके कौन्सलर तो वीस-पच्चीसका ही जमाव होता था। अगर बाहर किसी शादी-ब्याहके जलसेमें वह जाती तो दो-तीन सौ आदमी उसका नाच देखनेके लिए जमा हो जाते थे। मगर राधा तो चाहती थी कि हज़ारोंकी भीड़ हो और उसमें वह नाचे, और ऐस नाचे कि हरएक उसकी कला-निपुणताका प्रशंसक हो जाए और हॉल या मंडप तालियोंसे गूँज उठे।

“वाह, वाह ! बहुत सुंदर !” हज़ारों तालियोंके शोरके बजाय सिर्फ़ राजाकी तालियोंकी आवाज़ खाली कमरेमें अजीब मालूम हुई। मगर आदतके अनुसार राधाने मुस्कराकर और हाथ जोड़कर राजाको धन्यवाद दिया। पानकी थाली पेश की। राजाने पानका बीड़ा मुँहमें रख लिया और जेबसे बी रुपयेका नोट निकालकर थालीमें रख दिया। राधाने फिर सलाम किया और अदबसे आँखें झुकाकर, जैसा कि उस्तादजीने उसे सिखाया था, बैठ गई।

“तुम्हारा नाम क्या है ?” राजाने सवाल किया।

“राधा।”

“जैसी सुंदर हो वैसा ही सुंदर नाम भी है।” राजाने बिना किसी शर्म या झिझकके कह दिया। और दिलमें सोचा, “आवाज़ भी अच्छी है।”

राजाने केवल हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि तीन साल विलायतमें रहकर वहाँकी भी अत्यंत सुन्दरी स्त्रियोंको देखा था। मगर राघामें कुछ और ही आकर्षण था। कमसे कम उस समय तो उसकी नज़रमें राघाके सामने तमाम दुनियाकी औरतें हैय थीं।

“कहो राघा, मैं पसंद हूँ ?” राजा जानता था कि इस वर्गकी औरतोंतें ऐसी बेतकल्लुफ़ीसे बात-चीत करनेमें कोई हर्ज़ नहीं है।

साज़िन्दे अपने-अपने साज़ सँभालकर दूसरे कमरेमें चले गए—अनुभवी नायकोंकी तरह जो जानते हैं किस वक़्त रंगमंच छोड़ देना चाहिए।

“हाँ राजासाहब। मगर मैं भला किस क़ाविल हूँ !” राघाने शिष्टतासे जवाब दिया। अमीर आदमियोंसे इसी तरह बात करनी चाहिए, यही उस्तादजीने सिखाया था। अगर कोई नीचे दर्जेका आदमी ऐसा प्रश्न करनेका साहस करता तो थप्पड़ खाता।

“तो फिर क्या मेरे महलमें रहना पसंद करोगी ?” राजाने मतलबकी बात कही।

राघाको इस सवालका जवाब देनेकी इजाज़त नहीं थी। अपने पेशेके कठोर नीति-नियमोंके अनुसार वह शरमाई, उस्तादजीकी तरफ़ सहायता और परामर्शके लिए देखा और एक आदासे पल्लू सँभालती हुई बमरेसे बाहर चली गई।

“क्यों नहीं, क्यों नहीं, राजासाहब !” उस्तादजीने जल्दीसे कहना शुरू किया, एक ऐसे दूकानदारकी तरह जिसको डर हो कि कहीं गाहक़ नाराज़ होकर न चला जाय। “यह तो राघाकी खुशकिस्मती है, उसके भाग जाग उठे हैं !”

राजाने अपने सेक्रेटरीसे कुछ बातें कीं और फिर “अच्छा,—मैं जाता हूँ,” कहता हुआ ज़िन्नेसे नीचे उतर गया। अब सेक्रेटरी और उस्तादजीमें कारोबारकी बातें शुरू हो गईं।

एक घंटे बाद राघाको मालूम हुआ कि पाँच सी रुपए माहवारपर

उसे राजाके हाथ “बेच” दिशा गया है। राधाको इस खबरसे न कोई खास खुशी हुई, न रंज। कमसे कम राजा ऐसा बदसूरत तो न था। जैसा वह मोटा और बदनदार ज़मींदार, जिसे राधाका पहला ग्राहक होनेका सीमाग्य प्राप्त हुआ था।

अगले दिन राधा अपने सब साज़-सामानके साथ राजाके महलमें उठ गई। उस रात राधाका कोठा वीरान और अंधेरा पड़ा रहा और बाज़ार-वालोंने राधाके श्रृंगारोंकी सुरीली आवाज़ न सुनी।

तीन महीने बाद.....

एक सजे हुए कमरेमें राधा अपने विचारोंमें खोई हुई बैठी थी। यह कमरा राजाने खासतौरसे राधाके लिए सजाया था, मगर, इस समय उसकी माम सजावटपर हल्के-हल्के अंधेरेका आवरण पड़ा हुआ था। बाहर सूरज डूब रहा था। पश्चिमकी तरफ पहाड़ियाँ स्याह देव मालूम होती थीं। पेड़ोंके साये धीरे-धीरे बढ़ते हुए तमाम ज़मीनपर छा रहे थे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ रहा था, राधाके चेहरेपर भी सोच और चिन्ताका गहरा रंग चढ़ता जा रहा था।

तीन महीनेमें पहली बार उसे सोचने और अपनी दशापर विचार करनेका अवसर मिला था। वह अपने बीते हुए दिनोंके बारेमें सोच रही थी। अपनी जैसी सब औरतोंकी तरह वह वास्तविकतासे परिचित थी और अपने भाग्यपर उसने संतोष कर लिया था। उसे मालूम था कि वेश्याकी संतानका समाजमें क्या स्थान है, और यद्यपि वह इस तिरस्कारको अनुभव करती, मगर समाजसे लड़नेका उसमें न साहस था और न इच्छा ही। वेश्याकी संतान शहरकी सबसे अच्छी नाचनेवाली ही क्यों न हो, वह वेश्या ही रहेगी।

इस आजन्म बन्धनसे कोई छुटकारा न था, और फिर राधा औरोंकी अपेक्षा बहुत आराम से थी। एक जवान, स्वस्थ राजाकी दाशता होना इससे तो हज़ार दर्जे अच्छा था कि वह बाज़ारमें बैठकर हर रातको एक नए

गाहकके हाथ अपना शरीर बेचे । यहाँ राजाके अतिरिक्त किसीकी मजाल न थी कि राधाकी तरफ़ आँख उठाकर भी देखे । रही प्रेम और विवाह, और गृहस्थ-जीवनकी इच्छा—जो प्रत्येक स्त्रीके दिलमें होती है चाहे वह वेश्या ही क्यों न हो—सो उस इच्छाको हमेशा अपने दिलके अँधेरे कोनेमें दबाकर रखना चाहिए; क्योंकि उसके भाग्यमें यह सुख नहीं लिखा था । उस्ता-दजीने उसे बताया था कि मनुष्य भगवानसे नहीं लड़ सकता और जिस दशामें भगवानने उन्हें जन्म दिया है, उसको बदलनेका प्रयत्न करना सबसे बड़ा पाप है ।

मगर, आज न मालूम क्यों राधाके दिलमें एक बेचैनी-सी थी । उसके हृदयमें अनेक इच्छाएँ उठ रही थीं—निरर्थक और अप्राप्य । काश, मैं भी एक विवाहित औरत होती ! काश, मैं भी एक माँ होती ! काश, समाजमें मेरे लिए भी एक इज़्जतकी जगह होती ! उस वक्त वह अपनी वर्तमान परिस्थितिकी कुल सुख-सामग्री न्योछावर करनेके लिए तैयार थी । स्त्रीके हृदयोद्धार और मनोभाव जो समाज, धर्म और नियमसे भी प्राचीन और पुष्ट थे, आज फिर विद्रोहपर प्रस्तुत थे ।

राधाकी बेचैनीका कारण जलपुरकी रानी थी । उसीने उसकी यथार्थ-दर्शिताको विचलित कर दिया था ।

जबसे वह राजाके महलमें आई थी राधाने रानीके अनुपम सौंदर्यकी प्रशंसा सुनी थी । वह अक्सर सोचती थी, “आखिर इतनी खूबसूरत बीबी घरमें होते हुए राजा साहब मुझ जैसी बाज़ारू औरतके पीछे क्यों फिरते हैं ?” (उसको मालूम न था कि दीलतवालोंके शौक भी निराले होते हैं । वह घरका अच्छा खाना छोड़कर स्वाद परिवर्तनके लिए अक्सर होटलमें खाना खाते हैं ।) कई बार राधाने राजासे कहा कि वह ज्ञानानखानेमें जाकर एक बार रानीको देखना चाहती है । मगर हर बार किसी न किसी बहानेसे राजाने उसको टाल दिया—“प्यारी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे । मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रेममें किसी तीसरेका नाम भी बाधक

हो ।” मगर इन बातोंसे राधाको शांति न हुई, बल्कि रानीको देखनेकी इच्छा बढ़ती ही गई । आखिरकार उसने एक दिन बूढ़ी लक्ष्मीसे अपनी इच्छाका जिक्र किया । लक्ष्मी राजाके घरकी पुरानी नौकरानी थी और उसको विशेष-रूपसे राधाकी सेवाके लिए नियुक्त किया गया था । जब राधाने बहुत हठ किया तो वह तैयार हो गई और एक दिन जब राजा शिकारपर गया हुआ था वह राधाको फटे-पुराने कपड़े पहनाकर ज़नाने महलमें ले गई । एक सजे हुए डालानमें बीच मसनदपर रानी विराजमान थी—सौंदर्य, शासन और अभिमानकी मूर्ति । राधा कोनेमें अदबसे लक्ष्मीके पास खड़ी हो गई । किसीने उसको पहचाना नहीं था । जिसने देखा भी वह यही समझी कि लक्ष्मी अपनी किसी माँजी-भतीजीको रानी साहिबके दर्शन कराने लाई है । राधा यह सुनकर मुस्करा दी कि उस सभामें उसीकी चर्चा हो रही था ।

“रानीजी,” एक झुंझकी दासी कह रही थी, “आप इस कलमेंही राधाको क्यों नहीं निकलवा देती ? इस चुड़ैलने तो राजा साहबको बिल्कुल अपना कर रखा है ।”

रानीने बातका जवाब दिए बगैर कहा, “मैंने सुना है कि वह है काफ़ी ख़ुबसूरत !”

“आपकी तो वह ज़ूतीका भी मुकाबिला नहीं कर सकती ।” एक खुशामदी औरतने जल्दीसे कहा ।

“मगर क्या आपको उससे ईर्ष्या नहीं होता ?” करीबके एक ज़र्मीदार की बीबीने सवाल करनेका साहस किया ।

रानीका जवाब तेज़ छुरीकी तरह राधाके कलेजेके पार हो गया । “मेरा उसका क्या मुकाबिला ! मेरे लिए उस बाज़ारी औरतसे ईर्ष्या करना भी अपमान है । इसके अलावा कौन-सा राजा या ज़र्मीदार होता है जिसके एक-आध रसूल नहीं होती ? बाज़ारकी नाचनेवाली कभो घरकी मालकिन का मुकाबिला कर सकती है ?”

राधा यह आघात सहन न कर सकी। चुपकेसे अपने कमरेमें वापस चली आई। “बाज़ारकी नाचनेवाली कभी घरकी मालकिनका मुकाबिला कर सकती है ?” रानीके शब्द अब तक उसके कानोंमें गूँज रहे थे। वह उसको परेशान कर रहे थे। पागल बना रहे थे। इन शब्दोंमें मानो रानीने राधाको आईना दिखा दिया था, जिसमें उसको वास्तविकताका भयानक रूप दिखाई पड़ गया था। उस आईनेमें अपनी असली हैसियत जानकर राधा काँप उठी।

यदि राधामें सामाजिक और आर्थिक प्रश्नोंपर दार्शनिक दृष्टिसे विचार-विनिमय करनेकी योग्यता होती तो वह उन समस्याओंपर विचार करती जो उसकी वर्तमान पतित अवस्थाका कारण थीं। मगर, इस समय तो वह सिर्फ़ एक औरत थी—जिसका सोया हुआ नारीत्व सइसा जाग उठा था। वह तो बस इतना ही जानती थी कि—“बाज़ारकी नाचनेवाली कभी घरकी मालकिन का मुकाबिला नहीं कर सकती।” उसका हृदय सहा अनेक लालसाओं और उमंगोंसे भर उठा। “काश, मैं भी किसीकी ब्याहता बीबी होती ! काश, मेरी भी औलाद होती ! काश, मैं भी माँ कहलाती ! काश, मैं भी किसी घरकी मालकिन होती—चाहे वह घर भोपड़ा ही क्यों न हो !” यह सब असंभव प्रतीत होता था, मगर फिर भी चारों तरफ़के अंधकारमें प्रकाशकी एक किरण दिखाई दी। क्या राजाने हज़ारों बार अपने प्रेमकी घोषणा नहीं की थी ? क्या उसने यह नहीं कहा था, “राधा ! तुम्हारे लिए मैं आकाशके तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ।” ?.....क्या उसने यह नहीं कहा था, “मैं धर्म और समाजके बंधनोंको नहीं मानता। मेरा धर्म तो बस प्रेम है।” ? अगर उसको राधासे वास्तवमें इतना प्रेम था तो कैसे वह उससे शादी करनेसे इनकार कर सकता था ? और यदि सचमुच राज़ी हो जाए !—इस विचार-मानसे राधाका चेहरा चमक उठा। गृहस्थ-जीवनकी शान्ति, समाजमें एक प्रतिष्ठित स्थान, संतान ! मगर, एक विचार था जो राधाके इस सुंदर चित्र

को बिगाड़ रहा था। विवाहके बाद समाज उसे नाचनेकी इजाज़त नहीं देगा और नाच संधाके जीवनका एक आवश्यक भाग था। उसके बिना उसका जीवन फीका और अपूर्ण रह जाएगा। नाचका शौक उसकी रग-रगमें समाया हुआ था। वह न केवल नाचना चाहती थी बल्कि एक मह-फ़िलके सामने नाचना चाहती थी, “वाह-वाह” के नारों और तालियोंकी गूँज सुननेकी इच्छुक थी। वह स्वप्न देखा करती थी कि एक दिन किसी बड़े थिएटरके रंगमंचपर अपना नाच दिखाकर हज़ारों व्यक्तियोंसे अपनी प्रशंसा और अभिनन्दन कराएगी। जबसे वह राजाकी रखैल बनकर आई थी उसको सिर्फ़ एक आदमीके सामने नाचना पड़ता था। यही एक बात उसके दिलमें खटकती रहती थी।

मगर, हमेशाके लिए नाचका विचार छोड़ देना राधा जैसी कलाकारके लिए कैसे सम्भव था ? मगर, समाजमें मान प्राप्त करना भी तो कोई सहज काम न था। राधा जैसी सैकड़ों वेश्याएँ इसी आशामें जीवनके दिन गुज़ार देती हैं। पत्नी और माँ बननेके लिए उसे अपने नाचका बलिदान देना ही होगा। राधाने जी कड़ा करके निश्चय कर ही लिया।

वरामदेमें परिचित कदमोंकी आइट सुनाई दी और दिनभरके शिकारसे थका हुआ राजा अन्दर आया। “कहो जाने-मन क्या हाल है ?” उसने बंदूक फेंककर राधाको गले लगाते हुए पूछा। “यह व ताओ तुमने आज मुझे कितनी बार याद किया ?” राधाने उस्तादजीके सिखाए हुए नखरेके साथ सिर हिला दिया।

राजाने सिगरेट जलाकर धुएँके बादल उड़ाने शुरू कर दिए। शीघ्र उसने अनुभव किया कि राधा किसी गंभीर चिंतामें मग्न है। “राधा, क्या बात है ? तुम परेशान मालूम हौती हो।” और प्रेम-भरे भावसे कहा, “बताओ, मेरी जान, तुम्हें मेरी क्रसम है।”

राधाने पूरे साहसे काम लेते हुए कहा, “राजा साहब... मैं आपसे प्रेम करती हूँ—बहुत प्रेम करती हूँ।” और फिर आँखें झुकाकर बोली,

“राजा साहब, क्या हम दोनोंकी शादी नहीं हो सकती ?”

• यह सुनकर राजाको कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ । उसे माखूम या एक न एक दिन यह प्रश्न अवश्य उठेगा । उसने सोचा, “यह औरतें सब एक ही सँचेमें ढली होती हैं ।” अबतक जितनी लड़कियाँ उसने रखी थीं सबने कुछ महीनोंके बाद विवाहकी इच्छा प्रकट करके राजाका मज़ा किरकिरा कर दिया था । राधा भी आखिर उसी ढर्रेपर आ गई । यद्यपि राजाको आशा हो चली थी कि कमसे कम राधा तो समझदार साबित होगी ।

“आप क्या सोच रहे हैं, राजा साहब ?” राधाने गलेमें बाहें डालते हुए पूछा । “क्या आप मुझसे इतना भी प्रेम नहीं करते कि शादी कर लें ?

“यह लड़की अब जी को जंजाल हुई जा रही है,” राजाने सोचा । मगर वह खूबसूरत थी और अभी तक उससे भोगी-विलासी राजाका मन नहीं भरा था । अभी कुछ दिनोंतक उसको किसी न किसी प्रकार राज्ञी रखना चाहिए ।

“प्यारी, मेरी जान राधा !” और यह कहकर उस अनुभवी ऐय्याशने राजाको खींचकर गलेसे लगा लिया और उसके गालों और होठोंपर चुंबनों की वर्षा कर दो । “तो क्या तुम भी इस शादी-ब्याहके ढकोसलोंको मानती हो ? मैं तो बस एक ही चीज़पर विश्वास रखता हूँ—वह है प्रेम ! प्रेम जो दो दिलोंको मिलाता है । प्रेम जो औरत-मर्दके संबंधका आधार है । मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे प्रेम करती हो । अगर किसी पंडितने हम दोनोंके पल्लू बाँध दिए और हवनके चारों तरफ़ फिराकर कुछ श्लोक पढ़ दिए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा ? मैं तो कहता हूँ प्रेमको समाजके बन्धनोंमें जकड़ना एक पाप है, महापाप !”

राधा राजाकी गोदमें लेटी हुई थी, उसके मज़बूत हाथोंमें जकड़ी हुई । राजाके तर्कसे वह प्रभावित न हुई—“मगर राजा साहब, हमें रहना तो इसी संसारमें है और यह समाज वगैरे ब्याहके प्रेमको पाप समझता है । मैं आपकी

होना चाहती हूँ । सदा-सदाके लिए ।”

“राधा, प्रिये ! मेरी तो तुम सदा रहोगी । मेरे जीवनमें आजतक कोई ऐसी लड़की नहीं आई जिससे मैंने इतना प्रेम किया हो जितना तुमसे करता हूँ और न अब कभी आएगी । मैं तुम्हारे गालोंकी क्रम खाता हूँ कि मैं सदा तुमसे प्रेम करूँगा ।” और राधाके गाल चूमकर कहा, “लो, यह हो मया हमारा ब्याह.....दो दिल मिले और ब्याह हो गया.....रहा समाज, तो मैं किलीका दास नहीं हूँ । हज़ारोंको खिलाकर खाता हूँ । मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता.....और देखो, प्यारी ! मैं तो विलायत भी हो आया हूँ । वहाँ तो कोई शादी-ब्याहमें विश्वास नहीं करता । बस, सब प्रेमके पुजारी हैं ।”

राजा बात बनानेमें निपुण था । राधा जैसी सीधी और अनुभवहीन लड़कीको फुसलाकर राहपर ले आना उसके लिए बाएँ हाथका काम था । शादीकी इच्छा प्रेमकी आगमें झुलसकर रह गई ।

किसीने दरवाज़ा खटखटाया और एक लौंडीने प्रवेश किया । “राजा साहब !.....रानी साहिबा याद फ़रमाती हैं ।” और फ़ौरन ही राजा ज़नाने महलमें चला गया और जाते हुए कह गया, “अभी आया, राधा ।”

राधाके हृदयमें एक खलबली मची हुई थी । उसकी समझमें न आता था कि हँसे या रोए ! एक तरफ़ इस बातकी प्रसन्नता थी कि राजा जैसा सुंदर और धनी आदमी उसपर मंत्र-मुग्ध था, दूसरी तरफ़ गृहस्थ-जीवनका जो काल्पनिक भव्य महल उसने बनाया था उसके खगडहर !

बुढ़िया लक्ष्मीके सिसकियाँ लेनेकी आवाज़ आई तो राधाने मुड़कर देखा । वह बेचारी एक कोनेमें बैठी खूब बहा रही थी । “क्यों लक्ष्मी और हुआं तुम्हें ?” राधाने उसके निकट जाकर पूछा । वह अक्सर लक्ष्मिवानेकी सोचा करती थी कि उस बुढ़ियाने किस प्रकारका जीवन व्यतीत किये करे मगर आजतक उससे सवाल करनेकी नौबत न आई थी । वह स्वभावतःह आज़ाद हृदय थी और किसीको रोता देखकर उसका दिल भर आता था । हुई तो

लक्ष्मी ! बोल न ! क्या बात है ?”

• “कुछ नहीं, बाईजी” बुढ़ियाने आँसू पोंछते हुए कहा ।

“नहीं-नहीं, कोई वजह तो जरूर होगी ?”

बुढ़ियाने सिसकियाँ भरते-हुए कहा, “बाईजी, आप बुरा न मानें तो कहूँ ।” और फिर इजाजत पाकर उसने एक ठंडी साँस ली । “आपकी और राजा साहबकी बातें सुनकर मुझसे न रहा गया । पच्चीस बरस पहले इनके बाप, बड़े राजा साहब, मुझे भी इसी-तरह बहला लाए थे और जब मैंने शादी करनेको कहा तो मुझसे इसी तरहकी बातें की थीं ।”

राधाकी आँखोंके सामनेसे एक परदा हट गया । उसने लक्ष्मीके भुर्रि-योंदार चेहरेकी तरफ़ देखा और फिर आईनेमें अपने सुन्दर मुखको । “क्या पच्चीस वर्ष बाद मेरा भी यही परिणाम होनेवाला है ?”—यह सोचा और एक क्षणमें उसने निश्चय कर लिया ।

अगली रातको राधाके कोठेपर फिर रोशनी हुई और राधाके घुँघरुओंकी भंकारसे तमाम बाज़ार गूँज उठा !



दारोगा साहब



“दारोगा साहब !” एक कान्स्टेबलने अदबसे सलाम करते हुए कहा ।

“क्या है ?”

“हुजूर उस आज़ादके बच्चेने तो नाकमें दम कर दिया है । अबतक तो उसने अपने साथियोंके नाम बताए नहीं हैं । कहिए तो एक बार फिर कोशिश कर देखूँ ।”

“ हाँ, एक-आध घण्टे में हाज़िर करो ।”

कान्स्टेबल सलाम करके चला गया । दारोगा साहबने पानोंकी डिविया खोली । एक पान खाया और सोचमें पड़ गए । एक हफ़्तेमें इस आज़ादने उनका आराम हराम कर रखा था । रात-दिन यही फ़िक्र रहती कि किस तरह उससे उसके साथियोंके नाम पता लगाए जायें ? मगर तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं । पहले मामूली तरहसे पूछा । फिर माफ़ी और इनामका लालच दिलाया । इसपर भी उसकी ज़बान न खुली तो थोड़ी बहुत मरम्मत की गई । आखिरमें तंग आकर और सख़्ती की । ज़ूतोंसे पिटवाया । काल-कोठरीमें बन्द किया । उलटा लटकवाया । मगर वहाँ एक “नहीं” के अलावा दूसरा ज़वाब न था । दारोगा साहब अपने रोब और दबदबके लिए तमाम सूबेमें मशहूर थे । मुखज़िमोंकी ज़बान खुलवानेकी उनको वह वह तरकीबें याद थीं कि दूर-दूरके थानेदार उनसे मशवरा करने आते थे । सख़्तसे सख़्त मुज़रिम उनके नामसे काँपता था, मगर यह आज़ाद अजब सख़्त-जान था । जब उसपर तमाम तरकीबें बेकार साबित हुईं तो :

दारोगा साहबने अपने तरक़्शका आखिरी तीर इस्तेमाल किया जो उसकी तुरह कमज़ोर और पढ़े-लिखे राजनीतिक कैदियोंके लिए खासतौरसे ईजाद किया गया था। कुछ दस नम्बरके बंदूकशिको बुलवाकर उनको कुछ खुफिया तौरसे बतलाकर एक-एक बोटल उरेंकी दी गई और जब उनपर खूब नशा चढ़ गया तो उनको भी आज़ादके साथ बन्द कर दिया। रात भरमें उन्होंने आज़ादको मार-मारकर अधमरा कर दिया। हर घंटेके बाद जब पहरेदारने पूछा—“क्यों, अब भी अपने साथियोंके नाम न बताएगा ?” तो यही जवाब मिला, “मरने से पहले तो नहीं !”

आज़ादकी इस ज़िदको कैसे तोड़ा जाय ? रात-दिन यह सवाल दारोगा साहबके दिमागमें चक्कर काटता रहता था। देखनेमें कमबख्त दुबला-पतला कमज़ोर-सा नौजवान था, मगर उसके खिलाफ इलज़ाम इतना संगीन था और उसके साथियोंके नाम इस कद्र ज़रूरी थे कि दारोगा साहबकी सख्त बंदनामी होती अगर उससे कबूल न कराया जाता। कई महीनेसे उसके खिलाफ़ रिपोर्टें आ रही थीं कि यह और इसके साथी किसानोंमें बग़ावत फैला रहे हैं। बावजूद युनिवर्सिटीके एक प्रेज़ेण्ट होनेके आज़ादने एक गाँवमें रहना पसन्द किया था। मानपुर, जहाँ वह रहता था, एक छोटा-सा गाँव था। मुश्किलसे एक हज़ारकी आबादी होगी। सिर्फ़ आज़ाद ही एक पढ़ा-लिखा आदमी वहाँ रहता था। उसने जाते ही गाँवमें एक स्कूल खोल दिया। दिनमें बच्चोंको और रातको बड़ी उम्रके किसानोंको पढ़ाता। शुरू-शुरूमें गाँववाले उसके डरे रहे, लेकिन जल्द ही उसने अपने सद्भाव और सेवासे सबको मुग्ध कर लिया था। किसी को खत लिखवाने या पढ़वानेकी ज़रूरत होती तो आज़ादके पास आता। किसीको चोट लग जाती तो अपने दवाईयोंके बक्स समेत मददको पहुँच जाता। धीरे-धीरे उसने किताबी पढ़ाई-लिखाईके अन्वावा गाँववालोंके सफ़ाई, स्वास्थ्य और व्यायामकी भी शिक्षा देनी शुरू की। यहाँ तक तो उसके कामपर किसीने एतराज न किया, गो पुलिसके रजिस्ट्रारमें उसका

नाम मुश्तबा राजनीतिक कार्यकर्ताओंकी फेहरिस्तमें पहले ही शामिल था। लेकिन, कुछ अरसेके बाद उसके खिलाफ शिकायतें आने लगीं। गाँवके महाजन रामलालको उससे शुरु ही से चिढ़ थी, इसलिए कि वह किसानोंको कर्जा लेनेके खिलाफ मड़काता था। और अगर किसीको कर्जा लेना होता तो वह उसके साथ महाजनके घर तक जाता और अपने सामने बाकायदा रसीद वगैरह लिखवाता। इसके पहले अनपढ़ किसान हमेशा महाजनकी लिखी हुई रसीदपर आँख बन्द करके अँगूठे का निशान बना देते थे और अपनी क्रिशतोंकी रसीद माँगनेका तो उन्हें कभी ख्याल भी न आया था। लेकिन आज्ञादने उनको महाजनके सब हथकण्डोंसे वाकिफ कर दिया था, जिससे उसकी आमदनी पहलेसे आधी भी न रही थी।

बशीरखॉ पटवारी भी आज्ञाद से कोई खुश न था। जबसे उसने गाँवके मामलोंमें दखल देना शुरू किया था किसानोंसे लगान, पानीका महसूल वगैरहके सिलसिलेमें रिश्वत लेना मुशिकल हो गया था। आजतक इस क्रिस्मकी आमदनीको वह अपना पैदाइशी हक समझता था और गाँववाले भी उसको खुश रखने ही में अपनी खैरियत समझते थे। लेकिन अब...? अब तो वह उससे एक नए और अजीब अंदाज़में बात करते थे। एक दिन तो हद हो गई। बुधुआ किसानसे जब उसके लगानकी अदायगीके सिलसिलेमें नज़राना माँगा गया तो वह बोला, “पटवारीजी, अब वह दिन गये। तुम्हें सरकार से हमारी खिदमत की तनख़ाह मिलती है। नज़राना काहे वास्ते चाहिए ?” बादमें मालूम हुआ कि इस बेअदब बातचीतसे एक घंटे पहले ही आज्ञादने बुधुआसे बहुत देरतक बातें की थीं।

पंडित शिवप्रसाद भी, जो गाँवके मन्दिरका महन्त था, आज्ञादकी मौजूदगीसे खुश न था। उसको शिकायत थी कि यह नौजवान अलूतोंको समाजके विरुद्ध उभारता है। मेहतरोंका एक खानदान था जो हमेशासे गाँवकी सफाईका काम करता आया था। आज्ञादके कहनेसे उन मेहतरोंने महन्त, पटवारी, महाजन वगैरहके घरोंकी सफाईके बदलेमें जूटा खाना लेनेसे

धी, तरकारी चाहिए तो नकद देकर ले जाओ। तहसीलदार साहब जब दिसंबरमें खुद दौरपर गए और मानपुरमें टिके तो उनकी बेइच्छाती इससे भी ज्यादा हुई। जब उनकी मोटर गाँवमें पहुँची तो सिवाय मुखिया, पटवारी, महाजन रामलाल, पंडित शिवप्रसाद और मौलवी मौलाबखशके किसी गाँववालेने उनका स्वागत न किया। इससे पहले जब उनकी मोटर आती थी तो गाँव-भरके नंगे, गंदे और भूखे बच्चे उनकी मोटरको घेर लेते थे। मर्द अदबसे फ़ासलेपर क्रतार लगाकर सलाम करते और औरतें अपने-अपने घरोंमेंसे भाँककर 'तहसीलदार' और उनके 'मोटर कार' के दर्शन करतीं। तहसीलदार साहब शानसे उतरते, गरदनके हल्केसे इशारेसे अपनी प्रजाके सलामका जवाब देते, दो-चार पैसे बच्चोंके भुंडमें फेंकते और उनका रिश्वतके मालसे तैयार मोटा शरीर उनके शानदार सफ़ेद खेमेमें घायब हो जाता। लेकिन इस साल तहसीलदारको बहुत हैरानी हुई और हैरानीसे ज्यादा गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि उनकी मोटरकी आवाज़ने गाँवमें कोई खास हलचल पैदा नहीं की। किसान अपने काममें लगे थे, औरतें या तो खेतोंपर रोटी लेकर गई हुई थीं या अपने-अपने घरोंमें चर्खा कातने या रई ओटनेमें लगी हुई थीं, लड़के और लड़कियाँ आज्ञादके स्कूलमें पढ़ने गए हुए थे। मतलब यह कि तहसीलदार साहबने गाँवकी बेकारीकी कमी और आत्म-सम्मानके इस प्रदर्शनको अपनी सख्त बेइच्छाती समझा। और जब उसी शामको पटवारी, महाजन, पंडित और मौलवी जैसे गाँवके चार-एक बड़े आदमियोंने एक आवाज़से आज्ञादकी शिकायत की और उसके घोर अपराधोंकी एक लंबी लिस्ट पेश की, तो क्या वजह थी कि आज्ञादका काम बिल्हा रूकावट जारी रहने दिया जाता ?

कुछ रोज़ बाद खबर मिली कि किसानोंके अगुओंकी एक कॉमिंस होनेवाली है जिसमें दुर्भिक्ष पड़ जाने और वर्षा न होनेकी वजहसे लगान न अदा करनेका फ़ैसला किया जाएगा। पुलिसने काफ़ी निगरानी रखी और पूछताछ की; मगर उस कॉमिंसके असल वक़्तकी खबर न मिली। कई दिनकी

कोशिशके बाद एक रातको सी. आई. डी. ने रिपोर्ट की कि उस वक़्त आज़ाद के मक़ानपर किसानोंके सब अगुए जमा हैं और कांफ़ेंस हो रही है। पुलिसने छापा मारा। मगर, न जाने कैसे वक़्तसे कुछ ही पहले आज़ादके साथियोंको इस घाबेकी खबर मिल गई थी और वह रातके अँधेरेमें चुपकेसे निकल गए। जब दारोगा साहब अपने जवानोंको लेकर पहुँचे तो सिवाय आज़ादके मक़ानमें कोई न था। दाँत पीसकर रह गए। तलाशी ली तो अलबत्ता काफ़ी कामके कायज़ मिले। लगान म़दा न करनेके आन्दोलनके बारेमें पूरे प्रस्ताव मौजूद थे, बिन-को पढ़कर सरकार आसानीसे उस आन्दोलनको शुरू होनेसे पहले ही कुचल सकती थी। लेकिन आन्दोलनके अगुओंके नामोंकी लिस्ट न मिल सकी, जिसके वज़ेरे आज़ादपर साज़िशका जुर्म लगाना था। दारोगा साहबने अच्छी तरहसे एक-एक कोना टटोल मारा, लेकिन कोई ऐसा कायज़ न मिला जिससे आज़ादके बाक़ी साथियोंको पकड़ा जा सकता। मिलता भी कहाँसे ? जिस कायज़की उनको तलाश थी वह तो आज़ाद उनकी आइट सुनते ही खा चुका था।

बड़े अफ़सरोँके कहनेसे दारोगा साहबने आज़ादको गिरफ़्तार कर लिया और उसकी ज़वान खुलवानेके लिए अपनी तमाम मशहूर तरकीबोंको इस्तेमाल कर दिया। उन आज़ामाई हुई तरकीबोंके बेकार साबित होनेपर वे परेशान थे।

अब कौन-सो तरकीब करूँ ?—यही सोचते-सोचते दारोगा साहब ऊँघ गए। आज घरमें बीबीने काफ़ी स्वादिष्ट खाना पकाया था। उसपर गर्मीका मौसम, दोपहरका समय। एक सिपाही पंखा खींच रहा था। खसकी टट्टी लगी हुई थी। नींद आ ही गई।

कुछ आइट हुई तो दारोगा साहबने आँखें खोलीं। कमरेके दरवाज़े बंद होनेकी वजहसे खासा अँधेरा था। कुछ नींदका नशा भी सवार था। धुँधला-धुँधला-सा नज़र आता था, मगर दारोगा साहब पहचान गए कि जिसका इंतज़ार वह कर रहे थे—वही है। आज़ादके हाथोंमें हथकड़ियाँ थी और

सिपाही रस्सी पकड़े साथ था। उसके सौम्य चेहरेपर पिछले सात दिनोंकी तकलीफों और मुसीबतोंका असर साफ़ दिखाई पड़ रहा था। मगर वह अब भी मुस्करा रहा था। आज्ञादकी डढ़ता और ज़िदसे ज़्यादा जो चीज़ दारोगा साहबको परेशान करती और गुस्सा दिलाती थी वह उसका हरदम मुस्कराना था। यह मुस्कराहट, जिसमें आत्म-विश्वासके साथ दारोगा साहबकी हरकतोंके प्रति तिरस्कार भी था, तलवारसे ज़्यादा धाव लगानेवाली और आगसे ज़्यादा खुलसानेवाली थी। आज्ञादको मुस्कराते देखकर दारोगा साहबके दिमागका पारा आसमानपर पहुँच गया। सिपाहीसे चीखकर बोले, 'देखता क्या है ! मार इसको ज़बतक यह अपने साथियोंके नाम न बताए।' "

सिपाहीने सूतकी रस्सीको जो उसके हाथमें थी दोहरा करके कोड़ा-सा बना लिया और एक कदम पीछे हटा ताकि आज्ञादकी पीठपर पूरे ज़ोरसे मार पड़ सके।

आज्ञाद बराबर मुस्करा रहा था और उसकी नज़र दारोगा साहबपर गड़ी हुई थी। बजाए डरके दारोगा साहबको मालूम हुआ कि वह उनको तिरस्कार और दयाकी दृष्टिसे देख रहा है।

सिपाहीने रस्सीके कोड़ेको आज्ञामानेके लिए हिलाया, अपने हाथ और आज्ञादकी कमरके बीच फ़ासलेका अंदाज़ा किया और पूरी ताक़तसे वार किया।

दारोगा साहबके मुँहसे एक चीख़ निकल गई। मालूम होता था कोड़ा गोया उनकी ही कमरपर पड़ा है।

आज्ञादके चेहरेपर मुस्कराहट उसी तरह कायम थी।

सिपाही सिर झुकाए अपने कामसे लगा रहा। घड़ाघड़, घड़ाघड़। वह आज्ञादकी कमरपर बराबर कोड़े चला रहा था।

दारोगा साहब तकलीफ़से चीख़ रहे थे। देखनेमें तो सिपाही आज्ञादकी कमरपर वार कर रहा था, मगर हर वारकी चोट उनकी कमरपर पड़ती थी।

और आज्ञाद बराबर मुस्करा रहा था। मालूम होता था दारोगा साहबकी तकलीफ़पर हँस रहा है।

सिपाहीने यह देखकर कि आज्ञादपर उसकी मारका कोई खास असर नहीं हो रहा है और ज़यादा ताक़तसे कोड़ा चलाना शुरू किया।

दारोगा साहब तकलीफ़से चीख़ते रहे। उनकी कमर कोड़ोंकी लगातार बौछारसे फोड़की तरह दुख रही थी।

सिपाहीने एक और भरपूर हाथ आज्ञादकी कमरपर चलाया तो दारोगा साहबसे बरदास्त न हो सका। मालूम होता था अगर एक भी और कोड़ा उनकी कमरपर पड़ा तो उनकी जान निकल जाएगी।

“बस, बस !” दारोगा साहब बेतहाशा चीखे। “बंद करो, बंद करो !” यह कहकर वह कुर्सीसे उठना ही चाहते थे कि उनकी आँख खुल गई।

कमरा खाली था। “तो क्या मैंने छवाब देखा है ?” उन्होंने सोचा, मगर उनका सारा शरीर पसीनेसे सराबोर था। और कमर...!...और कमरमें चोटकी तकलीफ़से सख़्त दर्द हो रहा था।

परेशान होकर दारोगा साहबने पीछे मुड़कर देखा। उनकी छोटी लड़की खड़ी उनकी कमर थपक रही थी। बापकी घबराहट देखकर बच्ची खिलखिलाकर हँस पड़ी।

बरामदेमें क्रदमोंकी आहटे हुई और सिपाही आज्ञाद समेत दाखिल हुआ। वह कमबख़्त अब भी मुस्करा रहा था।

“क्या हुक्म है, हुज़ूर ?” सिपाहीने पूछा। दारोगा साहबने एक हाथसे अपनी कमरको टटोला, दूसरेसे चेहरेका पसीना साफ़ किया, ताकि परेशानी जाहिर न हो। मगर उनकी आवाज़ भी क्रावूमें न थी।

“क.....क.....क्या है ? क.....क.....कौन है ?” सुबेका सबसे रोबदार दारोगा एक मुजरिमके सामने हक़ला रहा था। “हाँ..... यह आज्ञाद साहब.....इन.....इन.....इनको रिहा कर दो। साज़िशका कोई साबूत नहीं मिला।”

आजाद दारोगा साहबकी परेशानी देखकर मुस्कराया, जैसे वह उसकी असल वजहसे धाकिए था ।

सिपाहीने खयाल किया कि दारोगा साहबके दिमागपर गर्मीका असर हो गया है । मगर हुकूमकी तामीज़में हथकड़ी खोल दी और आजादके साथ बाहर चला गया ।

दारोगा साहबने अपनी धरतीकी तरफ मुहकर देखा । वह अपने छोटे-छोटे हाथोंसे उनकी कमर फिर थपक रही थी, गोया उनको एक अच्छे कामकी शान्नाशी दे रही हो ।

उस दिनसे दारोगा साहबके रोबका खात्मा हो गया है और उनकी गिनती सूबेके सबसे नाकारा पुलिस-अफसरोंमें होती है ।

